



Central University of Himachal Pradesh

(ESTABLISHED UNDER CENTRAL UNIVERSITIES ACT 2009)

Dharamshala, Himachal Pradesh-176215



NAAC Criterion-V

Key Indicator –5.1.3

2) Copy of circular/brochure/report of the event photographs with date and caption for each scheme or event

5.1.3Evidences



**Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala,
Kangra**



Central University of Himachal Pradesh

(ESTABLISHED UNDER CENTRAL UNIVERSITIES ACT 2009)

Dharamshala, Himachal Pradesh-176215



S.No	Heads	Page Number
1	Copy of circular/brochure/report of the event photographs with date and caption for each scheme or event	1-201

LIST OF CAPACITY DEVELOPMENT AND SKILL ENHANCEMENT ACTIVITIES

1. Soft skills

2. Language and communication skills

3. Life skills (Yoga, physical fitness, health and hygiene)

4. Awareness of trends in technology

S. No.	NAME OF PROGRAMME	DEPARTMENT	DATE	PAGE NO.
1.	WORKSHOP ON PREVENTION OF SUBSTANCE ABUSE	DEPARTMENT OF SOCIAL WORK	11-12 FEBRUARY 2017	1-2
2.	AWARENESS AND SENSITIZATION PROGRAM ON PREVENTION OF SUBSTANCE ABUSE	DEPARTMENT OF SOCIAL WORK	13 FEBRUARY 2017	3-4
3.	INTERNATIONAL YOG DAY CELEBRATIONS	YOG DHARA CLUB CUHP	21 JUNE 2017	5
4.	NATIONAL SEMINAR ON EMERGING TRENDS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY	SCHOOL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES	24 AUGUST 2017	6
5.	XXII NATIONAL SYMPOSIUM (NSU-2017) ON ADVANCES IN ULTRASONICS AND MATERIALS RESEARCH	DEPARTMENT OF PHYSICS & ASTRONOMICAL SCIENCE	8-10 NOVEMBER, 2017	7-11
6.	WORKSHOP ON MEDIA & INFORMATION LITERACY FOR RESEARCHERS	CUHP LIBRARY AND CENTRE FOR DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA SYSTEMS	25 OCTOBER-1 NOVEMBER, 2017	12
7.	3-DAY CONFERENCE ON THEME 'IN THE PATH OF BUDDHA AND GANDHI; A CONVENTION FOR GLOBAL PEACE'	CUHP	2-4 DECEMBER 2017	13-16
8.	ONE DAY CAPACITY BUILDING PROGRAMME ON 'COMPUTER APPLICATION FOR SOCIAL WORKERS'	DEPARTMENT OF SOCIAL WORK	2017-18	17
9.	INTERNATIONAL FACT CHECK DAY CELEBRATION EVENT	DEPARTMENT OF JOURNALISM AND CREATIVE WRITING	3 APRIL 2018	18
10.	ONE-WEEK WORKSHOP ON ECONOMETRICS	DEPARTMENT OF ECONOMICS & PUBLIC POLICY	7-11 MAY 2018	19-20
11.	TWO-DAY WORKSHOP ON	DEPARTMENT OF	14-15 MAY 2018	21-22

	ECONOMETRICS	ECONOMICS & PUBLIC POLICY		
12.	INTERACTION AND DEBATE SESSION	SCHOOL OF JOURNALISM, MASS COMMUNICATION & NEW MEDIA	16 MAY, 2018	23
13.	ONE DAY WORKSHOP ON FEATURE WRITING	DEPARTMENT OF JOURNALISM AND CREATIVE WRITING	22 OCTOBER 2018	24
14.	A SESSION ON COUNSELLING THEORY AND PRACTICE AND STRESS COPY MECHANISM	DEPARTMENT OF SOCIAL WORK	2018	25
15.	WORKSHOP ON NUCLEAR FUSION REACTIONS AND SIMULATIONS	DEPARTMENT OF PHYSICS & ASTRONOMICAL SCIENCE	12-13 NOVEMBER, 2018	26-27
16.	IN SILICO APPROACH FOR MODELLING NEW MATERIALS: METHODOLOGY & APPLICATIONS	DEPARTMENT OF PHYSICS & ASTRONOMICAL SCIENCE	JANUARY 14-20, 2019	28-36
17.	ONE-WEEK WORKSHOP ON ECONOMETRICS	DEPARTMENT OF ECONOMICS	13-17 MAY 2019	37-38
18.	TWO DAYS WORKSHOP ON INDIAN MATHEMATICS	DEPARTMENT OF MATHEMATICS	13-14 SEPTEMBER, 2019	39-41
19.	SCREENING OF FEATURE FILM, MASAAN	SCHOOL OF JOURNALISM, MASS COMMUNICATION & NEW MEDIA	16 OCTOBER, 2019	42
20.	WORKSHOP ON FACT CHECKING AND NEWS VERIFICATION	SCHOOL OF JOURNALISM, MASS COMMUNICATION & NEW MEDIA	18 OCTOBER, 2019	43
21.	TWO-DAY NATIONAL SEMINAR ON ANALYTICAL ASPECTS OF DYNAMICS	SRINIVASA RAMANUJAN DEPARTMENT OF MATHEMATICS	22-23 NOVEMBER, 2019	44-47
22.	WEBINAR ON 'STOCK MARKET IS A MIRROR OF ECONOMY'. A MYTH OR REALITY	SCHOOL OF COMMERCE AND MANAGEMENT STUDIES	9 JANUARY, 2020	48
23.	WEBINAR ON 'ONLINE ACADEMIC RESOURCES AND SEARCH TOOLS'	SCHOOL OF COMMERCE AND MANAGEMENT STUDIES	26 FEBRUARY, 2020	49
24.	WEBINAR ON "PREPARING REVIEW OF STUDIES THROUGH SLR AND BIBLIOMETRICS" FOR	SCHOOL OF COMMERCE AND MANAGEMENT	08 MARCH, 2020	50-53

	RD STUDENTS	STUDIES		
25.	ONLINE WEBINAR ON“ GENOME-WIDE CHANGES UNDER MICROGRAVITY	DEPARTMENT OF PLANT SCIENCE	15 MARCH, 2020	54-55
26.	ONLINE NATIONAL CONFERENCE “ENVIRONMENTAL POLLUTANTS AND CANCER (4 SESSIONS)	SCHOOL OF LIFE SCIENCES	20-21 MAY, 2020	56
27.	INTERNATIONAL WEBINAR ON INNOVATION IN CROP IMPROVEMENT UNDER CHANGING CLIMATE CONDITIONS (3 SESSIONS)	SCHOOL OF LIFE SCIENCES	28-29 MAY, 2020	57-58
28.	NATIONAL WEBINAR ON “STRATEGY FOR MANAGING PERSONAL FINANCE INCLUDING MUTUAL FUNDS DURING AND AFTER COVID-19”	HPKVBS, SCHOOL OF COMMERCE AND MANAGEMENT STUDIES	10 JULY, 2020	59
29.	WEBINAR ON AGRICULTURE REFORM ACTS, 2020:‘A ROAD AHEAD’	SCHOOL OF COMMERCE AND MANAGEMENT STUDIES	4 DECEMBER, 2020	60
30.	E-WORKSHOP ON ADVANCED EXCEL	SCHOOL OF COMMERCE AND MANAGEMENT STUDIES	5 DECEMBER, 2020	61
31.	WORKSHOP ON ‘SAMPLE SIZE DETERMINATION; METHODOLOGY AND ISSUE’	SCHOOL OF COMMERCE AND MANAGEMENT STUDIES	20 FEBRUARY	61
32.	INTERNATIONAL WORKSHOP ON GEOMETRY OF CONTINUOUS FRACTIONS:RAMANUJAN AND HIS SUCCESSORS	SRINIVASA RAMANUJAN DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND CENTRE FOR VEDIC MATHEMATICS STUDIES	14-15 SEPTEMBER 2020	62-64
33.	NATIONAL WEBINAR ON COMMODITY DERIVATIVES MARKET	SCHOOL OF COMMERCE AND MANAGEMENT STUDIES	17 SEPTEMBER	65
34.	WEBINAR ON LABOR REFORM,2020: A ROAD AHEAD.	SCHOOL OF COMMERCE AND MANAGEMENT STUDIES	OCTOBER 2020	66
35.	WEBINAR ON PERSONAL	SCHOOL OF	25 SEPTEMBER	67

	BRANDING ON LINKED IN	COMMERCE AND MANAGEMENT STUDIES	2020	
36.	INTERNATIONAL WORKSHOP ON SRINIVASA RAMANUJAN: THE MAN BEYOND INFINITY	SRINIVASA RAMANUJAN DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND CENTRE FOR VEDIC MATHEMATICS STUDIES	22 DECEMBER 2020	68-71
37.	ONLINE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THEORETICAL ASPECTS OF NUCLEAR PHYSICS	DEPARTMENT OF PHYSICS AND ASTRONOMICAL SCIENCES (DPAS)	FEBRAURY 15-20, 2021	72-76
38.	WEBINAR ON 'WOMEN IN SCIENCE, EDUCATION AND RESEARCH'	SCHOOL OF LIFE SCIENCES	24 FEBRUARY, 2021	77
39.	MODEL UNITED NATIONS (MUN)	DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE	1 SEPTEMBER, 2021	78
40.	NATIONAL WEBINAR ON 'RELEVANCE OF VEDIC MATHEMATICS IN TODAY'S ERA- आज के संदर्भ में वैदिक गणित की प्रासंगिकता'	SRINIVASA RAMANUJAN DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND CENTRE FOR VEDIC MATHEMATICS STUDIES	3 SEPTEMBER, 2021	80-81
41.	SCREENING OF FEATURE FILM, EEB ALLAY OO! AND HIGH GROUNDS AND FILM APPRECIATION ESSAY COMPETITION	SCHOOL OF JOURNALISM, MASS COMMUNICATION & NEW MEDIA	26 OCTOBER, 2021	82-85
42.	RESEARCH METHODOLOGY WORKSHOP	DEPARTMENT OF ECONOMICS & PUBLIC POLICY	27 OCTOBER-1 NOVEMBER 2021	86-88
43.	TRAINING PROGRAM ON "REPORTING OF EDUCATION RELATED NEWS"	SCHOOL OF JOURNALISM, MASS COMMUNICATION & NEW MEDIA	28 OCTOBER, 2021	89-92
44.	WORKSHOP – संस्कृत सम्भाषण कार्यशाला	DEPARTMENT OF SANSKRIT	09-23 NOVEMBER, 2021	93-100
45.	LECTURE ON 'MUSHROOM CULTIVATION – A CONSENSUS OR CORUNDUM'	DEPARTMENT OF PLANT SCIENCE	15 NOVEMBER, 2021	101-102
46.	ONE WEEK NATIONAL WORKSHOP (ONLINE) ON PRINCIPLES OF VEDIC MATHEMATICS	SRINIVASA RAMANUJAN DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND	8-12 NOVEMBER 2021	103-105

		CENTRE FOR VEDIC MATHEMATICS STUDIES		
47.	SPECIAL LECTURE ON 'BASIC CONCEPTS OF MATHEMATICS'	DEPARTMENT OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION	22 NOVEMBER 2021	106
48.	LECTURE ON 'NEWSPAPER SEMIOLOGY AND ADVERTISING'	DEPARTMENT OF JOURNALISM AND COMMUNICATION	24 NOVEMBER, 2021	107
49.	MODEL UNITED NATIONS ON THE TRAJECTORY OF AFGHANISTAN'S FUTURE	DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE	10 DECEMBER, 2021	108-114
50.	CELEBRATION OF NATIONAL MATHEMATICS DAY	SRINIVASA RAMANUJAN DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND CENTRE FOR VEDIC MATHEMATICS STUDIES	22 DECEMBER, 2021	115-118
51.	LECTURE ON 'MONETARY POLICY'	DEPARTMENT OF JOURNALISM AND COMMUNICATION	31 DECEMBER, 2021	119
52.	NATIONAL WORKSHOP ON COMMUNICATION AND LEADERSHIP SKILLS	DEPARTMENT OF HISTORY	23 JANUARY, 2022	120-122
53.	TWO DAYS ONLINE NATIONAL SEMINAR ON "EMERGING TRENDS IN INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES"	DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE	27 – 28 JANUARY 2022	123-125
54.	GUEST LECTURE ON "VARIABILITY OF OUR NEAREST STAR THE SUN AND ITS IMPACT ON OUR LIFE"	DEPARTMENT OF PHYSICS AND ASTRONOMICAL SCIENCE	28 JANUARY 2022	126-129
55.	ONLINE LECTURE ON "TOO MUCH INFORMATION"	DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE	28 JANUARY 2022	130-139
56.	HACKATHON	UDBHAV KENDRA AND INSTITUTE INNOVATION COUNCIL	29-30 JANUARY, 2022	140
57.	ONLINE LECTURE ON "EDUCATION AND LEARNING: A JOURNEY FROM GURUKUL TO GOOGLE"	DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE	29 JANUARY, 2022	141-144

58.	CELEBRATION OF CUHP FOUNDATION WEEK, ATAMNIRBHAR BHARAT: CHALLENGES AND POLICY OPPORTUNITIES	ECONOMIC SOCIETY	30 JANUARY, 2022	145-148
59.	WEBINAR (ONLINE) ON OCCASION OF CUHP FOUNDATION WEEK: CRYPTOGRAPHY AND CYBER SECURITY	SRINIVASA RAMANUJAN DEPARTMENT OF MATHEMATICS	30 JANUARY, 2022	149-151
60.	NATIONAL WEBINAR ON OCCASION OF CUHP FOUNDATION WEEK: RESEARCH IN VEDIC MATHEMATICS	SRINIVASA RAMANUJAN DEPARTMENT OF MATHEMATICS	31 JANUARY, 2022	152-154
61.	ONLINE INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT TRENDS IN NUCLEAR PHYSICS	DEPARTMENT OF PHYSICS AND ASTRONOMICAL SCIENCES (DPAS)	16- 18 MARCH, 2022	155-164
62.	SEMINAR ON “NATIONAL WILD ORNAMENTALS OF HIMALAYAS”	HIMALAYAN LIFE SCIENCE SOCIETY AND VAIDYA SUSHEN CLUB (DEPARTMENT OF PLANT SCIENCE)	7 MARCH, 2022	165
63.	SEMINAR ON “DISEASE MANAGEMENT IN RICE AND WHEAT”	HIMALAYAN LIFE SCIENCE SOCIETY AND VAIDYA SUSHEN CLUB (DEPARTMENT OF PLANT SCIENCE)	8 MARCH, 2022	166-167
64.	SEMINAR ON “WILD EDIBLE TUBERS OF NORTH WESTERN HIMALAYAN REGION”	HIMALAYAN LIFE SCIENCE SOCIETY AND VAIDYA SUSHEN CLUB (DEPARTMENT OF PLANT SCIENCE)	9 MARCH, 2022	168-169
65.	SELF-DEFENSE ORIENTATION PROGRAMME	DEPARTMENT OF SOCIAL WORK	9 MARCH, 2022	170
66.	SEMINAR ON “ADVANCES IN HYBRID SEED PRODUCTION OF VEGETABLE CROPS”	HIMALAYAN LIFE SCIENCE SOCIETY AND VAIDYA SUSHEN CLUB (DEPARTMENT OF PLANT SCIENCE)	10 MARCH, 2022	171
67.	YOUTH LEADERSHIP AND CAPACITY BUILDING PROGRAMME	DEPARTMENT OF SOCIAL WORK	15 MARCH, 2022	172
68.	CAPACITY BUILDING PROGRAMME - WATER CONSERVATION	DEPARTMENT OF SOCIAL WORK	29 MARCH, 2022	173-174
69.	INVITED LECTURE ON	DEPARTMENT OF	18 APRIL, 2022	175-176

	“OPPORTUNITIES FOR STUDENTS AFTER POST GRADUATION”	CHEMISTRY AND CHEMICAL SCIENCES		
70.	EVENT PLANNING SESSION	DEPARTMENT OF SOCIAL WORK	13 APRIL, 2022	177
71.	WORKSHOP-SPECIAL CLASS	DEPARTMENT OF SANSKRIT	17-24 MAY, 2022	178-184
72.	THREE DAYS ONLINE CAPACITY BUILDING PROGRAMME ON “ROLE OF YOUTH, POLICE & COMMUNITIES IN DISASTERS AND FOREST FIRE MANAGEMENT	DEPARTMENT OF SOCIAL WORK	18-20 MAY, 2022	185-186
73.	ONE DAY YOGA UTSAV	SRINIVASA RAMANUJAN DEPARTMENT OF MATHEMATICS	31 MAY, 2022	187-189
74.	TEN DAYS RESEARCH METHODOLOGY COURSE IN SOCIAL SCIENCES	DEPARTMENT OF SOCIAL WORK	7-16 JULY, 2022	190
75.	ONE DAY WORKSHOP ON ‘SUBSTANCE ABUSE AND PREVENTION’	DEPARTMENT OF SOCIAL WORK	31 AUGUST, 2022	191
76.	WORKSHOP ON “मौखिक संस्कृति और भाषा प्रलेखन”	DEPARTMENT OF PUNJABI AND DOGRI	3 SEPTEMBER, 2022	192-194



Central University of Himachal Pradesh

(Established under Central Universities Act 2009)

Shahpur, District – Kangra, Himachal Pradesh - 176206

CAPACITY BUILDING PROGRAM

FOR M.S.W. STUDENTS

ON

PREVENTION OF SUBSTANCE ABUSE

Dates: 11.02.2017-12.02.2017



Sponsored By,

National Institute of Social Defence

*Ministry of Social Justice and
empowerment*

Government of India.

Organized by,

Department of Social Work

*Central University of Himachal
Pradesh, Kangra, H.P.*



About the Workshop:

Drug, Alcohol & Substance Abuse is a big threat to the country and is destroying the present generation and humanity at large. There is a constant war between people who are trading in drugs and people who want to stop this. Government and NGO cannot do this alone; people have to make immense contribution in curbing this menace. Generating Awareness, Sensitizing, educating masses and training Workers who are dealing with this issue can be a step to curb this menace. This workshop will impart skills to Professional Social Workers to tackle with the issue in a more scientific manner.

Chairman:

Prof. Hans Raj Sharma

Convenor:

Ms. Ambreen Jamali

Objectives of Workshop:

- Activity based learning skills for social workers in prevention of substance abuse.
- Training participants to facilitate advocacy in reduction of substance abuse.
- Imparting Counseling Skills to participants to deal with drug abused.

Venue:

Seminar Hall, TAB, CUHP, Shahpur,
District Kangra, H.P., India

Report on Capacity Development and Skills Enhancement Activities

Name of the Activity: Capacity Building Program for M.S.W. Students on Prevention of Substance Abuse

Date: 11.02.2017-12.02.2017

Number of Participants: 29

**Name of the Agencies/Consultants Involved: National Institute of Social Defense
Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India**

Details of the Activity:



A Capacity Building Program for MSW Students on Prevention of Substance Abuse was organised in collaboration with National Institute of Social Defense Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India. Representatives of Gunjan Organisation for Community Development also participated in this programme.

Students informed about the government policies which are being implemented through the National Institute of Social Defence regarding prevention of substance abuse.

In the two-days event various strategies for generating awareness in the community regarding this issue was discussed. Role play sessions were conducted with the students. Sessions were also held on the role of women and families in preventing this problem. A session was conducted on the integration of social casework in this area of social work practice. This is a major area of work with school children and youth. The students were also informed about the role of community radio in generating awareness. Faculty members of Department of Social Work participated in the event.



Head

Department of Social Work

Central University of Himachal Pradesh

(Established under Central Universities Act 2009)

Shahpur, District – Kangra, Himachal Pradesh - 176206



AWARENESS AND SENSITIZATION PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDENTS

ON

PREVENTION OF SUBSTANCE ABUSE

Dates: 13.02.2017

Venue: Conference Hall,
Temporary Academic Block
Central University of Himachal Pradesh,
Tehsil Shahpur, District Kangra, H.P.

Organized by,
Department of Social Work
Central University of Himachal Pradesh
Dharamshala, District Kangra, H.P.

Sponsored by,
National Institute of Social Defense
Ministry of Social Justice and Empowerment
Government of India.

About the Workshop:

Drug, Alcohol & Substance abuse is one of the alarming contemporary issues; therefore sensitization and Awareness is required among the youths for its prevention. Numerous efforts are being carried out through various interventions for various target groups by many governmental and Non Governmental agencies, but still there is a need for awareness among masses. Thus, this proposed workshop will generate awareness among the youths for prevention of Substance abuse.

Objectives of Workshop:

- Awareness for prevention of substance abuse among university students.
- Sensitizing youths for prevention of Substance abuse

Report on Capacity Development and Skills Enhancement Activities

Name of the Activity: Awareness and Sensitization Program for University Students on Prevention of Substance Abuse

Date: 13.02.2017

Number of Participants: 200

**Name of the Agencies/Consultants Involved: National Institute of Social Defense
Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India**

Details of the Activity:

An awareness and sensitisation programme for universities students on the topic of 'Prevention of Substance Abuse' was held by the Department of Social Work.

Substance abuse has emerged as a major concern in the state of Himachal Pradesh and it is a major area of social work engagement. Social work students are being employed in the various drug rehabilitation centres and also in the various organisation which are working to curb this menace.

During the session the students were made aware about the types of substances being abused and the major causes which drive a person towards substance abuse. The students were also informed about the various legislations related to substance abuse.

The students were also told about the strategies being adopted by the government to curb this problem. Students were divided into small groups and were asked to prepare a presentation and also design awareness strategies for the community. The students used innovative techniques like street play, posters etc based on the session and made presentations. The programme ended with a vote of thanks. Faculty members of Department of Social Work participated in the event.

**Head
Department of Social Work**

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय



अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस
(बुधवार) 21 जून, 2017



॥ निमंत्रण ॥

योग केवल मात्र एक शब्द नहीं, अपितु हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच समन्वय स्थापित करने का सामर्थ्य रखता है। इसके निरन्तर अभ्यास करने से मनुष्य की आलोकिक शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं।

योग शिक्षक:- प्रो० गणेश दत्त शर्मा, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार



स्थान :- सात्विक मैरेज पैलेस, नजदीक एच.डी.एफ.सी. बैंक, द्रमण

समय:- प्रातः 07:00 बजे से 09:00 बजे तक

आप सभी इस कार्यक्रम में आकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने हेतु सादर आमंत्रित हैं।

“करो योग रहो निरोग”

आरोग्य में आत्म निर्भर बनें, दवाओं की बैसाखियों के सहारे जीना छोड़ें।

याद रखें - हमारे भीतर ही सब रोगों का समाधान है।



आयोजक:- योग धारा क्लब व उन्नत भारत अभियान, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला

INTERNATIONAL YOGA DAY CELEBRATIONS ON 21 JUNE, 2017

Registration Form
**National Seminar on Emerging Trends in
Environmental Science and Technology**
(24 August, 2017)

Name: Prof./ Dr./ Mr./ Ms.:

Designation:

Organization:

Mailing Address :

E-mail :

Presenting a poster : Yes / No

Title of the poster :

Phone: Fax:

Accommodation required: Yes / No

Details of the Bank Draft:

Draft No. & Date: Amount Rs.

Issuing Bank :

Signature

National Seminar on

Emerging Trends in Environmental Science and Technology

Organised by
**School of Earth and Environmental Sciences
Central University of Himachal Pradesh**

Dharamshala

Sponsored by
PerkinElmer India Pvt. Ltd

Venue
**Temporary Academic Block,
Central University of Himachal Pradesh
Shahpur, Kangra -176206**

24 August, 2017

Vision of the Seminar

Survival of human being on the planet Earth depends on the sustainable use of available natural resources that further needs continuous emergence of environmental sciences and its transformation to sustainable technologies. Current environmental issues viz. Global Climate Change, Solid Waste Management etc. have compelled us to understand our environment more deeply. Advanced Analytical Techniques have always been enabling environmental scientists to drive their research effectively and to gain more critical insights from their experiments. Technological advancements have always been a continuous phenomenon, and to stay updated, it is important that there is a two way knowledge sharing. To address this objective, a National Seminar on Emerging Trends in Environmental Science and Technology has been envisaged to discuss technological progresses in analytical techniques platforms and to give an overview of application horizon across multidisciplinary research conducted by environmental scientists.

Organizing Committee:

Dr. Deepak Pant, Dean, SoEES, CUHP

Dr. A. K. Mahajan, Professor, SoEES, CUHP

Dr. Musthaq Ahmad, Associate Professor, SoEES, CUHP

Dr. Ankit Tandon, Assistant Professor, SoEES, CUHP

Dr. Anurag Linda, Assistant Professor, SoEES, CUHP

Dr. D. S. Rana, Assistant Professor, SoEES, CUHP

Chairman & Convener

Dr. Deepak Pant, Dean, SoEES, CUHP

Organizing Secretaries

Dr. Ankit Tandon & Dr. Anurag Linda

Registration Fee

There is no registration fee, however, an advance registration is needed.

Abstract

Interested participants are requested to send an extended abstract of not more than 500 words, comprising of brief introduction of maximum 150 words, methodology of maximum 100 words and important results with conclusions in maximum 200 and 50 words respectively, to the chairman of the seminar before 10th August, 2017.

Poster

Participant, whose abstract has been accepted, will present his/her poster. Posters should be of 33" x 42" size with portrait orientation.

Calendar of Events

Deadline for submission of :-

Abstracts & Registration form: **10th August, 2017**

Communication of acceptance: **15th August, 2017**

Venue: Temporary Academic Block, Central University of Himachal Pradesh, Shahpur, Kangra -176206

Accommodation

Accommodation is available in the Hotels which can be arranged only on advance payment. The city hotel tariffs are from **Rs. 1000** to **Rs. 3000**

Contacts

All correspondence should be addressed to

Dr. Deepak Pant

Chairman & Convener Organizing Committee

Dean, School of Earth and Environmental Sciences

Central University of Himachal Pradesh

Temporary Academic Block, Shahpur,

Distt. Kangra- Himachal Pradesh

Tel: 01892-237385-88 ext 309 Mob: 09816639032

Email: dpant2003@gmail.com

XXII National Symposium (NSU-2017)

on

Advances in Ultrasonics and Materials Research

(November 8-10, 2017)



Organized by

Department of Physics & Astronomical Science,

Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, HP-176215

&

Ultrasonics Society of India, National Physical Laboratory, New Delhi



Website: www.cuhimachal.ac.in, www.ultrasonicsindia.org

Email: padmnabhrai@gmail.com, jagdishphysicist@gmail.com

Phone: +91-1892-237285, +91-9857963538

Venue

Central University of Himachal Pradesh,

Dharamshala, Dist. Kangra, HP-176215

Important Dates

Submission of Manuscript	:	September 15, 2017
Confirmation of Acceptance	:	September 30, 2017
Registration	:	October 15, 2017
Request for Accommodation	:	October 30, 2017
Date of Conference	:	November 8-10, 2017

Tentative Invited Speakers

- Dr. Vikram Kumar, Department of Physics, IIT Delhi, President, Ultrasonics Society of India (USI)
- Dr. Raja Ram Yadav, Vice Chancellor, VBS Purvanchal University, Vice President, USI
- Dr. P. K. Ahluwalia, Department of Physics, Himachal Pradesh University
- Dr. Vilas A. Tabhane, Department of Physics, Pune University, Former Director, Institute of Physics
- Dr. Prabhakar Singh, Department of Physics, IIT BHU
- Dr. Shushil Auluck, Department of Physics, IIT Roorkee, NPL New Delhi
- Dr. Arti Kashyap, Department of Physics, IIT Mandi
- Dr. Satish Kumar Dubey, Instrument Design and Development Centre, IIT Delhi
- Dr. Pawan Kumar Tyagi, Department of Physics, Delhi Technical University
- Dr. Rita Pakary, Department of Physics, Ravenshaw University
- Dr. OSKS Sastri, Department of Physics, Central University of Himachal Pradesh
- Dr. Devraj Singh, Amity School of Engg. and Technology, Indra Prasth University New Delhi
- Dr. V. R. Singh, Vice-President, USI
- Dr. Yudhisther Kumar Yadav, Secretary, USI, NPL New Delhi
- Dr. M. Srinivas, Department of Physics, M. S. University of Baroda

Objectives and Scope

The materials have always played a lead role in taking the human understanding of nature to new levels. The research and developments in material sciences and ultrasonics has brought many new materials with never attained desirable properties. These new materials provide the scientists and engineers with vast options to practice their creativity and come up with new technologies for improving quality of life. This conference will bring together eminent experimental and theoretical researchers working in various areas of material science and in the field of ultrasonics to discuss and share their ideas. The main focus of the conference will be around following areas:

Nanomaterials and Their Applications; Potential Applications of CVD Techniques; Nanoscale Electronics and Photonics; Plasmonics and Metamaterials; Energy Harvesting Materials, Modern Superconducting Materials, Sensors and Applications; Materials for Optical Applications; Ultrasonics and its Applications in Material Science, NDT, Underwater Acoustics, Biomedical Ultrasound, Sonochemistry, Physical Acoustics; Dirac Materials; Modelling and Simulations of Materials; Multifunctional Materials; Carbon based Smart Materials; Ancient Indian Science & Technology.

Central University of Himachal Pradesh (CUHP)

The Central University of Himachal Pradesh has been established under Central Universities Act 2009 of Indian Parliament and has been operating near beautiful city Dharamshala in Himachal Pradesh since 2010. The University is funded and regulated by the University Grants Commission (UGC). Currently CUHP has a total of 11 schools of studies in different areas varying from basic sciences, business administration, and tourism & travel.

The department of Physics and Astronomical Science is one of the departments under School of Physical and Material Sciences. Currently department is offering post graduate (M.Sc.) and undergraduate courses (B.Sc.-Honours in Physics) programs. The main objective of the department is to establish high standards to education, intellectual discourse and professional excellence in tandem with ethical values leading to well-being of the society. Department has highly qualified faculty with expertise in different areas of physics such as Material science, Nuclear and Particle Physics, Astronomical Science, and Nanomaterials. The expertise of faculty varies from hard core theoretical physics to cutting edge areas of experimental physics. In days to come, the department of Physics and Astronomical Science aims to establish state-of-the-art research facilities in different areas of physics and come up as one of the leading groups in research and innovation.

Ultrasonic Society of India (USI)

The Ultrasonic Society of India (USI), founded in 1974 at NPL, has been actively promoting research and development in ultrasonics and related areas for more than four decades. It has organized more than 40 National and International conferences/symposia in various parts of the country. Society has instituted awards for encouragement to young researchers and is presented during the annual Symposium. The Society also publishes “*Journal of Pure and Applied Ultrasonics*” (JPAU). A large number of scientists, manufacturers, academicians and students have been benefited from the Society’s activities (For details visit: www.ultrasonicsindia.org).

Submission of Manuscript

The full manuscript should be typed in the Times New Roman 12 font size with maximum length of 3 pages (including figures). The manuscript should include the title in upper case, name(s) of the authors, the author's institution(s) with complete address and e-mail with 4-6 keywords. The soft copy (PDF file) of the manuscript should be submitted to aumr.cuhp2017@gmail.com. At least one of the authors should register for the symposium. The paper(s) received without the registration fee will not be included in the conference. The proceedings of the conference will be published in *Journal of Pure and Applied Ultrasonics* (JPAU) (UGC-Indexed Journal).

Registration Fee

Registration fee covers conference kit, certificate, refreshments, and lunch. Participants have to pay separately for their accommodation. The fees must be sent to Dr. Padmnabh Rai by DD drawn in Favour of **Finance Officer**, Central University of Himachal Pradesh payable at Dharamshala (HP) or online transfer to university account [*Name of the Bank: Canara Bank Dharamshala; Account name: Central University of Himachal Pradesh; Account number: 2062101009593; IFSC Number: CNRB0002062*], before the due date to confirm registration.

Research Scholars : Rs. 1500.00	Industry Delegates: Rs. 3000.00
Faculties & Scientists : Rs. 2000.00	USI Members : Rs. 1500.00

Boarding/Lodging

Accommodation will be provided on a “first come first serve” basis in different hotels / nearest guest house to the venue at negotiated price. Necessary transport will be provided from hotel/guest house to venue of conference. Necessary payment should be made by the delegate to the respective hotel. In case candidates need transport from nearest airport or railway station, organizers can arrange the same for which delegates will have to pay applicable charges.

About Dharamshala

Dharamshala is a place with profile and is known worldwide. Serene Location, pleasant climatic condition, spiritual atmosphere of the location provides an attractive ambience conducive to academic pursuits. Located at footsteps of beautiful Dhauladhar range of Himalayas, the city of Dharamshala's many magnificent places to visit. A few to mention are: McLeodGanj, the home place of renowned spiritual leader Dalai Lama, International Cricket Stadium, Norbulingka monastery famous for beautiful ambience and Tibetan culture, famous Naddi village offering mesmerizing view of Dhauladhar. An exhaustive list of tourist destination near Dharamshala can be found at <http://www.hill-stations-india.com/dharamshala/>.

Important Note

To encourage young researchers and scientists, the USI society will give the following award:

- **Dr. S. Parthasarathy Memorial Award** for the best paper published in the Journal of Pure and Applied Ultrasonics,
- **Dr. M Pancholy Memorial Award** for the best oral paper presented at National Symposium on Ultrasonics
- **Dr. T. K Saksena Memorial Award**, given to a student who has obtained a Ph.D. degree, for his/her work in the field of ultrasonics or allied area
- **Best Poster Paper Award** from Ultrasonics Society of India
- **Best Poster Paper NSU-2017** award from Organizers

Organizing Committee

Chief Patron

Prof. (Dr.) Kuldeep Chand Agnihotri, Honorable Vice Chancellor, CUHP, Dharamshala (HP)

Patron

Prof. H. R. Sharma, Pro Vice Chancellor, CUHP, Dharamshala (HP)

Chairman

Dr. O. S. K. S. Sastri

Associate Professor, Department of Physics & Astronomical Science, CUHP, Dharamshala (HP)

Co-Chairman

Dr. B. C. Chauhan

Dean, School of Physical & Material Sciences; Head, Department of Physics & Astronomical Science, CUHP, Dharamshala (HP)

Convener

Dr. Padmnabh Rai, UGC-Assistant Professor, Department of Physics & Astronomical Science, CUHP, Dharamshala (HP)

Academic Secretary

Dr. Jagdish Kumar, Assistant Professor, Department of Physics & Astronomical Science, CUHP, Dharamshala (HP)

Organizing Secretary

Dr. Rajesh Kumar Singh, UGC-Assistant Professor, Department of Physics & Astronomical Science, CUHP, Dharamshala (HP)

General Secretary

Dr. Yudhisther Kumar Yadav, Ultrasonics Society of India, CSIR-NPL, New Delhi, India

Local Organizing Committee

- Dr. O.S.K.S Sastri, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. B. C. Chauhan, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. Padmnabh Rai, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. Jagdish Kumar, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. Rajesh Kumar Singh, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. Ayan Chatterjee, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. D. S. Verma, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. Surender Verma, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. K.S. Attri, GDC Dharamshala (HP)
- Dr. Sachin Srivastava, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. Ravinder Singh, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. Rakesh Kumar, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. Subhankar Chatterjee, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. Dilbag Singh, CUHP, Dharamshala (HP)
- Mr. Arun Bhatia, CUHP, Dharamshala (HP)
- Dr. Suman Sharma, CUHP, Dharamshala (HP)
- Mr. Debasis Sahoo, CUHP, Dharamshala (HP)

National Advisory Committee

- **Prof. Vikram Kumar**, IIT Delhi & President Ultrasonics Society of India (USI)
- **Prof. I.V. Malhan**, Dean Academics, CUHP
- **Dr. A. K. Mahajan**, Dean School of Life Sciences, CUHP
- **Dr. Deepak Pant (CUHP)**, Dean School of earth and Environmental Sciences, CUHP
- **Prof. Raja Ram Yadav**, Honorable Vice Chancellor, VBS Purvanchal University & Vice President USI
- **Prof. Ashutosh Sharma**, Secretary, DST
- **Dr. Girish Sahni**, Secretary DSIR & DG-CSIR
- **Dr. D. K. Aswal**, Director, NPL
- **Dr. Soumya Swaminathan**, DG-ICMR
- **Dr. S. Christopher**, DG-DRDO
- **Dr. Anil Dattatraya Sahasrabudhe**, Chairman, AICTE
- **Dr. Arun Sharma**, Secretary, Deity
- **Mr. Ajay Narayan Jha**, Secretary, MOEF
- **Dr. Krishan Lal**, Former President USI
- **Dr. Baldev Raj**, Former President USI
- **Dr. V. R. Singh**, Vice President USI
- **Dr. S. K. Jain**, NCU Gurugram
- **Dr. Ashok Kumar**, Ex- Sci G, NPL
- **Dr. V. S. Rangra**, Department of Physics, Himachal Pradesh University, Shimla
- **Dr. P. K. Ahluwalia**, Department of Physics, Himachal Pradesh University, Shimla
- **Dr. Arti Kashyap**, Department of Physics, IIT Mandi
- **Dr. Ravi Kumar**, Department of Material Science and Engineering, NIT Hamirpur
- **Dr. S. Siva Sankar Sai**, Department of Physics, Satya Sai Institute Puttarty

Media, IT & Technical Support

- **Mr. Keshav S. Rawat**, CUHP, Dharamshala (HP)
- **Mr. Manoj Dhiman**, CUHP, Dharamshala (HP)
- **Mr. Girish Sharma**, CUHP, Dharamshala (HP)
- **Mr. Vicky Bhardwaj**, CUHP, Dharamshala (HP)
- **Mr. Sanjay K. Singh**, CUHP, Dharamshala (HP)

Corresponding Address

Dr. Padmnabh Rai
UGC-Assistant Professor,
Department of Physics & Astronomical Science,
Central University of Himachal Pradesh,
Dharamshala, HP-176206, India
Email: padmnabhr@gmail.com
Mobile: +91-9857963538

Dr. Jagdish Kumar
Assistant Professor,
Department of Physics & Astronomical Science,
Central University of Himachal Pradesh,
Dharamshala, HP-176206, India
Email: jagdishphysicist@gmail.com
Mobile: +91-8627871474

For advertisement in Souvenir/Abstract Book

Back Page	Colour	Rs. 40,000/-	Inside Page (Full)	Colour	Rs. 25,000/-
Inside Page (Front)	Colour	Rs. 35,000/-	Inside Page (Half)	Colour	Rs. 15,000/-
Inside Page (Back)	Colour	Rs. 25,000/-	Inside Page (Full)	Black & White	Rs. 15,000/-



Central University of Himachal Pradesh Library

&



Centre for Development of Multimedia Systems

Cordially Invites You To

GLOBAL MEDIA AND INFORMATION LITERACY WEEK

25th October – 1st November 2017

Workshop on Media & Information Literacy for Researchers

PROGRAMME

25th Oct 2017

Inauguration of the Workshop by Prof. Kuldeep Chand Agnihotri, Hon'ble Vice Chancellor, CUHP,
Time: 11.00am - 12.00pm

Workshop on SCOPUS By Tahseen Khanday, Solution Sales Manage, Elsevier. Time: 12.00pm - 2.00pm

26th Oct 2017

Workshop on Web of Science, EndNote - By Vishav Sharma, Solution Consultant - A&G, Intellectual Property
and Scholarly Science, Clarivate Analytics, Time: 10.00am - 01.00pm

27th Oct 2017

Workshop on e-ShodhSindhu, URKUND - Ashok Kumar Rai, INFLIBNET, Time: 10.00am - 01.00pm

30th Oct 2017

Workshop on Research Methods & Report Writing, Dr. Manoj Saxena, Associate Professor & Dean, School of
Education, CUHP, Time: 10.00am - 12.00pm

Workshop on Indian Citation Index, JSTOR By Abhinav Kakkar, Business Development Executive, Globe
Publication Pvt. Ltd, Time: 12.00am - 2.00pm

31st Oct 2017

Tourism and Information Literacy By Dr. S. Sundararaman, Assistant Professor, School of Tourism, Travel &
Hospitality Management, CUHP, Time: 10.00am - 11.00am

Health Information Literacy Prof. Jagtar Singh, Professor, Department of LIS, Punjabi University, Patiala.
Time: 11.00am - 12.00pm

1st Nov 2017

Finance Information Literacy By Dr. Ashish Nag, Assistant Professor, Department of Accounting & Finance,
Time: 10.00am - 11.00am

Valedictory Programme by Prof. H.R. Sharma, Hon'ble Pro-Vice Chancellor, CUHP, Time: 11.00am - 12.00pm

Venue: Seminar Hall, Temporary Academic Block, Shahpur, CUHP

Workshop Director

Prof. I.V Malhan, Dean.
imalhan_47@rediffmail.com

Workshop Coordinator

Mr. Muruli N, Assistant Librarian
murulitarikere@gmail.com



हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

कैंप ऑफिस, एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम के निकट, धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176215
Camp Office, Near HPCA Cricket Stadium, Dharamshala, District Kangra (HP)-176215
Phone No. 01892-229574, Fax No. 01892-229130, E-mail: central@cuhp@gmail.com

F. No. 4-2/CUHP/GA/2010/3835-39

Dated: 24 November, 2017

NOTIFICATION


Gandhi Smriti and Darshan Smriti in association with Central University of Himachal Pradesh is organizing 3-day Conference from 2-4 December, 2017 on the theme "In the Path of Buddha and Gandhi: A Convention for Global Peace". His Holiness the Dalai Lama will inaugurate the Conference and Union Minister for Culture shall be the Guest of Honour. Therefore, the Vice-Chancellor is pleased to constitute the following committees for the institutional support and smooth conduct of the Conference:-

- I. **Reception Committee**
 - a. Vice-Chancellor
 - b. Pro Vice-Chancellor
 - c. Registrar, All Deans and Controller of Examinations
 - d. Sh. Lakshmi Dass, Member EC of Gandhi Smriti Darshan Sanskriti (GM & DS)
 - e. Sh. Dipankar Shri Gyan, Director (GM & DS)
 - f. Dr. Vedabhyas Kundu, Program Officer (GM & DS)
 - g. Dr. Suman Sharma, Assistant Professor
- II. **Venue and Stage Decoration Committee**
 - a. Dr. G.S.K. Sastri, Associate Professor
 - b. Sh. Kamal Singh, Assistant Professor
 - c. Sh. Chaman Lal, Assistant Professor
 - d. Sh. Keshav Singh Rawat, Assistant Professor
- III. **Media, Publicity Video & Photography Committee**
 - a. Dr. Pradeep Kumar, Associate Professor
 - b. Dr. Archana Katoch, Assistant Professor
 - c. Dr. Ram Pravesh Rai, Assistant Professor
 - d. Sh. Sanjay Kumar, Hindi Officer
 - e. Sh. Vicky Bhardwaj, Technical Assistant
- IV. **Refreshment and Hospitality Committee**
 - a. Dr. Deepak Pant, Associate Professor
 - b. Dr. Ashish Nag, Assistant Professor
 - c. Sh. Debasis Sahoo, Assistant Professor
 - d. Sh. Manoj Dhiman, Assistant Professor

P-1/2

- V. **Cultural Programme Committee**
a. Dr. Roshan Lal Sharma, Associate Professor - Convener
b. Dr. Manpreet Arora, Assistant Professor
c. Dr. Chandra Kant Singh, Assistant Professor
- VI. **Committee for facilitation of Parallel sessions at TAB, Dharamshala**
a. Dr. Roshan Lal Sharma, Associate Professor - Convener
b. Dr. Manoj Saxena, Associate Professor
c. Dr. Pradeep Kumar, Associate Professor
- VII. **Committee for Logistic Support**
a. Dr. Manoj Kumar Saxena, Associate Professor - Convener
b. Sh. Girish Sharma, System Analyst
c. Sh. Vineet Sharma, J.E. (Electrical)
d. Sh. Vicky Bhardwaj, Technical Assistant
- VIII. **Local Purchase Committee**
a. Dr. Suman Sharma - Convener
b. Sh. Chaman Lal
c. Finance Officer's Nominee
- IX. **Transportation and Accommodation Committee**
a. Sh. Sanjay Kumar Singh, Hindi Officer
b. Sh. Virender Singh, UDC

The Hon'ble Vice-Chancellor has further been pleased to nominate Prof. I.V. Malhan as Coordinator to the above Conference being organized at Central University of Himachal Pradesh. Accordingly, all the proposals for administrative & financial sanctions shall be accorded by him,




Registrar

Endst.No.Even.

Dated 21 November, 2017

Copy to :-

1. All the members noted above.
2. Finance Officer, Central University of Himachal Pradesh, TAB, Shahpur, District Kangra, H.P.
3. All Deans/Heads of different Schools/Departments, CUHP, TAB Shahpur/ Dhauladhar Campus, Dharamshala/ Beas Campus, Dehra.
4. PS to VC - for kind information of the Hon'ble Vice-Chancellor please.



Registrar



हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय Central University of Himachal Pradesh

कैंप ऑफिस, एनपीसीए क्रिकेट स्टेडियम के जिला, धर्मशाला, जिला - मंगल, हिमाचल प्रदेश-176215
Camp Office, Near NPCA Cricket Stadium, Dharamshala, District Kangra (HP)-176215
Phone No. 01892 - 229574, Fax No. 01892 - 229130, E-mail ID: centraluniversity@gmail.com

F. No. 4-2/CUHP/GA/2010/3835-39

Dated: 24 November, 2017

NOTIFICATION

Gandhi Smriti and Darshan Smriti in association with Central University of Himachal Pradesh is organizing 3-day Conference from 2-4 December, 2017 on the theme "In the Path of Buddha and Gandhi: A Convention for Global Peace". His Holiness the Dalai Lama will inaugurate the Conference and Union Minister for Culture shall be the Guest of Honour. Therefore, the Vice-Chancellor is pleased to constitute the following committees for the institutional support and smooth conduct of the Conference:-

- I. **Reception Committee**
 - a. Vice-Chancellor
 - b. Pro Vice-Chancellor
 - c. Registrar, All Deans and Controller of Examinations
 - d. Sh. Lakshmi Dass, Member EC of Gandhi Smriti Darshan Sanskriti (GM & DS)
 - e. Sh. Elpankar Shri Gyan, Director (GM & DS)
 - f. Dr. Vedabhyas Kundu, Program Officer (GM & DS)
 - g. Dr. Suman Sharma, Assistant Professor
- II. **Venue and Stage Decoration Committee**
 - a. Dr. C.S.K. Sastri, Associate Professor - Convener
 - b. Sh. Kamal Singh, Assistant Professor
 - c. Sh. Chaman Lal, Assistant Professor
 - d. Sh. Keshav Singh Rawat, Assistant Professor
- III. **Media, Publicity Video & Photography Committee**
 - a. Dr. Pradeep Kumar, Associate Professor - Convener
 - b. Dr. Archana Katoch, Assistant Professor
 - c. Dr. Ram Pravesh Rai, Assistant Professor
 - d. Sh. Sanjay Kumar, Hindi Officer
 - e. Sh. Vicky Bhardwaj, Technical Assistant
- IV. **Refreshment and Hospitality Committee**
 - a. Dr. Deepak Pant, Associate Professor - Convener
 - b. Dr. Ashish Nag, Assistant Professor
 - c. Sh. Debasis Sahoo, Assistant Professor
 - d. Sh. Manoj Dhimman, Assistant Professor

P-1/2

- V. **Cultural Programme Committee**
a. Dr. Roshan Lal Sharma, Associate Professor - Convener
b. Dr. Manpreet Arora, Assistant Professor
c. Dr. Chandra Kant Singh, Assistant Professor
- VI. **Committee for facilitation of Parallel sessions at TAB, Dharamshala**
a. Dr. Roshan Lal Sharma, Associate Professor - Convener
b. Dr. Manoj Saxena, Associate Professor
c. Dr. Pradeep Kumar, Associate Professor
- VII. **Committee for Logistic Support**
a. Dr. Manoj Kumar Saxena, Associate Professor - Convener
b. Sh. Girish Sharma, System Analyst
c. Sh. Vineet Sharma, J.E. (Electrical)
d. Sh. Vicky Bhardwaj, Technical Assistant
- VIII. **Local Purchase Committee**
a. Dr. Suman Sharma - Convener
b. Sh. Chaman Lal
c. Finance Officer's Nominee
- IX. **Transportation and Accommodation Committee**
a. Sh. Sanjay Kumar Singh, Hindi Officer
b. Sh. Virender Singh, UDC

The Hon'ble Vice-Chancellor has further been pleased to nominate Prof. I.V. Malhan as Coordinator to the above Conference being organized at Central University of Himachal Pradesh. Accordingly, all the proposals for administrative & financial sanctions shall be accorded by him.



Registrar

Endst.No.Even.

Dated 21 November, 2017

Copy to :-

1. All the members noted above.
2. Finance Officer, Central University of Himachal Pradesh, TAB, Shahpur, District Kangra, H.P.
3. All Deans/Heads of different Schools/Departments, CUHP, TAB Shahpur/ Dhauladhar Campus, Dharamshala/ Beas Campus, Dehra.
4. PS to VC - for kind information of the Hon'ble Vice-Chancellor please.



Registrar

Report on Capacity Development and Skills Enhancement Activities

Name of the Activity: Computer Application for Social Workers

Date: 2017-18

Number of Participants: 29

Name of the Agencies/Consultants Involved: Department of Social Work

Details of the Activity:

Department of Social Work organised in one day capacity building program on the topic 'Computer Applications for Social Workers.

Social workers are required to use computers in their professional role as counsellor, medical social workers, advocacy agent etc. In the session, the importance of computers in social work practice was discussed in detail. The students were made aware of the changes in information technology and how it has impacted the manner in which social worker performs her/his functions.

The session was conducted by the faculty members of the department. They also discussed issues related to computers like cybercrime and cyber security. The students were told about the MS Office package and the application of MS Word, Excel and PowerPoint. The students were also informed the latest software in social research and social casework management.

The talk was followed by a discussion session, where the participants raised their questions. The session concluded with a question and answer round. The MSW students offered a vote of thanks. Faculty members of Department of Social Work participated in the event.

Head

Department of Social Work



हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ के अंतर्गत स्थापित)
धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - १७६२१५
Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act 2009)
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh-176215


①

3rd April 2018

Report on the International Fact Check Day Celebration Event, Department of JCW,
Central University of Himachal Pradesh & IQAC, CUHP


Department of JCW, Central University of Himachal Pradesh has organized an event to celebrate International Fact Check day on 2nd April 2018 at the Temporary Academic Block I, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala. Prof. Pradeep Nair, the Dean, School of Journalism, Mass Communication & New Media inaugurated the event and briefed the students on the importance role journalism students should play in educating the community around them to be more information literate as part of fighting the misinformation menace.

Mr. Harikrishnan B, Assistant Professor, Department of JCW briefed the students about the importance of the international fact check day. During the session, a fact-check game in which students were presented with news claims which they had to fact check real time and decide about the veracity of the claims. The game was interactive where the participants interacted with the claims projected with an LCD projector and marked their responses using an interactive web interface accessed through their smartphones. 40 students from the two departments under the School of Journalism, Mass Communication and New Media joined the game event to showcase their fact-checking skills. Dr. Harsh Mishra, Assistant Professor, Dept of JCW briefed the students about the various fact checking skills needed for journalists during the event. Faculty members from both departments under the School were present during the event.


The Dean
अधिष्ठाता, पत्रकारिता, जर्मासंचार एवं माहितीया स्कूल
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
धर्मशाला परिसर
धर्मशाला कांगड़ा (हि.) 176215

Report of the Econometric Workshop 7-11 May 2018

The one-week workshop on econometrics was organized by the Department of Economics & Public Policy under the aegis of IQAC on 7 to 11 May 2018. The resource person for the workshop was Dr Vijayamohanan Pillai. Dr Pillai is an associate professor at the Centre for Development Studies, Trivandrum. He is a foremost expert on econometrics in India. He was more than two decades of teaching experience. The workshop targeted at the postgraduate (PG) and doctoral students in the Department. The workshop imparted data analysis skills and developing research capabilities in the students.


विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक नीति विभाग
Head, Department of Economics & Public Policy
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अस्थायी शैक्षणिक खण्ड/Temporary Academic Block
धौलाधार पर्सर-1 धर्मशाला/Dhauladhar Pansar-1 Dharamshala-176215

ABOUT THE WORKSHOP

The one-week workshop on econometrics is organized by the Department of Economics & Public Policy under the aegis of IQAC. The resource person for the workshop shall be Dr Vijayamohanan Pillai. Dr Pillai is an associate professor at the Centre for Development Studies, Trivandrum. He is a foremost expert on econometrics in India. He was more than two decade of teaching experience. It is a capacity building workshop targeted at the postgraduate (PG) and doctoral students in the Department. It aims at imparting data analysis skills and developing research capabilities in the students. The students from other departments/schools are also welcome to participate.

ORGANISER
DEPARTMENT OF ECONOMICS
& PUBLIC POLICY
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
TAB, SHAHPUR-176206 (HP)
(UNDER AEGIS OF INTERNAL QUALITY
ASSURANCE CELL (IQAC))

Under the aegis of IQAC

DATE
7-11 MAY 2018
(9:00 AM TO 5:00 PM)

VENUE
COMPUTER CENTRE
CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
TAB, SHAHPUR-176206 (HP)

ONE-WEEK WORKSHOP ON ECONOMETRICS

RESOURCE PERSON

DR. N. Vijayamohanan Pillai

Associate Professor, Centre for
Development Studies, Trivandrum,
Kerala

ABOUT THE WORKSHOP

The two-day workshop on econometrics is organized by the Department of Economics & Public Policy under the aegis of IQAC. The present workshop is targeted at the postgraduate (PG) and doctoral students in the Department of Economics & Public Policy. The objective of the workshop is to impart theoretical and practical data analysis skills in the students. The students from other departments/schools are also welcome to participate.

The resource person for the workshop shall be Prof. SK Chauhan. Prof. Chauhan is a renowned economist working at the CSK HPAU, Palampur. His main research area is agricultural economics. He is an expert in econometrics and data analysis.

ORGANISER
DEPARTMENT OF ECONOMICS
& PUBLIC POLICY
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
TAB, SHAHPUR-176206 (HP)
(UNDER AEGIS OF INTERNAL QUALITY
ASSURANCE CELL (IQAC))

Under the aegis of IQAC

DATE
14-15 MAY 2018
(9:00 AM TO 5:00 PM)

VENUE
COMPUTER CENTRE
CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
TAB, SHAHPUR-176206 (HP)

TWO-DAY WORKSHOP ON ECONOMETRICS

RESOURCE PERSON


PROF. SK CHAUHAN

Professor, CSK Himachal Pradesh
Agricultural University, Palampur

Report of the Econometric Workshop May 2018

The two-day workshop on econometrics was organized by the Department of Economics & Public Policy under the aegis of IQAC from 14 to 15 May 2018. The present workshop targeted at the postgraduate (PG) and doctoral students in the Department of Economics & Public Policy. The objective of the workshop was to impart theoretical and practical data analysis skills in the students.

The workshop was conducted by Prof. SK Chauhan. Prof. Chauhan is a renowned economist working at the CSK HPAU, Palampur. His main research area is agricultural economics. He is an expert in econometrics and data analysis. Prof Chauhan delivered lectures and problem-solving session for the students on various aspects of Econometrics was conducted in the workshop.


विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक विभाग
Head, Department of Economics & Public Policy
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अस्थायी शैक्षणिक ब्लॉक
दीलाधार परिसर-1 पनौती, Himachal Pradesh Pansar-1 Unaramshala-176215

NOTICE

The students of MA (NMC) and MA (JCW) are hereby informed that Prof. B.P. Sanjay, Pro Vice-Chancellor, University of Hyderabad and the former Vice-Chancellor of Central University of Tamil Nadu and former Director of Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi will interact with the students tomorrow on 16th May 2018 at 11.30 am in the Seminar Hall of Dhauladhar Campus, Dharamshala. The students are requested to participate in the debate.

Prof. Sanjay has an international presence in communication studies and he was instrumental in bringing media studies in Indian universities as per UGC guidelines and norms.

Mr. Hanikrishnan Bhaskaran will co-ordinate the event at the School level & IQAC, CUHP

अधिष्ठाता, पत्रकारिता, जनसंचार एवं दूरदर्शन विभाग
हिमाचल प्रदेश के.एम.एस.एन.ए. (सो.ज.म.क. & न.म.)
बीलपार परिसर
धर्मशाला कॉम्पस (हि.प्र.) 176215
Dean, SoJMC & NM




हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ के अंतर्गत स्थापित)
धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - १७६२१५
Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act 2009)
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh-176215

22nd October 2018

Report on the One Day workshop on Feature Writing organized by the Department of JCW,
Central University of Himachal Pradesh & IQAC, CUHP

Department of JCW, Central University of Himachal Pradesh has organized a one day workshop on Feature Writing on 19th October 2018 in which Prof. Mukul Srivastava, Professor, Department of Journalism and Mass Communication, University of Lucknow trained the students under the two departments under the School of Journalism, Mass Communication & New Media about different techniques and approaches in writing features for print newspapers and magazines.

Prof Pradeep Nair, Dean, School of Journalism Mass Communication and New Media inaugurated the event and talked about the importance of writing skills being the base of almost all job roles in the media industry. Dr. Harsh Mishra, Assistant Professor, Dept of JCW, briefly introduced the resource person during the event. During the two-sessions of the workshop, Prof. Mukul Srivastava discussed different writing formats and discussed the examples. He also asked students to ideate feature ideas and helped them to develop convincing feature pitches that can be send to the editors for publishing. Dr. Ram Pravesh Rai, Assistant Professor, Department of New Media, Mr. Kuldeep Sing, Assistant Professor, Dept of New Media, Dr. Archana Katoch, Assistant Professor, Dept of JCW, Mr. Harikrishnan B, Assistant Professor, Dept of JCW were present in the event.


The Dean
School of JMC & NM
अभिध्याता, पत्रकारिता, आनसंचय एवं नवमीडिया स्कूल
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
धौलाधार परिसर
धर्मशाला कांगड़ा (हि.प्र.) 176215

Report on Capacity Development and Skills Enhancement Activities

Name of the Activity: Counseling Theory and Practice & Stress Coping Mechanism

Date: 2018

Number of Participants: 29

Name of the Agencies/Consultants Involved: Department of Social Work

Details of the Activity:

A session on counselling theory and practice and stress copy mechanism was conducted for the students of Master of Social Work by the faculty members of the Department.

Counselling theory and practice is essential for social work professionals counselling is an emerging area of social work practice. It is being practiced in diverse settings like Drug Rehabilitation Centres, Hospitals, Schools etc.

During the session the faculty members of the department introduced the various theories of counselling and the practice models which are being practice stress was given on introducing the counselling strategies which are relevant in the Indian context.

Group activities were conducted with the students so that they are able to learn the concepts. Stress coping mechanisms are also a very important part in occupational social work practice. Various strategies where discussed with the students during this session. Faculty members of Department of Social Work participated in the event.

Head

Department of Social Work

Workshop on Nuclear Fusion Reactions and Simulations

Resource Person: Dr. Gurpreet Kaur, IUAC, New Delhi

Participants: II M.Sc Physics students

Monday: 12th November, 2018

Session 1: 11:30 am to 1:30 pm

Topic: **Introducton to Nuclear Fusion Reactions**

Session 2: 3:30 pm to 5:30 pm

Hands on Session on CCFULL code

Tuesday: 13th November, 2018

Session 3: 11:30 am to 1:30 pm

Topics: **Variation of fusion cross-section with incident energy of the projectile.
Rotational and Vibrational excitation of nuclei.**

Session 4: 3:30 pm to 5:30 pm

Hands on Session on CCFULL code

Report on workshop
"Nuclear Fusion Reactions and Simulations" held on 12th and 13th November 2018

Dr Gurupreet Kaur, Post Doctoral Fellow (PDF) from IUAC, New Delhi acted as resource person for the workshop. She has given lectures cum demonstrations in the morning sessions on both days and afternoon sessions were hands-on sessions to implement the simulations using CCFULL code. She has covered the following topics during the workshop:

1. What are nuclear fusion reactions? Why we study the nuclear fusion dynamics?
2. Importance of theoretical/simulation models in nuclear reaction study.
3. Calculation of fusion cross-section using single barrier penetration model. Explanation and simulation using CCFULL code.
4. Variation of fusion cross-section with incident energy of the projectile.
5. Rotational and vibrational excitation of nuclei.
6. Simulation of fusion cross-section with deformed target and/or deformed projectile. Also the case of vibrational target-projectile combination.
7. Brief about how nuclear reactions carried out at IUAC, New Delhi.
8. Meaning of fusion barrier distribution. Study of fusion barrier distribution for systems with deformed target and/or deformed projectile.

The lectures were attended by 30 students from M.Sc Final year and few RD scholars and faculty. They were well received and two of the students have been assigned projects based on the learning from the workshop.



Prof O. S. K. SASTRI
(Convener)

Chairman, Physics Society
DPAS, SIANS, CUHK.



In Silico Approach for Modelling New Materials: Methodology & Applications

(January 14-20, 2019)

Material science has played a pre-eminent role in modern scientific and technological developments. The invention of new materials is bringing paradigm shift the way new technologies are emerging. In the last couple of decades with the cost effective and powerful computation platforms the in silico material design has opened up new opportunities to design and tailor materials properties using first principle DFT approach leading to a wonderful synergy between in-situ approach and in-silico approach.

Department of Physics and Astronomical Science (DPAS); Central University of Himachal Pradesh (CUHP), Dharamshala is organizing a national level one week workshop titled ***In Silico Approach for Modeling New Materials: Methodology & Applications*** during January 14-20, 2019. The main focus of the workshop is to introduce to the students, young researchers and faculty members the basic theoretical background and tools of density functional theory (DFT) based approaches to compute various material properties following a hands on and minds on methodology to demonstrate their application to materials ranging from Bulk to Low Dimensional Systems.

Some of the key aspects proposed to be covered during workshop will include

- *Quantum mechanics of materials*
- *Theoretical challenges to obtain exact quantum mechanical solution for real materials,*
- *Various approximations, and idea of density functionals*
- *Hohenbers-Kohn-Sham approach to DFT, the challenge of exchange-correlation energies and ad-hoc solution for the same,*
- *Idea of local density approximation (LDA) and generalized gradient approximations (GGA),*
- *Idea and application of pseudopotentials, full-potential methods.*
- *Magnetism in DFT*
- *The application of DFT for computing structural, electronic, magnetic, transport, optical and thermal properties of real bulk and nano-scale materials*
- *Hands-on-sessions. For the practical usage of free-open-source software packages such as (ELK, SIESTA, QUANTUM ESPRESSO, SPRKKR, BOLTZTRAP, GULP etc.).*
- *Classical and Quantum Molecular Dynamics*

The overall goal of above workshop is to give participants a quick but complete exposure of modern materials modelling techniques so as to equip them with additional tools for new innovations in material science.

Last Date for Application: December 10, 2018

Confirmation of Acceptance: December 15, 2018

Last date for Registration: December 20, 2018

Date of Conference: January 14-20, 2019

Registration Fee

Research Scholars: Rs. 3,000/- . **Faculties & Scientists:** Rs. 4,500/- Registration fee shall cover working lunch, refreshments for duration of workshop, conference kit. For paying registration fee, the participants should transfer/deposit the amount to university account as per following details:

Name of the Bank: Canara Bank Dharamshala;

Account name: Central University of Himachal Pradesh;

Account number: 2062101009593;

IFSC Number: CNRB0002062

The details of transaction should be sent via email to jagdishphysicist@gmail.com on or before last date for registration.

Chief Patron: Prof. (Dr.) Kuldeep Chand Agnihotri,

Honorable Vice Chancellor, CUHP, Dharamshala (HP)

Patron: Prof. H. R. Sharma,

Pro Vice Chancellor, CUHP, Dharamshala (HP)

Chairman: Prof. B. C. Chauhan

Dean (SOPMS) and Head (DPAS), CUHP, Dharamshala (HP)

Co-Chairman: Dr. O.S.K.S. Sastri

Professor, DPAS, CUHP, Dharamshala (HP)

Resource Persons

- ❖ Prof. Sushil Auluck (Retd. IIT Roorkee)
- ❖ Prof. P. K. Ahluwalia (Retd. HPU Shimla)
- ❖ Dr. Jiji Pulikkotil (NPL, New Delhi)
- ❖ Dr. Ashok Kumar (CU Punjab)
- ❖ Dr. Yogyata Pathania (IISER Mohali)
- ❖ Dr. Arun Kumar (SVGC Ghumarwin)
- ❖ Dr. Munish Sharma (MAU, Solan)
- ❖ Dr. Jagdish Kumar (CUHP)
- ❖ Dr. OSKS Sastri (CUHP)

Boarding/Lodging

Depending upon availability of funds, we may provide free shared accommodation to participants in nearest hotels/guest houses. However, if we fall short of funds or anyone wants individual accommodation, the participants have to arrange the same at their own expenses. Organisers may provide necessary information and support for the same.

Total Intake

The maximum number of out stationed participants shall be limited to 30. In case we find large number of requests, the preference will be given to research scholars, young faculty members, who are actively engaged with research in material science. The final decision for selection of a candidate for his/her participation will be of organizing committee.

Application Procedure

The applicants interested to participate in the workshop should fill the Performa given at the end of this brochure and send it latest by 10th December 2018 by email to jagdishphysicist@gmail.com

For any further details contact:

Dr. Jagdish Kumar, Assistant Professor, DPAS, CUHP,

Email: jagdishphysicist@gmail.com;

Mobile: +91-8627871474

Dr. Rajesh Kumar Singh, UGC-Assistant Professor, DPAS, CUHP, Dharamshala (HP) Email: rksbhu@gmail.com;

Mobile: +91-9451134253

Website: www.cuhimachal.ac.in



In Silico Approach for Modelling New Materials: Methodology & Applications

(January 14-20, 2019)

About Central University of Himachal Pradesh

The Central University of Himachal Pradesh has been established under Central Universities Act 2009 of Indian Parliament and has been operating near beautiful city Dharamshala in Himachal Pradesh since 2010. The University is funded and regulated by the University Grants Commission (UGC). Currently CUHP has a total of 11 schools of studies in different areas varying from basic sciences, business administration, tourism and travel.

The Department of Physics and Astronomical Science is one of the departments under School of Physical and Material Sciences. Currently department is offering undergraduate courses (B.Sc. Honours in Physics), post graduate (M.Sc.) and PhD programs. Department has highly qualified faculty with expertise in different areas of physics such as Material science, Nuclear and Particle Physics, Astronomical Science, Nanomaterials. The expertise of faculty varies from hard core theoretical physics to cutting edge areas of experimental physics. Department of Physics and Astronomical Science is striving hard to establish state-of-the-art research facilities in different areas of physics leading to quality research and innovation.

About Dharamshala

Dharamshala is an international destination Serene Location, pleasant climatic condition, spiritual atmosphere of the location provides an attractive ambience conducive to academic pursuits. Located in the footsteps of perennially white Dhauladhar range of Himalayas, the city of Dharamshala has many magnificent places to visit. A few to mention are: McLeodGanj, the home place of renowned spiritual leader Dalai Lama, International Cricket Stadium, Norbulingka monastery famous for beautiful ambience and Tibetan culture, famous Naddi village offering mesmerizing view of Dhauladhar. An exhaustive list of tourist destination near Dharamshala can be found at <http://www.hill-stations-india.com/dharamshala/>.

Performa for Application

Name: _____

Sex: Male/Female (To plan and allot accommodation)

Institution: _____

Current Occupation: _____

Educational Qualification: _____

Contact Information:

Mobile No.: _____

Email: _____

Current Research Interests: _____

Research Experience: (Here mention briefly about research work you have done and for how much time you have been working/have worked in that field)

Motivation for attending this workshop: In not more than 100 words. How you think this workshop will benefit you?

Have you ever worked in Linux: Yes/No (This is just to design contents accordingly)

Have you ever worked on Linux command line: Yes/No

Do you require shared accommodation: Yes/No

Would you like to share a brief oral presentation your research results: if Yes (Mention title of your presentation)

In Silico Approach for Modelling New Materials: Methodology & Applications
(14th Jan. 2019 to 20th Jan. 2019)

The overall time table for the workshop was as given below.

Day	10:00-11:00	11:00-11:15	11:15-12:15	12:15-1:15	1:15-2:15	2:15-3:15	3:15-4:15	4:15-4:30	4:30-5:30
Monday 14-Jan-2019	Inauguration Session	Tea	Lect-1 SA	Lect-2 PKA	Lunch	Lect-3 JK	HOS-1 JK	Tea	HOS-2 AK
Tuesday 15-Jan-2019	Lect-4 PKA	Tea	Lect-5 AK	HOS-3 AR	Lunch	HOS-4 AR	HOS-5 AK	Tea	HOS-6 AK
Wednesday 16-Jan-2019	Lect-6 PKA	Tea	Lect-7 AR	HOS-7 AR	Lunch	HOS-8 AR	HOS-9 AK	Tea	HOS-10 AK
Thursday 17-Jan-2019	Lect-8 PKA	Tea	Lect-9 MS	HOS-11 MS	Lunch	HOS-12 MS	HOS-13 RA	Tea	HOS-14 RA
Friday 18-Jan-2019	Lect-10 JP	Tea	Lect-11 JP	HOS-15 JK	Lunch	HOS-16 JP	HOS-17 JK	Tea	Oral/Poster presentation PKA & RA
Saturday 19-Jan-2019	Lect-12 RA	Tea	Lect-13 JP	Lect-14 OSKS	Lunch	Lect-15 YP	HOS-18 YP	Tea	Oral/Poster presentation JP & MS
Sunday 20-Jan-2019	PD All RPs	Valedictory Function	Lunch						

The registration kits and other details shall be provided at registration desk from 9:00 AM in room number 304.

Tentative List of Speakers:

SA- Prof. Sushil Auluck, NPL New Delhi

PKA- Prof. P. K. Ahluwalia, HPU Shimla

JK- Dr. Jagdish Kumar, CUHP Dharmshala

AK- Dr. Ashok Kumar, CUP Bathinda

AR- Dr. Arun Kumar, Govt. College Ghumarwin

MS- Dr. Munish Sharma, MAU Baddi

JP- Dr. Jiji Pulikkotil, NPL New Delhi

OSKS: Prof. OSKS Sastri

YP- Dr. Yogyata Pathania, (IISER Mohali)

RA-Dr. Rajendra Adhikari (Kathmandu University)

In Silico Approach for Modelling New Materials: Methodology & Applications
(14th Jan. 2019 to 20th Jan. 2019)

SCHEDULE OF TALKS

Day 1 (14-01-2019, Monday)

Lect-1: Inaugural lecture “*The modern era of materials: In Silico Approach*” (Prof. Sushil Auluck)

Lect-2: *DFT: A Perspective from Schrodinger to Kohn* (Prof. P. K. Ahluwalia)

Lect-3: Fundamentals of crystallography and mathematical description of crystals (Dr. Jagdish Kumar)

Hands on Sessions

HOS-1: *Preparing for Computing Material Properties: An overview of Resources and Practices* (Dr. Jagdish Kumar)

HOS-2: XCRYSDEN, SPACEGROUP, XBAND, VESTA (Dr. Ashok Kumar)

Day 2 (15-01-2019, Tuesday)

Lect-4: *Theoretical Foundation of DFT I* (Prof. P. K. Ahluwalia)

Lect-5: *Density Functional Theory: Pseudo-potential Based Approach* (Dr. Ashok Kumar)

Hands on Sessions

HOS-3: Pseudopotential generation and testing using SIESTA (Dr. Arun Kumar)

HOS-4: Semiconductors and Insulators using pseudopotential SIESTA code (Dr. Arun Kumar)

HOS-5: Total energy, DOS and bands structure of simple metals using pseudopotentials SIESTA code: Al, Cu, Na, Ag (Dr. Ashok Kumar)

HOS-6: Practice by the participants (Dr. Ashok Kumar)

Day 3 (16-01-2019, Wednesday)

Lect-6: *Theoretical Foundation of DFT-II* (Prof. P. K. Ahluwalia)

Lect-7: *Theoretical overview of Trans-SIESTA* (Dr. Arun Kumar)

Hands on Sessions

HOS-7: Setting up of trans-SIESTA calculations (Dr. Arun Kumar)

HOS-8: Current-voltage characteristics of nanowires and nanoribbons (Dr. Arun Kumar)

HOS-9: Modelling of 2D systems and their optical properties (Dr. Ashok Kumar)

HOS-10: Practice by the participants (Dr. Ashok Kumar)

Day 4 (17-01-2019, Thursday)

Lect-8: *Theoretical Foundation of DFT-III* (Prof. P. K. Ahluwalia)

Lect-9: *Electron Transport and Thermal Properties with Gollum Package* (Dr. Munish Sharma)

Hands on Sessions

In Silico Approach for Modelling New Materials: Methodology & Applications
(14th Jan. 2019 to 20th Jan. 2019)

HOS-11: Calculations of I-V characteristics (Dr. Munish Sharma)

HOS-12: Calculations of thermal properties (Dr. Munish Sharma)

HOS-13: Calculation of Phonons using Quantum Espresso (Dr. Rajendra Adhikari)

HOS-14: Practice by the participants (Dr. Rajendra Adhikari)

Day 5 (18-01-2019, Friday)

Lect-10: *Full potential density functional theory* (Dr. Jiji Pulikkotil)

Lect-11: *Magnetism using density functional theory* (Dr. Jiji Pulikkotil)

Hands on Sessions

HOS-15: FP-LAPW ELK Code: Computing basic properties (Total Energy, DOS, and Band Structure). (Dr. Jagdish Kumar)

HOS-16: Magnetism using ELK code. (Dr. Jiji Pulikkotil)

HOS-17: Practice by the participants (Dr. Jagdish Kumar)

OP-1: Oral/Poster presentation by participants (Prof. PK Ahluwalia & Dr. Rajendra Adhikari)

Day 6 (19-01-2019, Saturday)

Lecture 12: *Physics of perovskite crystals using DF(P)T (Quantum Espresso package)* (Dr. Rajendra Adhikari)

Lecture 13: *Disordered materials using DFT: A Quick introduction to CPA based approach* (Dr. Dr. Jiji Pulikkotil)

Lecture 14: *Molecular Dynamics: Basic Introduction & Implementation* (Prof. OSKS Sastri)

Lecture 15: *Introduction to LAMMPS code for Molecular Dynamics* (Dr. Yogyata Pathania)

HOS-18: *LAMMPS code and computing basic properties of Materials* (Dr. Yogyata Pathania)

OP-2: Oral/Poster presentation by participants (Dr. Jiji Pulikkotil & Dr. Munish Sharma)

Day 7 (20-01-2019, Sunday)

Panel Discussion: *Question answer session* (All Resource Persons)

Valedictory session and certificate distribution

Lunch

In Silico Approach for Modelling New Materials: Methodology & Applications
(14th Jan. 2019 to 20th Jan. 2019)

Final Report

The Department of Physics & Astronomical Science in Central University of Himachal Pradesh organized one week workshop on ***In Silico Approach for Modelling New Material: Methodology & Applications*** from 14th to 20th January 2019. Around **70** researchers (PG/RD students and faculty members) including 36 participants from different institutions of India and 24 members from CUHP and 10 resource persons participated in this workshop. Along with the theoretical overview of modern techniques for modelling new materials, the hands-on-sessions were also conducted. The subject experts from various institutions of country were called to deliver talks and hand-on-sessions.

Below is the list of invited speakers (from other institutes & CUHP) who delivered talks/conducted hands-on-sessions:

1. **Prof. Sushil Auluck**, Retd. Professor, IIT Roorkee
2. **Prof. P.K. Ahluwalia**, Retd. Professor, Physics Department, Himachal Pradesh University, Shimla
3. **Dr. Jiji Pulikkotil**, Principal Scientist, National Physical Laboratory, New Delhi
4. **Dr. Rajendra Adhikari**, Assistant Professor, Kathmandu University, Nepal
5. **Dr. Ashok Kumar**, Assistant Professor, Centre for Physical Sciences, Central University Punjab
6. **Dr. Arun Kumar**, Assistant Professor, Swami Vevakanand Government Degree College, Ghumarwin, Bilaspur, H.P.
7. **Dr. Munish Kumar**, Assistant Professor, Physics Department, School of Basic Sciences, Maharaja Agrasen University, Baddi
8. **Dr. Yogyata Pathania**, DST Women Scientist, Department of Physics, Indian Institute of Science Education & Research (IISER), Mohali, Punjab
9. **Dr. Jagdish Kumar**, Assistant Professor, Department of Physics & Astronomical Sciences, Central University of Himachal Pradesh
10. **Prof. O. S. K. S. Sastri**, Professor, Department of Physics & Astronomical Sciences, Central University of Himachal Pradesh

The day wise report of the workshop

Day-1 (14-01-2019)

Day 1 began with inaugural function in which Professor B. C. Chauhan welcomed the participants and shared the details of ongoing academic and research activities of the department. Convener of workshop Dr. Jagdish Kumar introduced the participants to overall idea of the workshop and highlighted the crucial role of computational methods in designing modern materials. He told that in this workshop, the participants shall be

In Silico Approach for Modelling New Materials: Methodology & Applications ***(14th Jan. 2019 to 20th Jan. 2019)***

introduced to recent computational techniques of designing new materials. These modern computational methods are extremely helpful to understand and design new materials and shall be thoroughly discussed and practiced in this workshop.

On this occasion, Professor Sushil Auluck from Delhi presented inaugural talk. In his talk, Prof. Auluck highlighted the importance of computational techniques in material science. He shared his experiences of almost 40 years and revolution of computer technology during this period. In next lecture Prof. Ahluwalia, presented the key role of quantum physics behind observed properties of materials. After this Dr. Jagdish shared his talk on crystalline materials and role of such materials in technology around us. After this hands-on sessions were conducted by Dr. Jagdish & Dr. Ashok Kumar from Central University of Punjab.

Day-2 (15-01-2019)

On second day, the session began with lecture by Prof. Ahluwalia where he talked about the technique of density functional theory for study of materials. After this Dr. Ashok presented finer details of this theory.

This was followed by hands-on session by Dr. Arun Kumar from Swami Vivekanad Degree College, Ghumarwin, Bilaspur H.P. where he demonstrated generation, testing and usage of pseudopotentials for doing electronic structure calculations using SIESTA code. In next hands-on-session Dr. Arun Kumar, showed how to compute the electronic structure of simple materials using SIESTA code. This was followed by hands-on-session by Dr. Ashok Kumar where he demonstrated computation of electronic DOS and band structure for some metallic systems using pseudopotential SIESTA approach.

Day-3 (16-01-2019)

On third day, the session began with lecture by Prof. Ahluwalia where he continued his previous talk on development and implementation of DFT. He introduced the participants to various approximations employed in enabling DFT to compute real material properties. After this Dr. Arun presented overview of non-equilibrium Greens function approach (NEGF) for computing transport properties and discussed implementation of same approach in trans-SIESTA code.

In hands-on session Dr. Arun Kumar demonstrated application of trans-SIESTA to compute transport properties of nano-wires and nano-ribbons. This was followed by presentation by Dr. Ashok where he demonstrated application of DFT to model 2-dimensional materials. He shared some of his research studies in this area.

In Silico Approach for Modelling New Materials: Methodology & Applications
(14th Jan. 2019 to 20th Jan. 2019)

Day-4 (17-01-2019)

The fourth day began with lecture by Prof. Ahluwalia where introduced participants to the idea of exchange and correlation functional and how they are approximated in DFT. After this Dr. Munish Sharma from MAU, Baddi, presented approach for computing transport properties using Gollum code. In hands-on-sessions Dr. Munish Sharma demonstrated the application of Gollum code for computing transport (I-V properties) and thermal properties of materials. This was followed by hands-on-session by Dr. Rajendra Adhikari in which he introduced participants to recently installed supercomputing facility in his university and provided them accounts there. He also demonstrated how phonon dispersion calculations can be performed using Quantum Espresso code.

Day-5 (18-01-2019)

The fifth day began with lecture by Dr. Jagdish Kumar from CUHP, where he introduced participants to the idea of muffin tin potentials and full potential Linearized augmented plane wave approach. This was followed by lecture of Dr. Jiji Pulikkotil from National Physical Laboratory where he introduced participants to the idea of magnetism and how magnetism can be understood with density functional theory. He shared his recent results on magnetic properties of materials. This was followed by hands-on-session by Dr. Jagdish Kumar & Dr. Jiji Pulikkotil where they demonstrated applications of FPLAPW based elk code for computing electronic structure and magnetic properties.

Day-6 (19-01-2019)

The sixth day began with talk of Dr. Rajendra Adhikari from Kathmandu University, Nepal on physics of provskite crystals and he presented the idea of DF(P)T in Quantum Espresso package. This was followed by lecture of Dr. Jiji Pulikkotil where he introduced the idea of Coherent Potential Approximation (CPA) which he said is very useful tool for studying disordered materials. He shared some results on disordered materials to demonstrate validity and success of CPA based calculations. This was followed by lecture of Prof. O.S.K.S. Sastri from CUHP in which he gave brief overview of basics of molecular dynamics. Then Dr. Yogyata Pathania from IISER Mohali demonstrated presented her talk on Molecular Dynamics approach using LAMMPS code. This was followed by her hands on session on the same code where she demonstrated how one can calculate many properties like lattice constant, thermal conductivity etc. using classical molecular dynamics approach. Then oral presentations of some of their results were given by participants of the workshop.

Day-9 (20-01-2019)

In Silico Approach for Modelling New Materials: Methodology & Applications ***(14th Jan. 2019 to 20th Jan. 2019)***

On last day was a feedback from the participants. This was followed by formal valedictory function in which Honorable Vice Chancellor Prof. K. C. Agnihotri was chief guest. In his valedictory speech he said that this workshop has been a very good effort by department of Physics and Astronomical Science to benefit students of CUHP and other institutions of country. Then Dr. Jagdish Kumar presented report of overall activities during the workshop followed by vote of thanks.

Outcome of gathering/Future course of Action

The overall workshop has been very fruitful for the participants as described by their feedback. The participants specifically appreciated the hands-on-sessions and demonstration of free open source software (FOSS) during the workshop. The participants appreciated the overall organization of the workshop. In this workshop, CUHP found new opportunities to collaborate with two institutions:

1. Kathmandu University, Nepal: They have offered their supercomputing facility for participants and CUHP researchers for coming time. More possibilities of research exchange are being explored in this direction.
2. CSIR NPL: National Physical Laboratory is a well equipped laboratory of countries to study material science and other allied areas. CUHP as of now is facing crunch of physical infrastructure and research facilities. So, some MOU/Collaboration between CUHP and NPL can offer students and faculties of CUHP a good platform to accelerate their research progress. This can also be good idea for NPL to reach out academic institutions to benefit young researchers of country.

ABOUT THE WORKSHOP

The one-week workshop on econometrics is organized by the Department of Economics under the aegis of IQAC. The resource person for the workshop shall be Dr Vijayamohanan Pillai. Dr Pillai is an associate professor at the Centre for Development Studies, Trivandrum. He is a foremost expert on econometrics in India. He was more than two decade of teaching experience. It is a capacity building workshop targeted at the postgraduate (PG) and doctoral students in the Department. It aims at imparting data analysis skills and developing research capabilities in the students. The students from other departments/schools are also welcome to participate.

ORGANISER
DEPARTMENT OF ECONOMICS
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
TAB, SHAHPUR-176206 (HP)
(UNDER AEGIS OF INTERNAL QUALITY
ASSURANCE CELL (IQAC))

Under the aegis of IQAC

DATE
13-17 MAY 2019
(9:00 AM TO 5:00 PM)

VENUE
SEMINAR HALL
DHAULADHAR PARISAR-II
CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
DHARAMSHALA-176215 (HP)

ONE-WEEK WORKSHOP ON ECONOMETRICS


RESOURCE PERSON

**DR. N. VIJAYAMOHANAN
PILLAI**

Associate Professor, Centre for
Development Studies, Trivandrum,
Kerala

Report of the Econometric Workshop 13-17 May 2019

The one-week workshop on econometrics was organized by the Department of Economics & Public Policy under the aegis of IQAC on 13-17 May 2019. The resource person for the workshop was Dr Vijayamohanan Pillai. Dr Pillai is an associate professor at the Centre for Development Studies, Trivandrum. He is a foremost expert on econometrics in India. He was more than two decade of teaching experience. The workshop targeted at the postgraduate (PG) and doctoral students in the Department. The workshop imparted data analysis skills and developing research capabilities in the students.



विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र एवं लोकनीति विभाग
Head, Department of Economics & Public Policy
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अस्थायी शैक्षणिक खण्ड/Temporary Academic Block
धौलाधार पॅरिसर-1 धर्मशाला/Dhauladhar Pansar-1 Dharamshala-176215



**TWO DAYS WORKSHOP
ON**

INDIAN MATHEMATICS

SEPTEMBER 13-14, 2019

**ORGANISED
BY**

**THE MATHEMATICAL SOCIETY
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH,
TAB-SHAHPUR**

Department of Mathematics is organized Two days workshop on INDIAN MATHEMATICS w.e.f. September 13, 2019 to September 14, 2019 for the students of Mathematics. The resource persons for this workshop were:

1. Professor Krishna murthi Rama subramanian, Cell for the Indian Science and Technology in Sanskrit, Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology Bombay, India
2. Professor Clemency Montelle School of Mathematics and Statistics, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

The basic purpose of this programme was to acquaint the students with the evolution of mathematical concepts in ancient India, the contributions of Indian mathematicians in ancient/Vedic mathematical and astronomical fields, and to connect it with the modern aspects of mathematics. It is also expected to obtain measures for the collection of such literature, and discuss pertinent future research problems in the history of Indian Mathematics. This workshop is very useful in linking the ancient/Vedic Indian mathematical contributions with modern mathematics, and in the exploration of Indian mathematical documents that have never been studied.

The schedule of the programme is as under:

September 13, 2019

Inaugural: 9.00am -- 9.30am

Mathematical Rangoli -- 9.30am -- 10.00am

Model/Poster presentation -- 10.00am -- 11.00am

Tea Break -- 11.00am to 11.15noon

PI-DIGIT contest -- 11.15am to 12.15pm

Refreshment Break -- 12.15pm to 1.00pm

Lecture 1: KR -- An overview of Indian mathematics and introduction to Śulbasūtras (1.00 -- 2.30)

Lecture 2: CM -- Geometrical construction in the Śulbasūtras (2.30 -- 3.30)

Tea Break: 3.30--3.45pm

Lecture 3: KR -- The mathematics of poetry: Pingala's Chandassastra (3.45 -- 5.15)

September 14, 2019

Lecture 4: KR -- Mathematics in poetry & Combinatorics (9.00--10.30)

Lecture 5: CM -- Selected examples of mathematical poetry (10.30--11.30)

Tea Break: 11.30-11.45am

Lecture 6: KR -- Study of series in India (11.45--1.15)

Lunch Break: 1.15--2.00pm

Lecture 7: CM -- Introduction to trigonometry in India (2.00-3.00)

Tea Break: 3.00--3.15pm

Lecture 8: KR -- The computation of sines (3.15--4.15)

Valedictory: 4.15--5.15



Students Creativity



Rangoli made by the students



IQAC, CUHP
&



**DHARAMSHALA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (DIFF)
2019 AND SCHOOL OF JOURNALISM, MASS
COMMUNICATION & NEW MEDIA IN JOINT COLLABORATION
ORGANIZES**

(4)

Screening of Feature Film

MASAAN


**Date, Time & Venue: October 16, 2019, 11.00 AM Seminar Hall, Dhauladhar
Campus, Dharamshala**

Dharamshala International Film Festival (DIFF) 2019 in joint collaboration with the School of Journalism, Mass Communication and New Media is screening feature Film 'MASAAN' on 16th October 2019 at Dhauladhar Campus, Dharamshala.

Masaan (trans). Crematorium; also known as Fly Away Solo in English) is a 2015 drama film directed by Neeraj Ghaywan. The directorial debut film is an Indo-French co-production produced by Drishyam Films, Macassar Productions, Phantom Films, Sikhya Entertainment, Arte France Cinema and Patlié Productions. The film was screened in the Un Certain Regard section at the 2015 Cannes Film Festival winning two awards.

The screening of the film will be later followed by a critical discussion about the art, aesthetics and dramatic structure of the film. The students of MA New Media Communication and MA Journalism & Mass Communication are requested to participate in the screening of the film. The students of other schools and departments shall also participate in the screening as per their convenience.

Mr. Harikrishnan Bhaskaran, Assistant Professor (JCW) along with Abhishek Thakur, Outreach Program Co-ordinator from Dharamshala International Film Festival (DIFF) 2019 will co-ordinate the screening and discussion session for the day.


Prof. Pradeep Nair
अधिकाता, पत्रकारिता, जनसंचार एवं नवमीडिया स्कूल
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
धौलाधर परिसर
परमताला कॉम्प्लेक्स (हि.प्र.) 176215



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला - 176215

सदर आमंत्रण

Google News Initiative

कार्यशाला

फैक्ट चेकिंग एवं फेक न्यूज वेरिफिकेशन

दिनांक 18 अक्टूबर 2019 | समय : 10 बजे पूर्वार्द्ध

स्थान : सेमिनार हॉल, नीलाधार परिसर-I

डॉ. मुकुल श्रीवास्तव

गूगल सर्टिफाइड फेक्ट चेकर

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

Google BOOM FIRST af storyful data DRAFT LEADS

आयोजक : पत्रकारिता, जनसंचार एवं जन प्रीतिया कल्ल हि मा ने नि

Two-Day National Seminar on Analytical Aspects of Dynamics
22-23 November, 2019

NOTICE



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act 2009)
अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, जिला काँगड़ा (हि.प्र.) - 176206
Temporary Academic Block, Distt. Kangra (HP) - 176206
Website: www.cuhimachal.ac.in


File No.: MTH/2-2/CUHP/19/

Dated: 22/11/2019

सूचना

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर में श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल द्वारा दिनांक 22-23 नवम्बर, 2019 को **Analytical Aspects of Dynamics** विषय पर "दो दिवसीय संगोष्ठी" का आयोजन किया जा रहा है।

अतः श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग के सभी विद्यार्थियों एवम् शोधार्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संगोष्ठी के दौरान आयोजित अतिथि व्याखानों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।


प्रो. राकेश कुमार,
विभागाध्यक्ष,
गणित विभाग

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आगामी कार्यवाही हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. सूचना पट्ट।
2. सभी संकाय सदस्य, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर।
3. अधिष्ठाता, गणित, कंप्यूटर एवम् सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर।


विभागाध्यक्ष,
गणित विभाग

Srinivasa Ramanujan Department of Mathematics

Analytical Aspects of Dynamics

Advisory Committee:

Prof. (Dr.) Kuldip Chand Agnihotri
Honorable Vice-Chancellor
CUHP, Himachal Pradesh, India

Prof. (Dr.) P. N. Pandey
Honorable Vice-Chancellor
NGBU, Allahabad, India

Prof. (Dr.) B. C. Chauhan
Dean, School of Physical & Material Sciences
CUHP, Himachal Pradesh, India

Prof. (Dr.) D. N. Dubey (Retd.)
Deptt. of Mathematics & Statistics
DDUGU, Uttar Pradesh, India

Invited Speakers (Probable):

Prof. (Dr.) R. P. Sharma, HPU, Shimla

Prof. (Dr.) Sunil, NIT Hamirpur, Hamirpur

Prof. (Dr.) P. K. Ahluwalia, HPU, Shimla

Prof. (Dr.) A. K. Vashistha, Kurukshetra
University, Kurukshetra

Prof. (Dr.) M. K. Sharma, GJUST, Hisar

Prof. (Dr.) S. D. Sharma, Jammu University,
Jammu

Dr. Amit Prakash, NIT Kurukshetra,
Kurukshetra

Dr. Shankhadeep Chakraborty, IIT Ropar,
Punjab

Dr. Sourav Bhattacharya, IIT Ropar, Punjab


Dr. Amit Mahajan, NIT Delhi, New Delhi



National Seminar on “Analytical Aspects of Dynamics” (NSAAD-2019)

November 22-23, 2019

Organized by
Department of Mathematics
Central University of Himachal Pradesh
TAB-Shahpur, 176206, HP, India



About the University:

The Central University of Himachal Pradesh is established under the Central Universities Act 2009 (No. 25 of 2009) enacted by the Parliament. The University is funded and regulated by the University Grants Commission (UGC). The Central University of Himachal Pradesh strives for Inclusive Access to Excellence in Higher Education and Research to emerge as Premier University of the Country at par with the best Universities of the World in terms of Programme Offerings, Curricular Framework, Pedagogy, Research, Publications and Integration with the World of Work. For more details, please visit: www.cuhimachal.ac.in

Organizing Committee:

Convenor:

Prof. (Dr.) Rakesh Kumar, Dean & Head
Deptt. of Mathematics

Organizing Secretary:

Dr. S. K. Srivastava, Assistant Professor
Deptt. of Mathematics

Members:

Dr. Ayan Chatterjee, Assistant Professor

Dr. Dalip Singh Verma, Assistant Professor

Dr. Jagdish Kumar, Assistant Professor

Dr. Rajesh Kumar Singh, Assistant Professor

Dr. Surender Verma, Assistant Professor

Dr. Vikram Singh, Assistant Professor

Sh. Keshav Singh Rawat, Assistant Professor

Sh. Manoj Dhiman, Assistant Professor

Sh. Ajay Kumar, Assistant Professor

Sh. Nimmala Karunakar, Assistant Professor

Sh. Arun Bhatia, Assistant Professor

Dr. K. Srivastava, DST Women Scientist

Contact Persons:

Dr. S. K. Srivastava, +91-98160-78345

Dr. Rajesh Kumar Singh, +91-9805551767

Seminar Report

Day 1: 22 November, 2019

The Two-Day National Seminar on “Analytical Aspects of Dynamics” (NSAAD) under aegis of Silver Jubilee Celebration of International Academy of Physical Sciences (IAPS) was organised by the Department of Mathematics, Central University of Himachal Pradesh (CUHP) began (on 22.11.2019, 10:15 AM, Venue: Conference Hall CUHP TAB Shahpur) with Sanskrit chants by Dr. Khushbu Srivastava, DST-Women Scientist, followed by welcome address by Prof. Rakesh Kumar, Convener, NSAAD 2019.

The Chief Guest of Inaugural Session was Professor SomDatt Sharma from Central University of Jammu. In his keynote address the Chief Guest stressed the importance of Mathematics in other branches of Science, including Physics, Chemistry, Music as well as Engineering. He also noted that this kind of gathering serves important purposes, of attracting the younger students to the fields of research as well as allowing interactions between researchers from different fields of study, paving way for inter-disciplinary research.



Inaugural Session of the NSAAD

Inaugural Session was also addressed by Prof. B.C. Chauhan, Dean School of Physical and Material Sciences, Guest of Honour Prof. M.K. Saxena, followed by the Presidential address by Prof. Baldev Bhai Sharma. They also welcomed the participants and expressed hope that this seminar shall lead to fruitful contributions to the field of science.

The Pre-Lunch Technical Session i.e., Plenary Session-I, of the Seminar, started at 11:30 AM and continued till 2:00 pm, in which lectures on specialized topics were delivered by Prof. S. D. Sharma, Central University of Jammu, on “Functional Analysis on Hardy-Bergmann spaces”, Dr. A. Prakash, NIT Kurukshetra, on “applications of the newly developed Fractional Calculus in Engineering”, Dr. K. Srivastava, DST-Women Scientist, CUHP, on “Paracontact Geometry” and Dr. J. Kumar, CUHP, on “High temperature Superconductivity” were delivered. Plenary Session-I was chaired by Dr. T. R. Sharma, HPURC.

The Post-Lunch Technical Session i.e., Plenary Session-II, of the Seminar started at 2:30 pm and continued till 4:00 pm in which talk on “Gamma Semirings” by Dr. T. R. Sharma, HPURC, on “Black holes entropy” by Dr A. Chatterjee, CUHP and on “Data Mining” by Prof. S. Gour, JEC Jaipur were delivered. Plenary Session-II was chaired by Dr. Amit Prakash, NIT Kurukshetra.

After the Plenary Session-II, Paper Presentation-I took place in Conference Hall chaired by Dr. R. K. Singh, CUHP. This Paper Presentation Session started at 4:00 pm and continued till 6:30 pm. Total 15 papers were presented in this session.

DAY 2: 23 NOVEMBER, 2019

The Pre-Lunch Technical Session i.e., Plenary Session-III, of the Seminar, started at 9:00 am and continued till 11:00 am, in which lectures of Dr Shankhadeep Chakraborty, IIT Ropar, on “Tensionless string theory” and Dr Sourav Bhattacharya, IIT Ropar, on “aspects of black hole physics in de Sitter spacetime” were delivered. Plenary Session-III was chaired by Dr. A. Chatterjee, CUHP.

During Plenary Session-IV (11:15 am -12:15 am) Dr Amit Mahajan, NIT Delhi delivered a talk on “Hydrodynamic stability by energy method”. This Session was chaired by Prof Rakesh Kumar, Convenor, NSAAD 2019. After Plenary Session-IV, Dr T R Sharma delivered keynote speech (12:15 pm -1:30 pm) on the theme of seminar and highlighted the significance of algebraic dynamics and dynamical system in cell biology.

The Post Lunch Paper Presentation-II (2:00 pm-4:00 pm) was chaired by Dr K. Srivastava, DST-Women scientist, CUHP. Total 11 papers were presented in this session.

During the Valedictory Session of the Seminar, Dr. S. K Srivastava, Organizing Secretary, NSAAD 2019 presented detailed report of the Seminar. Prof. H.R. Sharma, Hon'ble Pro Vice Chancellor, CUHP was Chief Guest of this Session. Prof. Sharma appreciated the Department for taking initiative to organise 1st National Seminar and highlighted the importance of Mathematics in Economics.

The distinguished guest, Dr Raj Kumar Upadhyay Mani, Head, Department of Hindi, CUHP spoke about interrelation of Mathematics with Literature.

The best paper and best presentation certificates were given to Mr. Arief, Department of Mathematics, CU Jammu and Mr. Tapender Singh, Department of Physics, CUHP respectively.

Prof. S.D. Sharma has chaired this Session and Prof. Rakesh Kumar, Convenor, NSAAD 2019 proposed the vote of thanks to all participants, invited speakers, guests, faculty members, supporting staffs and students for their active participation in the seminar. Prof. Rakesh Kumar expressed his gratitude towards Canara Bank Kotwali Bazar, Dharamshala for sponsoring the event.

During the Seminar, total 12 lectures were delivered and total 26 research papers were presented. Researchers from different research institutes, IITs, NITs, Universities as well as the students and faculty of CUHP took active part in proceedings.



Group Photo

“We are happy and proud to report that the NSAAD 2019 was successful and met all its objectives”.



Central University of Himachal Pradesh
School of Commerce and Management Studies
CUHP Business School

Presents webinar on:



**"Stock market is
a mirror of
economy". A
myth or reality.**

Surjit Basantaray
Regional Director
Eunoia Financial
Pvt. Ltd.

on Saturday, 9th January
11:00 am onwards



**CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
COMMERCE AND MANAGEMENT SOCIETY
HPKVBS, (SCMS)**

**Organizing 2nd One Day Webinar
on
"Online Academic Resources and
Search Tools"**

**On Friday 26th February
03:00 Pm to 05:00 Pm**

**JOIN US ON GOOGLE MEET
[HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/KPJ-FFUP-PSS?](https://meet.google.com/KPJ-FFUP-PSS?HS=224)
HS=224**



Dr. Dimple Patel
Associate Professor
Central University of Himachal Pradesh



**CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
COMMERCE AND MANAGEMENT SOCIETY
HPKVBS, (SCMS)**

**ORGANIZING 3RD ONE DAY
WEBINAR**

ON

**"PREPARING REVIEW OF
STUDIES THROUGH SLR AND
BIBLIOMETRICS IN RESEARCH"**

ON MONDAY 8th MARCH

02:30 PM TO 04:30 PM

**JOIN US ON GOOGLE MEET
meet.google.com/iha-bgfs-aza**



**DR. MANOJ KUMAR DASH
INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION
TECH & MGT GWALIOR**

Central University of Himachal Pradesh

meet.google.com/hdg-llqw-wcz?authuser=1&hl=en

Ajay Kumar is presenting

SOME RULE OF THUMBS

Minimum sample size is 100
 10 times the number of items
 Maximum sample size can be 10% of the population

Acceptable margin of error	Size of population	5000	2500	1000	500	200
±20%	Large	24	24	23	23	22
±15%		43	42	41	39	35
±10%		96	94	93	81	65
±7.5%		171	165	160	127	92
±5%		384	357	333	278	132
±3%		1067	880	748	516	169

Dr. Ajay Kumar, Central University of Haryana

Sample Size Determination : Metho...

People (52)

Ajay Kumar is presenting

12:59 PM 2/20/2021

Central University of Himachal Pradesh

meet.google.com/pip-nrpw-jmm?authuser=1&hl=en

Manoj Dash is presenting

Preparing Review of Studies through...

COSMOS LEARN and 34 more

3:21 PM

unit

united kingdom

malaysia

australia

india

taiwan

hungary

italy

greece

united arab emirates

jordan



sotho



preparing

Review of Studies through...

Manoj Dash is presenting

3:21 PM 3/9/2021





Report of Webinar on ‘Genome-wide changes under Microgravity’

(15.05.2020)

The School of Life Sciences conducted a webinar on “Genome-wide Changes Under Microgravity” on 15 May, 2020 from 2.30-3.30 p.m., as an academic activity during the country-wide lockdown due to covid-19 pandemic. Dr. Albert Premkumar was the resource person of the webinar. Dr. Premkumar has a brilliant career graph with research experience in various foreign institutions like Stockholm Universitet, Sweden; Meiji University Japan; Universidad de Malaga Spain; Universitaet zu Koeln and Botanisches Institute Germany. The growth of plants in outer space has elicited much scientific interest. The first challenge in growing plants in space is to get plants to grow without gravity. Dr. Albert mentioned the various fields within Space Biology and narrated the history of the subject starting from the experiments carried out by the first spaceship to the very latest developments ie. vegetable production in space. He also dealt with metabolome, proteome and genome and hormonal activity changes in microgravity. That as many as 125 participants from different parts of the country participated in the webinar is proof that the topic was well appreciated by the academic community.

As planned, the webinar started at 2.30 p.m. and was completed within one hour. Within that stipulated time, Dr. Premkumar provided the audience comprehensive knowledge of the wonderful world of space biology. He also introduced to the student community new books and journals which dealt with current research in the emerging field of Space Biology. The programme ended with vote of thanks.

Resource Person: **Dr. Albert Premkumar**
Scientist, Department of Molecular Biology & Genetics
Istanbul University, Istanbul, TURKEY



“जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के तहत फसल में सुधार”

जैविक विज्ञान स्कूल
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
अस्थाई शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर
जिला: कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

संरक्षक : प्रो. (डॉ.) कुलदीप चन्द अग्निहोत्री
(माननीय कुलपति)

कार्यकारी समिति :
 डॉ. सुनील कुमार
 डॉ. महेश कुल्हरिया

संयोजक : प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार कुमार
सह संयोजक: डॉ. दिव्या वी. नायर

सदस्य :
 डॉ. ऋषि ठाकुर
 डॉ. मुनीश शर्मा
 डॉ. अशुन चौधरी
 डॉ. शैलेंद्र कुमार वर्मा
 डॉ. विक्रम सिंह
 डॉ. रंजीत कुमार
 डॉ. राकेश कुमार
 डॉ. तारकेश्वर

सत्र - I - 28/05/2020, 2pm - 3pm
प्रो. कदंबोट सिव्दीक
 (कृषि अध्यक्षा और निदेशक के हकेट अपेक्षार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया)
विषय: “शुष्क भूमि कृषि में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में नवाचार”

सत्र - II - 28/05/2020, 3pm - 4pm
प्रो. झांग हांग
 (जीव विज्ञान विभाग, टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी, यूएसए)
विषय: “अधिक पौधे फसल में सुधार के लिए अधिक विकल्प”

सत्र - III - 29/05/2020, 2pm - 3pm
डॉ. सलज सुद
 (वैज्ञानिक सीनियर स्केल, आईसीएआर आनू अनुसंधान संस्थान, शिमला)
विषय: “जीनोमिक चयन और पूर्वकथन”

सत्र - IV - 29/05/2020, 3pm - 4pm
डॉ. विश्वनाथन सरसन
 (रॉयल बॉटैनिकल गार्डन, केव, लंदन)
विषय: “प्रकृति और संरक्षण से लोगों को जोड़ना”

पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://docs.google.com/forms/d/1WNFvUcwF1GIZnXQR9emtPnN-zi-WODuybqodTCh_fmW/edit

संपर्क: डॉ. दिव्या वी. नायर - divyanaircuhp@gmail.com

Brochure of the International Webinar

Report of International webinar on ‘Innovation in Crop improvement under changing climate conditions’ (28.05.2020)

The School of Life Sciences conducted a webinar on “Innovations in Crop Improvement Under Changing Climatic Condition” on 28th May, 2020 as an academic activity during the country-wide lockdown due to covid-19 pandemic. During the meeting Prof. Pardeep Kumar has addressed the gathering and shared his welcome speech with the audience. Prof. Kadambot Siddhique, from the University of Western Australia had delivered a talk on “Innovations in adaptation to climate change in dry land agriculture”. Professor Siddique is Hackett Professor of Agriculture Chair and Director from the University of Western Australia, Australia. After the session of Dr. Siddique, there was a talk by Dr. Salej Sood from on that day. Dr. Sood spoke about “Genomic selection and prediction”. His work was on Potato. Dr. Sood is a senior scientist at ICAR Potato Research Institute, Shimla. Prof. Hong Zhang from the Texas Tech University, USA also had addressed the gathering. Prof. Zhang shared his research experiences on abiotic stress tolerance in crops.

There were around 100 participants from different parts of the country participated in the webinar is proof that the topic was well appreciated by the academic community. As the meeting was conducted over google meet platform the maximum slots for the participants were limited. As planned, the webinar started at 2.00 pm and the programme was over by 5.00pm.

Resource Persons:

Prof. Kadambot Siddique Hackett

Professor of Agriculture Chair and Director, Institute of Agriculture The University of Western Australia, Australia

Dr. Salej Sood, Scientist Sr. Scale, ICAR Potato Research Institute, Shimla (HP)

Prof. Hong Zhang, Department of Biological Sciences, Texas Tech University, US



National Webinar On

“Strategy for Managing Personal Finance Including Mutual Funds During and After COVID-19”

Organised by

HPKVBS, School of Commerce and Management Studies

Central University of Himachal Pradesh

In association with

Securities and Exchange Board of India (SEBI)

And

Association of Mutual Funds in India (AMFI)

Date: 10 July, 2020

Time: 12.00 p.m to 2.00 p.m

Program Schedule

S.no	Programme	Details	Duration
1)	Welcome Address by Convenor	Prof. Mohinder Singh, Dean SCMS	12.00 p.m to 12.05 p.m
2)	Address by Organising Secretary	Dr. Manpreet Arora, Assistant Professor Management, SCMS	12.05 to 12.10 p.m
3)	Address by Co-convenor	Prof. Sanjeev Gupta, Head of Department, HPKVBS	12.10 p.m to 12.15 p.m
4)	Address by Chief Guest	Prof. SP Bansal, HVC, Himachal Pradesh Technical University	12.15 p.m to 12.30 p.m
5)	Address by SEBI Official	Mr Viral Parekh, AGM SEBI	12.30 p.m to 12.45 p.m
6)	Keynote Address by AMFI Official	Sh. Surya Kant Sharma, Senior Consultant, North Region, AMFI, Ex DGM, SEBI	12.45 p.m to 1.30 p.m
7)	Address by NSDL official	Sh. Ankur Mittal, Senior Vice President, NSDL	1.30 p.m to 1.45 p.m
8)	Questions	Dr. Ashish Nag, Moderator, Associate Professor, Department of Travel and Tourism	1.45 p.m to 1.55 p.m
9)	Vote of Thanks	Dr. Manpreet Arora, Organising Secretary	1.55 p.m to 2.00 p.m

Link of Google Form for Registration of Webinar in advance is:

<https://forms.gle/evXPWm3iH5zquMUL7>

(ii) Link to join the WhatsApp group of the Webinar to receive the link and programme schedule for joining the Webinar is:

<https://chat.whatsapp.com/LXzK2i5EBpKFucejAks4j>

Please download the "cisco webex App" from Google Play Store. Active participants will be given E-certificate of the Webinar through E-mail.



Central University of Himachal Pradesh
School of Commerce and Management Studies
CUHP Business School

Presents Webinar on



Agriculture Reforms Acts, 2020: "A Road Ahead"

on Friday, 4th December
11:30 AM onwards

Prof. Sukhpal Singh
Centre for Management
in Agriculture
IIM Ahmedabad



Join Us on
Google Meet

meeting code: **tts-osmc-sef**



Central University of Himachal Pradesh
School of Commerce and Management Studies
CUHP Business School

Presents

E-Workshop on Advanced Excel



Assistant Professor, Finance
Department of MBA
ITS Engineering College, Greater
Noida

on Saturday, 5th December
in two session
I : 10 am -12 pm
II : 1 pm – 3 pm

Join us on



Meeting Code :- **dbe-eepe-rzo**



Central University of Himachal Pradesh
Commerce and Management Society
HPKVBS, (SCMS)

Organizing One Day Workshop on



Dr. Ajay kumar
Assistant Professor
Central University Of Haryana

***“Sample Size Determination:
Methodology and Issues”***

***On Saturday 20th February
11:00 Am to 1:00 Pm***



***Join us on
Google Meet***

**International Workshop
Geometry of continuous fractions: Ramanujan and his successors
14-15 September 2020**

NOTICE



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act 2009)
अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) - 176206
Temporary Academic Block, Distt. Kangra (HP) - 176206
Website: www.cuhimachal.ac.in


File No.: MTH/2-2/CUHP/19/

Dated: 14/09/2020

सूचना

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर में श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल द्वारा दिनांक 14-15 सितम्बर, 2020 को **Geometry of Continued Fractions: Ramanujan and his Successors** विषय पर "दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला" का आयोजन किया जा रहा है।

अतः श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग के सभी विद्यार्थियों एवम् शोधार्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यशाला के दौरान आयोजित अतिथि व्याख्यान में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।


प्रो. राकेश कुमार,
विभागाध्यक्ष,
श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आगामी कार्यवाही हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. सूचना पट्ट।
2. सभी संकाय सदस्य, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर।
3. अधिष्ठाता, गणित, कंप्यूटर एवम् सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर।


विभागाध्यक्ष,
श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग

Patron:

Prof. (Dr) Kuldeep Chand Agnihotri
Honorable Vice-Chancellor
CUHP, Himachal Pradesh, India

Advisory Committee:

Prof. (Dr) Hum Chand
Dean, School of Physical & Material Sciences
CUHP, Himachal Pradesh, India

Prof. (Dr) Sandeep Kumar Sood
Head, Department of Computer Science & Informatics
CUHP, Himachal Pradesh, India

Invited Speakers (Probable):

Dr. Amanda Folsom
Professor and Department Chair
Amherst College
Department of Mathematics and
Statistics, Amherst, MA 01002



Dr. Rupam Barman
Associate Professor
Department of Mathematics
IIT Guwahati, India



Dr. Vijay M. Patankar
Associate Professor
Department of Mathematics
BITS Pilani, Goa, India



Dr. Ravinder Singh
Assistant Professor
Department of Mathematics
NIT Jalandhar, India



Online
International Workshop
on

**"Geometry of Continued Fractions:
Ramanujan and his successors"**

September 14-15, 2020

Organized by

Srinivasa Ramanujan Department of Mathematics
Centre for Vedic Mathematical Studies
Central University of Himachal Pradesh
TAD-Shahpur, PIN-176206, HP, India

**About the University**

The Central University of Himachal Pradesh is established under the Central Universities Act 2009 (No. 25 of 2009) enacted by the Parliament. The University is funded and regulated by the University Grants Commission (UGC). The Central University of Himachal Pradesh strives for Inclusive Access to Excellence in Higher Education and Research to emerge as Premier University of the Country at par with the best Universities of the World in terms of Programme Offerings, Curricular Framework, Pedagogy, Research, Publications and Integration with the World of Work. For more details, please visit: www.cuhimachal.ac.in

Organizing Committee:**Convenor:**

Prof. (Dr) Rakesh Kumar, Dean & Head
SoMC&S, Srinivasa Ramanujan Department of Mathematics,
CUHP

Organizing Secretaries:

Dr. S. K. Srivastava, Assistant Professor
Srinivasa Ramanujan Department of Mathematics, CUHP

Dr. Pankaj Kumar, Assistant Professor
Srinivasa Ramanujan Department of Mathematics, CUHP

Members:

- ♦ Dr. Rakesh Kumar Singh, Assistant Professor
Department of Physics & Astronomical Science, CUHP
- ♦ Sh. Sanjay Singh, Hindi Officer, CUHP
- ♦ Sh. Vicky Bhardwaj, CUHP
- ♦ Sh. Rohit Dhiman, CUHP

Registration Details:

- ♦ Register online on or before 12th September 2020 at following link:
https://docs.google.com/forms/d/1Bfn6PvCjHMcL_P7B6ASKG6_4n9kNag210WmM546ss0/edit?usp=sharing

Note:

- ♦ No Registration Fee.
- ♦ Maximum limit of participants is 100.
- ♦ Selected participants will be notified on or before 13th September 2020.
- ♦ 100% attendance will be required.
- ♦ Registered participants will receive an E-certificate only after the completion of workshop.

Contact Persons:

- ♦ Dr. S. K. Srivastava, +91-98160-78345,
sachink.ditumath@hncuas.in
- ♦ Dr. Pankaj Kumar, +91-70185-47330,
pankajthakur2885@hncuas.in

The Srinivasa Ramanujan Department of Mathematics and Centre for Vedic Mathematical Studies of the Central University of Himachal Pradesh organized an international workshop on the topic **"Geometry of continuous fractions: Ramanujan and his successors"** during the period 14 September to 15 September 2020. The workshop's convener Professor Rakesh Kumar said after the workshop that the workshop introduced the researchers, students, young teaching personnel and scientists at global level with the works of renowned Indian mathematician Srinivasa Ramanujan and his successors on various analytical aspects of geometry of continued fractions. According to him, continued fractions play a central role in analytic number theory by providing best rational approximation to real numbers, and its applications can be seen in harmonics, electric networks, geometry of numbers, complex analysis, numerical analysis, dynamical systems, music, calendars and gears.



रंगोलीप्रतियोगितामेंविद्यार्थियोंद्वाराबनाईगईरंगोली

Srinivasa Ramanujan: the man beyond infinity

Central University of Himachal Pradesh School of Commerce & Management Studies (SCMS)

In Association With
**NCDEX Institute of Commodity Markets and
Research (NICR)**

Announces National Webinar on Commodity Derivatives Market

On 17 September (Thursday), 3:00 PM to 5:00 PM



Prof. (Dr.) Kuldip Chand Agnihotri
Hon'ble Vice- Chancellor
Central University of
Himachal Pradesh (Patron)




Prof. (Dr.) Mohinder Singh
Dean,
School of Commerce and
Management studies
(Convenor)



Mr. Aleen Mukherjee
COO, NICR



Mr. Niraj Shukla
AVP, NICR



Mr. Ram Gopal Yadav
Dy. Mgr., NICR



Ms. Annuradha Singh
Sr. Associate, NICR

ADVISORS

Prof. Sanjeev Gupta
Prof. Dipanker Sharma
Dr. Suman Sharma

ORGANISING SECRETARY

Dr. Manpreet Arora
Dr. Ashish Nag

MODERATOR

Dr. Aditi Sharma
Dr. Rita Sharma

ORGANIZING COMMITTEE

Dr. Gitanjali Upadhaya
Dr. Bhawana Bhardwaj
Dr. Chaman Kashyap
Dr. Sarvesh Kumar

Platform - Cisco Webex

***Participants who attend complete webinar will be awarded
e-certificates of participation***

***Free
Registration***

Contact No.: +91 9654546655, +91 9816343330, +91 9418188362

Registration Link: (Copy link and Paste Browser New Tab)

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-jwAzj79oWhLhkjKU6DnzjMMNUudt7GT9Yg4-VubWeFe0yw/viewform?gxids=7628>



हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन स्कूल
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन विभाग
वाणिज्य और प्रबंधन सोसाइटी द्वारा आयोजित

ऑनलाइन पैनल चर्चा
"श्रम सुधार, २०२०: भावी राह "

दिनांक:
०४ अक्टूबर २०२०

मंच:
गूगल मीट
meet.google.com/qmi-bzmx-iiw

समय:
११ पूर्वाह्न से १२ मध्याह्न

ई-प्रमाण पत्र:
चर्चा में सम्मिलित छात्रों को
दिया जाएगा



मुख्य अतिथि

प्रो० (डॉ०) कुलदीप चंद अग्रहोत्री
माननीय कुलपति
हि० प्र० के० वि०, धर्मशाला



श्री पी जे देसाई
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
ओएनजीसी बडोदरा



श्री वरुन कुमार
उप प्रबंधक
कार्मिक और प्रशासन विभाग
एसएआईएल आसनसोल



श्री सुधीर गुलिआ
उप प्रबंधक
कार्मिक और प्रशासन विभाग
एनएमडीसी हैदराबाद



श्री अवनीश कुमार सिंह
वरिष्ठ अधिकारी (मानव संसाधन)
आईओसीएल ओडिशा



श्री मुकेश तिवारी
सहायक श्रम आयुक्त
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कोलकाता

पैनलिस्ट



Central University of Himachal Pradesh

Commerce and Management Society

HPKVBS, (SCMS)

Announces Webinar on
Personal Branding
On

LinkedIn



Ms. Jinal Sameer Shah
Assistant Professor at
NMIMS

On 25th September
2020, 4:30pm - 6:30pm



Join us on
Google Meet
Pass code: rdn-fnje-gpn

E-certificate will be given to the participants

International Workshop
Srinivasa Ramanujan: the man beyond infinity
22 December 2020

NOTICE



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh

(Established under Central Universities Act, 2009)

अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) - 176206

Temporary Academic Block, Distt Kangra (HP) - 176206

Website: www.cuhimachal.ac.in


File No.: MTH-2/2/CUHP/19

Dated: 22/12/2020

सूचना

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर में श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को **Srinivasa Ramanujan: The Man Beyond Infinity** विषय पर "राष्ट्रीय कार्यशाला" का आयोजन किया जा रहा है।

अतः श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग के सभी विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यशाला के दौरान आयोजित अतिथि व्याख्यानो में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।


प्रो. राकेश कुमार,
विभागाध्यक्ष,

श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आगामी कार्यवाही हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. सूचना पट्ट।
2. सभी संकाय सदस्य, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर।
3. अधिष्ठाता, गणित, कंप्यूटर एवम् सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर।


विभागाध्यक्ष,


श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग



ONLINE INTERNATIONAL WORKSHOP ON

SRINIVASA RAMANUJAN: THE MAN BEYOND INFINITY

*An event for celebrating the National Mathematics Day on
the occasion of 133th Birth Year of Srinivasa Ramanujan
22 December 2020*



Organized by


Srinivasa Ramanujan Department of Mathematics
&

Centre for Vedic Mathematical Studies
Central University of Himachal Pradesh ,
TAB– Shahpur, 176206, HP, India

(<http://www.cuhimachal.ac.in>)

Online one day International Workshop on the topic "**Srinivasa Ramanujan: the man beyond infinity**" was organized by Srinivasa Ramanujan Department of Mathematics and Centre for Vedic Mathematical Studies of **Central University of Himachal Pradesh**, Dharamshala India on 22 December 2020.

The workshop's convener Prof. Rakesh Kumar said that the main objective of this workshop was to celebrate the 133rd birth anniversary of famous mathematician Srinivasa Ramanujan. The emeritus speakers were invited for talks in the workshop. Prof. K. Srinivasa Rao, a retired Professor from The Institute of Mathematical Sciences put light on the life and works of Srinivasa Ramanujan in an elegant manner. Prof. Zhao Jiwei from Northwest University China explained the Bhaskara's approach for the calculation of surface area of sphere. Prof. Satyanad Kichenassamy from University of Reims Champagne, France discussed the apodictic discourse in ancient and modern mathematics. Prof. NGC Saivaiti from University of Milan, Italy narrated the past interpretations on Bernoulli's differential equation. Prof. June Barrow Green from The Open University United Kingdom gave a talk in this workshop on Mathematicians at War. According to Dr. Pankaj Thakur, the organizing secretary of the workshop, more than six hundred participants have participated in this workshop. Dr Sachin Kumar Srivastava and Dr Meenakshi were also present in this workshop along with the students of the department.



Lecture delivered by Prof. Niccolò Guicciardini



Lecture delivered by Prof. June Barrow Green

Awareness of trends in technology

आजकेसंदर्भमेंवैदिकगणितकीप्रासंगिकता



Theoretical Aspects of Nuclear Physics

Online International Conference

February 15-20, 2021

Organised by

Department of Physics and Astronomical Sciences (DPAS)

School of Physical & Material Sciences (SoPMS)

Central University of Himachal Pradesh (CUHP),

Dharamsala, Kangra District, H.P. Bharat

Patron

Prof. Hum Chand



Dean and Head
SoPMS, DPAS
CUHP

Chief Patron

Prof. K.C. Agnihotri



Hon. Vice-Chancellor
Central Univ of H.P.

Patron

Prof. A. K. Mahajan



TAB Co-ordinator
Dean and Head
SEES, CUHP

Organising Secretary

Dr. S. K. Soni



Associate Professor
Govt College, D'Sala

Convenor

Prof. O.S.K.S. Sastri



DPAS, CUHP

Organising Secretary

Dr. D. S. Verma



Assistant Professor
DPAS, CUHP

Important Deadlines:

Paper Submission:

20th January, 2021

Symposium website:

<http://www.cuhimachal.ac.in/ICTANPfeb2021>

Peer reviewed papers to be published in in a special issue of
Journal of Nuclear physics, material science, radiation and applications
As Conference Proceedings of Theoretical Aspects of Nuclear Physics



Theoretical Aspects of Nuclear Physics

Online International Conference

Day 1, February 15, 2021

Inaugural Session

Inaugural Address

Prof. A.K. Jain



Sr. Professor
IIT, Roorkee

Honorary Professor
Amity Institute of
Nuclear Science and
Technology, Bharat

Benedictory Address

Prof. P. C. Sood



Legendary Nuclear
Scientist of Bharat

Sri Sathya Sai Institute
Of Higher Learning
Prasanthi Nilayam
Puttaparthi, A.P. Bharat

Keynote Address

Dr. C. Rangacharyulu



Former Head
Nuclear Physics Division
BARC
Univ of Saskatchewan
Canada

Session 1: Nuclear Reactions

Correlation between
elliptical flow and
nuclear stopping in
Heavy Ion Nuclear
Reactions

Dr. Suneel Kumar



Associate Professor
CU Harayana

Ternary fission
fragment mass
distribution

Prof. M. Balasubramaniam



Bharathiar University
Tamil Nadu

N-N, N-Nucleus
and Nucleus-
Nucleus Elastic
Scattering

Dr. Jasekethan Bhoi



Assistant Professor
Veer Surender Sai
University, Odisha



Theoretical Aspects of Nuclear Physics

Online International Conference

Day 2 & 3, February 16-17, 2021

Session 2: Nuclear Structure

Nuclear structure studies in the vicinity of $N=Z=50$ shell closure

Dr. Samarjit S



Associate Professor
Punjab University

Exceptional Structures in Odd-Odd Heavy Weight Nuclei in the $A = 250$ Region

Prof. M. Sainath



Dean, ICFAI, Hyderabad
Andhra Pradesh

Identification and characterization of Long Lived Isomers in the doubly odd rare earth nuclei

Dr. Gowri Shankar



Associate Professor
SSSIHL, Puttaparthi, A.P.

Session 3: Hadron Physics

Texture One Zero Model based on A_4 Flavor Symmetry and its implications to Neutrinoless Beta Decay

Prof. B.C. Chauhan



DPAS, CUHP

Phenomenology of Heavy Flavour Hadron Decays

Prof. R.C. Verma



Professor Emiretus
Patiala University

On A_4 Flavor model Neutrino mass and Baryon asymmetry

Dr. Surender Verma



Assistant Professor
DPAS, CUHP



Theoretical Aspects of Nuclear Physics

Online International Conference

Day 4 & 5, February 18-19, 2021

Session 4: Nuclear Structure

**A Detailed Study of
Nuclear Structure
Properties of Odd
Mass Cadmium**

Nuclei in $50 < N < 82$

Dr. Suram Singh



Associate Professor
Central University of
Jammu

**Compact Stars
and their
Tidal Deformity**

Dr.S. K. Dhiman



H.P. University
Shimla

**Interplay of nucleon
orbitals in nuclear
structure: coupling
schemes and band-
crossing of dipole
bands**

Dr. Suresh Kumar



Assistant Professor
University of Delhi

Session 5: Nuclear Structure

**Preformation
factors in ^{14}C -
cluster Decay of
Radioactive
nucleus ^{223}Ra**

Dr. S.K. Soni



Associate Professor
Govt. College, D'Sala

**Selection Rules for
Beta Transitions
in Heavy Deformed
Nuclei**

Prof. O.S.K.S. Sastri



DPAS, CUHP

**Internal Conversion
Coefficients (ICCs)
and their Relevance to
Nuclear Structure
Studies**

Dr. K. Vijay Sai



Associate Professor
Sri Sathya Sai Institute of
Higher Learning



Theoretical Aspects of Nuclear Physics

Online International Conference

Day 6, February 20, 2021

Session 6: Nuclear Reactions

Effect of deformations in the nuclear fusion reactions

Dr. Raj Kumar



Assistant Professor
Thapar Institute of Engg. and Tech., Patiala

Synthesis of superheavy nuclei and associated stability aspects

Prof. Manish Sharma



Thapar Institute
of Engg. and Tech, Patiala

Fission Partition: A Reflection of Shell Closures

Dr. Dalip S Verma



Assistant Professor
DPAS, CUHP

Valedictory Session

Keynote Speaker
Nuclear structure phenomena at high spin using gamma spectroscopy

Dr. S. Muralithar



Scientist H
Inter University
Accelerator Center,
New Delhi

Valedictory Address

Low energy Nuclear Physics using e-gamma spectroscopy

Prof. K. Venkatramaniah



Sri Sathya Sai
Institute of Higher Learning
Alexander von Humboldt
Fellow, GSI, Darmstadt,
Germany

Open Access Journals and Research Trends Exploration: Today's Researchers Need & Tomorrow's Challenges

Prof. Sushil Kumar



Editor
J. Nucl. Phys. Mat. Sci.
Rad. A Chitkara
University, Chandigarh

Webinar Women in Science, Education and Research

24th February 2021



Keynote Address : (11.15 am – 11.55 am)

“From a Biology Researcher to an Academic Administrator”

by

Dr. Anjana Munshi

Dean Research
School of Health Sciences
Central University of Punjab



Welcome : (11.00 am - 11.10 am)

Prof. Pardeep Kumar
(Dean, School of Life Sciences
Central University of Himachal Pradesh)



Felicitation:- (11.10 am -11.15 am)

Dr. Sunil Kumar
(Associate Professor & Head of the Department
Department of Animal Sciences
Central University of Himachal Pradesh)



Organizing Committee
Convener : Dr. Divya V. Nair
Members

: Dr. Munish Sharma
: Dr. Ashu Chaudhary
: Dr. Shailender Kumar Verma
: Dr. Vikram Singh
: Dr. Ranjith Kumar
: Dr. Rakesh Kumar

विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान शिक्षण
Head, Department of Plant Sciences
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अस्थायी शैक्षणिक ब्लॉक/Temporary Academic Block
शाहपुर, कांगड़ा (पि.पू.) Kangra (H.P.)-178209

Vote of Thanks : (11.55 am -12.00 pm)

Dr. Mahesh Kulharia
(Associate Professor & Director
Centre for Computational Biology & Bioinformatics
Central University of Himachal Pradesh)





हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
सप्त सिन्धु परिसर देहरा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 177101
Department of Political Science

File. No.: SSP/Secn/Pol.Sc/RD/KWRP/21/05

Date: 01-09-2021

Office Order

Subject: Information regarding formation of Model United Nations in the Political Science Department.

The Department of Political Science, Central University of Himachal Pradesh has constituted a committee for conduction of Model United Nations (MUN).

MUN is an educational activity that derives its concept from the functioning of UN. The MUN will give a platform for educational simulation for students and develop their research and communication skills. It will also generate critical thinking, develop insights into diplomatic functioning, and help to inculcate team work and leadership qualities.

The platform will provide the students to work as representatives of various countries and discuss issues of international significance. There will be various themes for discussion based on contemporary international developments of significant import. Each delegation will have to submit their proposal/position/views on the particular theme for that year.

The organizing committee of the MUN will consist of the following members:

S.No.	Name
1.	Teachers-in-charge 1. Dr. Arundhati Sharma 2. Dr. Vimal Kumar Kashyap
2.	Students-in-Charge 1. Mr. Praveen Kumar Yadav 2. Mr. Jitendra Kumar Yadav 3. Ms. Shivani 4. Ms. Himani Sharma
3.	Members 1. Mr. Gurfej 2. Mr. Rishi 3. Mr. Ashish Sheokand 4. Mr. Vibhav Chandra Sharma

Membership of students will be on rotation basis.


(Head of Department)

विभागाध्यक्ष
राजनीतिक विज्ञान विभाग
हि० प्र० के० वि० सप्त सिन्धु परिसर
देहरा-177101

National Webinar (Online)

आज के संदर्भ में वैदिक गणित की प्रासंगिकता

3 सितंबर 2021

NOTICE



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act 2009)
शाहपुर परिसर, शाहपुर, जिला काँगड़ा (हि.प्र.) - 176206
Shahpur Parisar, Shahpur, Distt. Kangra (HP) - 176206
Website: www.cuhimachal.ac.in




File No.: MTH/2-2/Workshop-Seminar/CUHP/21/

Dated: 03/09/2021

सूचना


हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर में श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 2021 को आज के संदर्भ में वैदिक गणित की प्रासंगिकता विषय पर "राष्ट्रीय वेबिनार" का आयोजन किया जा रहा है।

अतः श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग के सभी विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वेबिनार के दौरान आयोजित अतिथि व्याख्यान में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।


प्रो. राकेश कुमार,
विभागाध्यक्ष,
श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आगामी कार्यवाही हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. सूचना पट्ट।
2. सभी संकाय सदस्य, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर।
3. अधिष्ठाता, गणित, कंप्यूटर एवम् सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर।


विभागाध्यक्ष,
श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग



राष्ट्रीय वेबिनार आज के संदर्भ में वैदिक गणित की प्रासंगिकता

(03 सितंबर 2021)

संयोजित
वैदिक गणित अनुसंधान केंद्र (Centre for Vedic Mathematical Studies)
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश
शाहपुर परिसर, १७६२०६, हिमाचल प्रदेश, भारत



उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता,
श्री अनाल कोठरी, राष्ट्रीय सूचित शिक्षा
संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली



मुख्य संरक्षक एवं अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) एस.पी.
बंसल, माननीय कुलपति, सीयूएचपी,
हिमाचल प्रदेश, भारत



श्री देश राज शर्मा, वक्ता, महामन्त्री विज्ञान
भारत उत्तर क्षेत्र, अध्यक्ष- हिमालयन वैदिक
गणितीय सोसायटी



डॉ. चेत राम गर्ग, निदेशक, नेरी शोध
संस्थान



श्री गोपाल दास, शिक्षक, विद्या भारती उत्तर
क्षेत्र, वैदिक प्रमुख, संयुक्त सचिव-हिमालयन
वैदिक गणितीय सोसायटी

संयोजक

प्रो (डॉ.) राकेश कुमार, प्रोफेसर एवं निदेशक, वैदिक
गणित अनुसंधान केंद्र, सीयूएचपी

आयोजन सचिव

डॉ. पंकज कुमार, सहायक प्रोफेसर, श्रीनिवास
रामानुजन गणित विभाग, सीयूएचपी

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का वैदिक गणित अनुसंधान केंद्र, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल के अंतर्गत, 3 सितंबर 2021 को “आज के संदर्भ में वैदिक गणित की प्रासंगिकता” विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉ. पंकज कुमार के अनुसार इस वेबिनार का उद्देश्य शोधकर्ताओं और छात्रों के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों के शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों को वर्तमान परिदृश्य में वैदिक गणित की प्रासंगिकता से परिचित कराने के लिए एक आधार प्रदान करना था। इस आयोजन से हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र विशेष रूप से गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल के छात्र बहुत लाभान्वित हुए। वेबिनार के संयोजक और वैदिक गणित अनुसंधान केंद्र के मानद निदेशक प्रो. राकेश कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय वेबिनार में देश के विभिन्न हिस्सों से 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण किया। इस कार्यक्रम में माननीय कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल जी ने स्वागत भाषण दिया, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्री अतुल भाई कोठारी, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय संस्कृत उत्थान न्यास, नई दिल्ली ने प्रतिभागियों को वैदिक गणित की प्रासंगिकता से अवगत कराया, वक्ता श्री देश राज शर्मा, महामंत्री विद्या भारती उत्तर क्षेत्र, अध्यक्ष- हिमालयन वैदिक गणितीय सोसायटी ने नई शिक्षा नीति में वैदिक गणित की भूमिका तथा श्री गोपाल दास ने गणित के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. चेताराम गर्ग जी ने विदाई सत्र को संबोधित किया एवं प्रो. राकेश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।



IQAC, CUHP

&

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ के अन्तर्गत स्थापित)
धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - १७६२१५
Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act 2009)
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh-176215



Training, Placement & Outreach Cell
Department of Journalism and Mass Communication
In Collaboration with the
Dharamshala International Film Festival
Presents

Film Screening

Training and placement Cell, Department of Journalism & Mass Communication, Central University of Himachal Pradesh in association with the Dharamshala International Film Festival (DIFF) is organising a film screening at Dhauladhar Campus I on Tuesday, 26th October 2021.

Films:

Eeb Allay Oo! (2020)

Director: Prateek Vats

Comedy/Drama - 1h 38m

Language: Hindi

High Grounds (2018)

Director: Rajiv Malhotra

29 min Documentary, Short

Language: Hindi

Venue: Conference Hall, Dhauladhar Campus I

Time: 11.30 am to 3 pm, Friday, 26th October 2021

A Zoom session for question and answer with the filmmaker and a discussion about the films with the students facilitated by DIFF will be held after the screening.

Film Appreciation Essay Competition

Students who attend the screening can participate in a film appreciation essay competition on the films screened. Those who want to participate in the essay competition need to register their names before screening.

Co-ordinators

Training, Placement & Outreach Cell


Department of JMC



IQAC, CUHP
&
Training, Placement & Outreach Cell
Department of Journalism and Mass
Communication
In Collaboration with the
Dharmshala International Film Festival
presents



Film Screening



Eeb Allay Oo! (2020)

Director: Prateek Vats | Comedy/Drama | 1h 38m | Language: Hindi

Venue: Conference Hall, Dhauladhar Campus I


Date & Time: 11.30 am to 1.30 pm on 26th Tuesday 2021



IQAC, CUHP
&
Training, Placement & Outreach Cell
Department of Journalism and Mass
Communication
In Collaboration with the
Dharamshala International Film Festival
presents



Film Screening



High Grounds (2018)

Director: Rajiv Malu | 29 min | Documentary, Short | Language: Hindi

Venue: Conference Hall, Dhauladhar Campus I

Date & Time: 1.30 pm to 2.30 pm on 26th Tuesday 2021



Film Appreciation Essay Competition

Students who attend the screening of the following films can participate in a film appreciation essay competition. Those who want to participate in the competition need to register their names before screening. Prizes for the winners will be distributed at the Dharamshala International Film Festival, 2021



Eeb Allay Oo! (2020)

Director: Prateek Vats | Comedy/Drama | 1h 38m |
Language: Hindi



High Grounds (2018)

Director: Rajiv Malu | 29 min | Documentary,
Short | Language: Hindi

Venue: Conference Hall, Dhauladhar Campus I

Time: 11.30 am to 3 pm, Friday, 26th October 2021



Under the aegis of IQAC

WORKSHOP FOR PHD SCHOLARS OF
THE DEPARTMENT OF ECONOMICS
& PUBLIC POLICY

**RESEARCH
METHODOLOGY
WORKSHOP**

VENUE

Seminar Hall

Dhauladhar Parisar-II

Central University of Himachal Pradesh

Dharamshala-176215

Issues covered in the workshop along with the faculty names

The workshop is planned keeping in mind the specific needs of the PhD students at the stage of proposal writing.


While the research methodology course equips the research scholar to deal with various issues, the students often struggle with practical problems pertaining to reviewing the literature, finding data sources, and presenting the ideas in a coherent manner. Some of the issues are specific to the research problem chosen by the students.

The workshop shall help students in overcoming these issues.

1. **Literature Review (27th Oct. 2021, 10:30 AM)**
(Dr Kamal Singh)
2. **Proposal Writing (28th Oct. 2021, 10:30 AM)**
(Dr Amit K. Basantaray)
3. **Writing Literature Review (29th Oct. 2021, 10:30 AM)**
(Dr Indervir Singh)
4. **Methodological Issues (1st Nov. 2021, 10:30 AM)**
(Dr Vinod Naik)

Report on PhD Workshop organised from 27th October to 1st November 2021

The department organised a workshop keeping in mind the specific needs of the PhD students at the stage of proposal writing in the month of October-November 2021. While the research methodology course equips the research scholar to deal with various issues, the students often struggle with practical problems pertaining to reviewing the literature, finding data sources, and presenting the ideas in a coherent manner. Some of the issues are specific to the research problem chosen by the students. In the workshop topics ranging from Literature Review, Proposal Writing, Writing Literature Review and Methodological Issues were discussed.


विभागाध्यक्ष, आर्थिक एवं लोकनीति विभाग
Head, Department of Economics & Public Policy
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अस्थायी अकादमिक ब्लॉक, Temporary Academic Block
पैदाश्वर पुरा, 176215 / Udhwaresh Purat-1 Udhwaresh-176215

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

पत्रकारिता, जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल

पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

धौलाधार परिसर-1, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र. - 176215

7

फा.सं.: SoJMC&NM/1-1/CUHP/2/2009

दिनांक: 25/10/2021

सूचना

पत्रकारिता, जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और आउटरीच प्रकोष्ठ द्वारा शिक्षा क्षेत्र से सम्बंधित खबरों की रिपोर्टिंग पर (02) दो प्रशिक्षण सत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को ऑनलाइन माध्यम द्वारा सभागार कक्ष, धौलाधार परिसर-1, धर्मशाला में आयोजित किए जा रहे हैं। आप सभी का इसमें भाग लेना अति आवश्यक है।

प्रशिक्षण सत्र की समय सारणी निम्नलिखित प्रकार से है:

पहला सत्र: अपराह्न 12:30 से 01:30 बजे तक

दूसरा सत्र: अपराह्न 01:30 से 02:30 बजे तक

श्री. सचिन त्रिपाठी, पत्रकार (Reporter), अमर उजाला, लखनऊ, शिक्षा क्षेत्र से सम्बंधित खबरों की रिपोर्टिंग पर ऑनलाइन माध्यम द्वारा प्रशिक्षण देंगे।

अधिष्ठाता, पत्रकारिता, जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल

निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ हेतु प्रति अग्रहित:

1. सभी संकाय सदस्य, पत्रकारिता, जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल
2. सूचना पट्ट।
3. सम्बंधित फाइल

अधिष्ठाता, पत्रकारिता, जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ के अंतर्गत स्थापित)
धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - १७६२१५
Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act 2009)
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh-176215

२८ अक्टूबर, २०२१

प्रतिवेदन

प्रशिक्षण, नियोजन एवं आउटरीच प्रकोष्ठ, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा शिक्षा-पत्रकारिता पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन दिनांक २८ अक्टूबर, २०२१ को किया गया


प्रशिक्षण, नियोजन एवं आउटरीच प्रकोष्ठ, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा शिक्षा-पत्रकारिता पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन दिनांक २८ अक्टूबर, २०२१ को धौलाधार परिसर - १ के सभागार में ऑनलाइन माध्यम द्वारा किया गया। सत्र की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप नायर, शोध निदेशक, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, की उपस्थिति में स्वागत उद्बोधन द्वारा हुई। इस कार्यशाला को दो सत्रों में विभाजित किया गया था।

प्रथम सत्र के दौरान अमर उजाला लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार श्री सपिन बिपाठी ने विद्यार्थियों को शिक्षा क्षेत्र से संबंधित खबरों के परिकल्पन से लेकर लेखन तक की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया। श्री बिपाठी ने शिक्षा बीट से जुड़ी बारीकियों को कार्यशाला के

प्रतिभागियों के साथ विस्तृत रूप से साझा किया, उन्होंने प्रतिभागियों को शिक्षा क्षेत्र की खबरों के स्रोत खोजने से लेकर उन खबरों को लिखे जाने तक की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में खबरों की कमी नहीं होती है बस आवश्यकता होती है 'न्यूज सेंस' विकसित करने की, नवोदित पत्रकारों को अपनी बीत से जुड़ी प्रत्येक बारीकी को समझना चाहिए, मुख्यतः शिक्षा बीट से जुड़ी बारीकियों की बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकार को फील्ड में जाने से पहले होमवर्क करना आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि कभी भी किसी अधिकारी या स्रोत से 'आज क्या खबर है?' नहीं पूछना चाहिए बल्कि होमवर्क के आधार पर ऐसा पूछना चाहिए कि 'अमुक बात पता चलती है' या 'अमुक कार्यक्रम कि क्या स्थिति है?' आदि और ऐसे ही बातों को आगे बढ़ते हुए खबर निकालनी चाहिए, प्रिंट मीडिया में करियर को लेकर छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर श्री त्रिपाठी ने कहा कि इस क्षेत्र में संभावनाओं की कोई भी कमी नहीं है, ज़रूरत है तो बस अपनी कलम को मांजने की क्योंकि एक मंझी हुई लेखनी कि हर बीट को ज़रूरत होती है।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में प्रतिभागियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए निडरता और अपने पेशे के प्रति पूर्ण इमानदारी की ज़रूरत है, विद्यार्थियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि इस क्षेत्र में रोज़गार कि क्या सम्भावनाएं हैं, श्री त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षा भारत सरकार की

11थमिकताओं में से एक है और भारत जैसे विश्व के सबसे युवा देश में आने वाले समय में
 शिक्षा क्षेत्र से संबंधित खबरों की मांग में तीव्र वृद्धि आएगी, अतः जो विद्यार्थी अभी से इस
 और ध्यान देना शुरू कर देंगे, उनके लिए शिक्षा-पत्रकारिता के क्षेत्र में संभावनाओं एवं
 अवसरों कि कोई कमी नहीं रहेगी. उन्होंने सब के अंत में कहा कि शिक्षा-पत्रकारिता का क्षेत्र
 असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और इसमें भविष्य में रोजगार की कोई भी कमी नहीं
 रहेगी. प्रशिक्षण कार्यशाला के अंत में विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि ली गई जिसमें उन्होंने इस
 तरह कि और कार्यशालाएं आयोजित करने की मांग की ताकि वे पत्रकारिता के विभिन्न
 आयामों के बारे में अच्छे से ज्ञान पाएं. कार्यशाला का समापन धन्यावाद जापन द्वारा हुआ.
 इस प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान पत्रकारिता, जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल के समस्त
 विद्यार्थी शिक्षक उपस्थित रहे.


 अधिष्ठाता, पत्रकारिता, जनसंचार एवं नवमीडिया स्कूल
 हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
 पिलाहार परिसर
 पणौली काठडा (हि.प्र.) 178210



संस्कृत-पालि-प्राकृत-विभागः
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालयः, धर्मशाला
Website: <http://www.cuhimachal.ac.in>

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

कार्यालयादेशः

दिनाङ्कः 05.11.21

हिमाचलप्रदेशकेन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागद्वारा विशेषतः 2021-2022 तमे शैक्षणिकसत्रे प्रविष्टान् नूतनान् छात्रान् उपलक्ष्य, संस्कृतविभागे परीक्षादीनां सर्वेषां गतिविधीनां संस्कृतभाषयैव प्रवर्तमानत्वात् छात्रेषु सर्वविधभाषादक्षतासंपादनाय दशदिनव्यापिनीसंस्कृतसंभाषणकार्यशाला 09.11.21 तः 23.11.21 पर्यन्तम् आयोज्यते । अस्याः कार्यशालायाः विवरणं तथा कार्यदायित्वविवरणम् अधः प्रस्तुतम् अस्ति । तदनुसारं विभागस्य प्राध्यापकानां कृते निर्देशोस्ति यत् अधः प्रदत्तविवरणानुसारं स्वस्वकार्यदायित्वं निर्वहेयुः इति ॥

हिन्दी अनुवाद - (हिमाचलप्रदेशकेन्द्रीयविश्वविद्यालय के संस्कृतविभाग द्वारा, विशेषरूप से 2021-2022तम शैक्षणिकसत्र में प्रविष्ट नूतन छात्र के उपलक्ष्य में, संस्कृतविभाग में परीक्षादि सर्व गतिविधियाँ संस्कृतभाषा से ही प्रवर्तित होने के कारण छात्रों में संस्कृत भाषा में सर्वविधभाषादक्षता संपादन के लिए दशदिनव्यापिनी संस्कृतसंभाषणकार्यशाला 09.11.21 से 23.11.21 तक आयोजित की जा रही है । इस कार्यशाला के विवरण तथा कार्यदायित्व का विवरण अधः प्रस्तुत हैं । तदनुसार विभाग के प्राध्यापकों को सूचित किया जाता है कि वह अधः प्रदत्त विवरण अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करें ॥)

संयोजकः	सहसंयोजकः
डॉ रणजीत कुमारः, सहायकाचार्यः, संस्कृत पालि एवं प्राकृत विभागः	डॉ. विवेक शर्मा, सहायकाचार्यः, संस्कृत पालि एवं प्राकृत विभागः

डॉ. बृहस्पतिः मिश्रः
विभागाध्यक्षः
संस्कृतपालिप्राकृतविभागः
धर्मशाला



संस्कृत-पालि-प्राकृत-विभागः
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालयः, धर्मशाला
Website: <http://www.cuhimachal.ac.in>




संस्कृतसम्भाषणकार्यशाला सूचना

हिमाचलप्रदेशकेन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागेन संस्कृतभारत्याः सहयोगेन संस्कृतसम्भाषणाभ्यासायसंस्कृतसम्भाषणकार्यशालायाः आयोजनं 09/11/2021 भौमवासरतः 23/11/2021 भौमवासरपर्यन्तं प्रत्यहं कार्यदिवसेषु 1:30 वादनतः 3:30 वादनपर्यन्तं क्रियते । तत्र शास्त्री -1 सत्रस्य, स्नातक-तृतीयपञ्चमसत्रयोः स्नातकोत्तरप्रथमसत्रस्य च सर्वे अपि छात्राः समुपस्थिताः भवन्तु

कार्यशालासंयोजकः - डॉ रणजीत कुमार

कार्यशालासहसंयोजकः - डॉ विवेक शर्मा

शिक्षकः - श्रीरामलालः (विस्तारकः संस्कृतभारती)


विभागाध्यक्षः

संस्कृतपालिप्राकृतविभागः


हि. प्र. के. विश्वविद्यालयः

धर्मशाला



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला

(संस्कृत पालि एवं प्राकृत विभाग: एवं संस्कृतभारती, हिमाचलप्रदेश:)



स्थानम् – धौलाधर परिसर-1, धर्मशाला

दिनांक:- 09-23 नवम्बर, 2021

डॉ. रणजीत कुमार:

संयोजक:

डॉ. विवेक शर्मा

सह संयोजक:

 रणजीत -



संस्कृत-पालि-प्राकृत-विभागः

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालयः, धर्मशाला


Website: <http://www.cuhimachal.ac.in>



कार्यशालाप्रतिवेदनम्

हिमाचलप्रदेशकेन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागपक्षतः स्नातककक्षायां, स्नातकोत्तरकक्षायां च प्रथमसत्रे प्रविष्टानां नूतनानां छात्राणां कृते संस्कृतभाषया संभाषणाय 09/11/2021 तः 23/11/2021 पर्यन्तं कार्यशाला समायोजिता । संस्कृतभाषया संभाषणाय छात्रेषु अभ्यासकौशलम् अभिवर्धयितुं दशदिनव्यापिनी कार्यशाला शोभनतया सुसम्पन्ना । छात्राणां रुचिः, उपस्थितिः, उत्साहेन सहभागिता शिक्षकस्य साक्षात्विधिना च पाठनं संस्कृतविभागे संस्कृतमयं वातावरणम् अकरोत् । उद्घाटनसत्रस्यारम्भे कार्यशालायाः संयोजकः डॉ. रणजीतकुमारः कार्यशालायाः प्रारूपं प्रस्तुतवान् । कार्यशालायां श्रीमान् रामलालमहोदयः (संस्कृतभारती-विस्तारकः) छात्राः – छात्रान् च शिक्षितवान् । उद्घाटनसत्रे मुख्यातिथिरूपेण आङ्गलविभागस्य अध्यक्षः डॉ. नन्दूरीगोपालमहोदयः उक्तवान् यत् कार्यशालायाः आयोजकाः संस्कृतज्ञानप्रदायकाः शिक्षकाः साधुवादार्हाः सन्ति । संस्कृतभाषा संसारस्य प्राचीनाभाषा वर्तते । देशस्य मूलसाहित्यमस्यामेव लिखितम् । बहुभिः शत्रुभिः संस्कृतहासस्य प्रयत्नः कृतः परञ्च स्वविराडूपकारणात् संस्कृतभाषाद्यापि समृद्धा वर्तते । अद्य आवश्यकता वर्तते यत् अस्माभिः संस्कृतभाषाप्रचाराय कार्यं करणीयम् । कार्यक्रमस्य अध्यक्षः डॉ. बृहस्पतिमिश्रमहोदयः कथितवान् यत् एतया नूतनप्रत्यक्षपद्धतया प्रशिक्षणेन कोऽपि छात्रः 20 होराकाले शिक्षणेन सम्भाषणसमर्थः भवितुमर्हति । कार्यशालायाः सहसंयोजकः डॉ. विवेककुमारः धन्यवादज्ञापनं कृतवान् । अस्यां कार्यशालायां 25 छात्रैः भागः गृहितः ।

शिक्षकैः यथानिर्दिष्टं स्वदायित्वं सोत्साहं ऊढम् । कार्यक्रमः निःशुल्कतया सर्वसहयोगेन सुसम्पन्नः । अर्चनामहोदया कार्यक्रमान्ते सर्वेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः मधुरं वितरितवती । एतस्मिन्पलक्ष्ये डॉ. वैति सुब्रह्मणियन डॉ. अर्चना शर्मा, डॉ. भजहरिदासः, डॉ. कुलदीपकुमारश्च उपस्थिताः आसन् ।


23-11-21
संयोजकः

डॉ. रणजीतकुमारः
सहायकाचार्यः,
हिमाचल-प्रदेश-केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः,
धर्मशाला ।


सहसंयोजकः

डॉ. विवेककुमारः
सहायकाचार्यः,
हिमाचल-प्रदेश-केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः,
धर्मशाला ।



प्रत्यक्ष पद्धति से विद्यार्थी सीख रहे संस्कृत भाषा

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के धौलाधार परिसर एक में संस्कृत संभाषण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं को संस्कृत का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्कृत भारती के सौजन्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र के आरंभ में कार्यशाला के संयोजक डॉ. रणजीत कुमार ने इस कार्यशाला की शुरुआत को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में शिक्षण के रूप में रामलाल जी राज-छात्राओं को शिक्षित कर रहे हैं। रामलाल पालमपुर एवं बतोगर में संस्कृत के प्रचार के लिए संस्कृत भारती के विस्तारण हैं। संस्कृत के प्रयोग है। उद्घाटन सत्र में डॉ. रणजीत कुमार मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं।

● केन्द्रीय विवि के धौलाधार परिसर में संस्कृत संभाषण कार्यशाला शुरू

नंदुरी गोपाल मौजूद रहे। इस मौके पर डॉ. गोपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कृत ज्ञान देने के लिए आयोजक साधुवाद के पात्र हैं। संस्कृत इस संसार की प्राचीन भाषा है। भारत की समस्त भनीया संस्कृत भाषा में निहित है। हमारे देश का मूल साहित्य संस्कृत भाषा में लिखित है। कई आक्रमणकारियों के द्वारा संस्कृत के ह्रास का प्रयास किया गया लेकिन संस्कृत आज भी अपने विशाल स्वरूप के चरम स्थिति है। आज आवश्यकता है कि हम सभी संगठित होकर संस्कृत के ज्ञान को प्राप्त करते हुए इसके प्रचार का कार्य करना होगा। इसीलिए हम सभी को संस्कृत की पढ़ाई चाहिए। उन्होंने संस्कृत साहित्य को कई प्रत्यक्ष पद्धति को बताया।

रणजीत

अ. २५



प्रत्यक्ष प्रवृत्ति से विद्यार्थी सीख रहे संस्कृत भाषा

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के धौलाधार परिसर एक में संस्कृत संभाषण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं को संस्कृत का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्कृत भारती के सौजन्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र के आरम्भ में कार्यशाला के संयोजक डॉ. रणजीत कुमार ने इस कार्यशाला की रूपरेखा को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में शिक्षक के रूप में रामलाल छात्र-छात्राओं को शिक्षित कर रहे हैं। रामलाल पालमपुर एवं कांगड़ा क्षेत्र में संस्कृत के प्रचार के लिए संस्कृत भारती के विस्तारक हैं। जिनका केन्द्र पपरोला है। उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. नन्दरी गोपाल मौजूद रहे। इस मौके पर डॉ. गोपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कृत ज्ञान देने के लिए आयोजक साधुवाद के पात्र हैं। संस्कृत इसे संसार की प्राचीन भाषा है। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. बृहस्पति मिश्र ने बताया कि इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को संस्कृत का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्कृत भाषा को सीखने की नई प्रवृत्ति जिसे प्रत्यक्ष प्रवृत्ति कहा जाता है, इसका प्रशिक्षण विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। इस मौके पर डा. अर्चना, डा. चेत सुब्रह्मण्यम, डा. भज हरिदास और डा. कुलदीप कुमार मौजूद रहे।

जोषित

६५



संस्कृत-पालि-प्राकृत-विभागः
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालयः, धर्मशाला
Website: <http://www.cuhimachal.ac.in>

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

प्रत्यक्ष पद्धति से विद्यार्थी सीख रहे संस्कृत भाषा
केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत सम्पादन कार्यशाला शुरू



धर्मशाला, 13 अक्टूबर (कैथी)। विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा के सीखने के लिए प्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी सीख रहे हैं।

देश का मूल साहित्य लिखा है संस्कृत भाषा में : गोपाल

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के धौलाधार परिसर में संस्कृत भाषा की ओर से दस दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान संस्कृत के अग्रणी विभाग के अध्यक्ष डॉ. नन्दू गोपाल ने शिक्ता की।

उन्होंने बताया कि संस्कृत इस संसार की प्राचीन भाषा है। भारत के मूल साहित्य संस्कृत भाषा में लिखित है। कई अक्षरमणिकारियों ने संस्कृत भाषा को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन भाषा आज भी पूरे भारत में समृद्ध है। उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए हमें एकजुट होकर इसके पोषण पर कार्य करना होगा। सभी कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. बृहस्पति मिश्र ने बताया कि इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को संस्कृत का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा को सीखने के लिए नई प्रत्यक्ष पद्धति का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। इसमें कोई भी विद्यार्थी 20 घंटे में संस्कृत भाषा सीख सकता है। इस मौके पर डॉ. अच्युता, डॉ. वैति सुब्रह्मण्यम, डॉ. भजन हरिदास और डॉ. कुलदीप कुमार मौजूद रहे। संवाद

प्रत्यक्ष पद्धति से विद्यार्थी सीख रहे संस्कृत भाषा

धर्मशाला, 13 अक्टूबर (कैथी)। विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा के सीखने के लिए प्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी सीख रहे हैं।

20/10/21

23/10/21



संस्कृत-पालि-प्राकृत-विभाग:
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालयः, धर्मशाला

Website: <http://www.cuhimachal.ac.in>

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव




CUHimachal Jansampark



18 h · 0

Dharamshala. The Sanskrit Speech Workshop was concluded in the Dhauladhar campus of the Central University of Himachal Pradesh. In this workshop, students were given practical training of Sanskrit. This workshop was organized by Sanskrit Bharti.

⚙️ • Rate this translation



👍 Like

💬 Comment

➦ Share

👤 Dryogesh Krgupta and 27 others

सहित

अज्ञान

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act 2009)



शाहपुर परिसर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश -176206
Shahpur Campus, Distt. Kangra (HP) – 176206


Website: www.cuhimachal.ac.in

File No: 25/2-5 (Scanfile)/CUHP/21/318

Date: 11/11/2021

Notice

All students, RD scholars and faculty members of Department of Plant Sciences are directed to attend a special lecture on "Mushroom Cultivation – A Consensus or Corundum" on 15th November 2021 at 10:30 Am in the Seminar Hall, Shahpur Campus, CUHP.


Head
Department of Plant Science

विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग
Head, Department of Plant Science
विभाग, शाहपुर परिसर, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश
176206
11/11/2021

Report of Lecture on ‘Mushroom Cultivation – A Consensus or Corundum’ (15.11.2021)

The Vaidya Sushen Club, Department of Plant Science, Central University of Himachal Pradesh, Shahpur Parisar today on 15th of November 2021 organized a Guest lecture on Mushroom Cultivation in order to enhance the skill abilities of the students. The event was held under the able guidance of Prof. Pardeep Kumar, Dean, School of Life Sciences and Head, Department of Plant Science. Besides welcoming all the participants, he highlighted the importance of skill enhancement courses that would benefit the students and budding entrepreneurs.

The resource person of the event was famous entrepreneur Mr. Sunil Dutt, Managing Director of Dauladhar Mushroom. The topic of his talk was ‘Mushroom Cultivation-A Consensus or Corundum’. In his talk he discussed about the various aspects of mushroom cultivation as this is a potential enterprises of future. He explained the various approaches by which cultivation of mushroom could be achieved throughout the year that can be a reliable source of income generation and help the different sections not only in earning but they can become job providers rather than job seekers. He also interacted with the students and explained their queries.

Around 90 participants were present during the event including faculties, RD Scholars and students of different departments of the University. The event was coordinated by all faculties of the Department of Plant Science. The event was ended with vote of thanks.

Resource Person: **Dr. Sunil Dutt**
 Managing Director
 Dhauladhar Mushroom Bhawan (H.P)

One Week National Workshop (Online)

Title: Principles of Vedic Mathematics

Date: 8-12 November 2021

NOTICE



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh

(Established under Central Universities Act 2009)

शाहपुर परिसर, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) - 176206

Shahpur Parisar, Shahpur, Distt. Kangra (HP) - 176206

Website: www.cuhimachal.ac.in



File No.: MTH/2-2/Workshop-Seminar/CUHP/21/

Dated: 08/12/2021

सूचना

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर में वैदिक गणित अनुसंधान केंद्र और श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल द्वारा सामूहिक रूप से दिनांक दिनांक 08-12 नवंबर, 2021 तक "वैदिक गणित के सिद्धांत" विषय पर एक सप्ताह की ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

अतः श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग के सभी विद्यार्थियों एवम् शोधार्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यशाला के दौरान आयोजित अतिथि व्याख्यान में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

प्रो. राकेश कुमार

संयोजक एवम् अधिष्ठाता,

गणित, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना विज्ञानस्कूल

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आगामी कार्यवाही हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. सूचना पट्ट।
2. सभी संकाय सदस्य, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर।
3. अधिष्ठाता, गणित, कंप्यूटर एवम् सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर।

संयोजक एवम् अधिष्ठाता,

गणित, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना विज्ञानस्कूल

A One Week National Workshop on “VedicGanit Ke Siddhant” today begins at the Shahpur Parisar of the Central University of Himachal Pradesh. This event is jointly organized by the Centre for Vedic Mathematical Studies and Srinivasa Ramanujan Department of Mathematics of the School of Mathematics, Computers & Information Sciences, which will run from 8th November to 12th November 2021. The Inaugural session of the workshop started with the lighting of the lamp and Saraswati Vandana.

Shri Atul Bhai Kotari, National Co-ordinator, Shiksha Sanskriti Utthan Nyas, New Delhi was the chief Guest of the inaugural session of the workshop. This session was presided over by Prof. S.P. Bansal, Hon'ble Vice-Chancellor of Central University of Himachal Pradesh. Prof. S. P. Bansal honoured the chief guest by presenting a traditional Himachali shawl and Topi. Prof. Rakesh Kumar, Convener of the Workshop welcomed the Hon'ble Vice-Chancellor of CUHP by presenting a traditional Himachali shawl and Topi.

Shri Atul Bhai Kothari in his talk stressed to start the academic discussion on the principles of Vedic mathematics to make this knowledge reachable to the common masses which will simultaneously help in the generalization of the theories of Vedic Mathematics. He also urged the mathematicians/researchers of the University to write independent books on Rekha Ganit, Ank Ganit and Beej Ganit to contribute in the existing knowledge of Vedic mathematics. He

motivated the researchers to do research in this field to generalize the existing theories of Vedic mathematics.

Prof. S.P. Bansal in his presidential address said that Vedic Mathematics is a quicker way of learning the things through the mental calculations which are fast as well as accurate as the computer. He also said that it will make the mathematics more interesting among the students.

Prof. Bansal said that people in ancient times were more active and fast in mental calculations without any formal basic education, so in present time Vedic mathematics can help us in maintaining the standards of fast mental calculations and decisions. He promised to start Diploma Course as well as other courses in Vedic Mathematics very soon. In the first technical session, Sh. Rakesh Bhatia, the speaker of the workshop formally introduced the multiplication sutras of Vedic mathematics and discussed its need in the present scenario.

According to the Organising secretary of the workshop, Dr. Pankaj Kumar more than 1000 participants are participating in this workshop from different parts of the country. Co-organising secretary, Dr. Pankaj Kumar said that this event will provide the foundational knowledge of Vedic mathematics, which can be implemented and generalized at different levels of learning. Prof. Rakesh Kumar Dean School of Mathematics, Computers & Information Sciences said that in the present time we are lesser interested in mesmerizing the things and try to depend ourselves on the technology for each and every activity of our personal and professional life. Though it is not a good practice, and at the later stage it will hamper the creativity of the mind. He said that this workshop will help in creating the coordination between the mind and the computer by activating the neuro cells of the mind through different sutras of Vedic Mathematics.

Prof. B.C. Chauhan Coordinator Shahpur Parisar, Prof. Pardeep Kumar, Dean Student Welfare, Dr. Suman Sharma Controller of Examinations were also present in the inaugural session along with Prof. O.S.K.S. Sastri, Prof. Hum Chand, Dr. Sunil Kumar, Dr. Mahesh Kulharia, Dr. Sachin Kumar Srivastava, Dr. Meenakshi, and other faculty members of the Shahpur Parisar.




हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ के अंतर्गत स्थापित)
धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - १७६२१५
Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act 2009)
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh-176215

22 November, 2021

Report

IQAC & Training, Placement and Outreach Cell, Department of Journalism & Mass Communication, CUHP organized an invited Lecture on "Basic Concepts of Economics" on 22 November, 2021.

Dr. Indervir Singh, Assistant Professor, Department of Economics, Central University of Himachal Pradesh, delivered an invited lecture on "Basic Concepts of Economics" to the Semester – I students of the Department of Journalism & Mass Communication. The lecture was organized to provide students with an opportunity to understand the basic concepts of economics and the manner in which to approach the field of economics from a journalistic perspective. The resource person apprised the students of the nuances of basic economic concepts such as the principle of demand and supply, scarcity and allocation of resources, national income, etc. The lecture was well received by the students as was evident from their feedback. The students found the lecture to be very informative, insightful and elaborate. They also expressed their desire to participate in more such lectures in the future.


अधिकाता, केन्द्रीय, जनसंपर्क एवं नवमीडिया स्कूल
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
धर्मशाला, कांगड़ा (हि.प्र.) १७६२१५


सूचना

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन "समाचार पत्रों का अर्थशास्त्र और विपणन" विषय पर दिनांक 24 नवम्बर, 2021 को दोपहर 12:30 से 1:30 बजे अपराह्न को धौलाघाट परिसर-1, धर्मशाला में किया जा रहा है। इस व्याख्यान की मुख्य वक्ता डॉ. अर्चना कुमारी, वरिष्ठ महायक प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू रहेंगी।

व्याख्यान में शामिल होने के लिए लिंक:

meet.google.com/ewb-ivqz-zqo


अतः पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के सभी छात्रों एवं शोधार्थियों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त व्याख्यान में भाग ले


प्रो. प्रदीप नायर

विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग एवं
अधिष्ठाता, पत्रकारिता, जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल

प्रति:

1. सूचना पट्ट
2. पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के सभी संकाय सदस्यों, छात्रों, शोधार्थियों के सूचनार्थ
3. कुलसचिव हि.प्र.के.वि., कुलपति सचिवालय, धर्मशाला के सूचनार्थ।
4. कुलपति के सचिव, कुलपति सचिवालय, धर्मशाला माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।


प्रो. प्रदीप नायर

विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग एवं
अधिष्ठाता, पत्रकारिता, जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल



DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
Presents

MODEL UNITED NATIONS

Date: 10-12-2021



On
The Trajectory
of
Afghanistan's Future

Teacher In-Charge

Dr. Arundhati Sharma (Convenor)

Dr. Vimal Kumar Kashyap

Organizing Committee

**Praveen Kumar Yadav, Shivani,
Jitendra Yadav, Himani Sharma &
Ashish Sheokand**



Central University of Himachal Pradesh
सप्त सिन्धु परिसर देहरा, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 177101
Sapt- Sindhu -Parisar Dehra, Distt. Kangra (H.P.)

Department of Political Science

Report on Model United Nations

With the objective to promote leadership skills and negotiation abilities among students, the Department of Political Science, Central University of Himachal Pradesh, organized the **Model United Nations (MUN)** on 10 December 2021 on the Theme " **The Trajectory of Afghanistan's Future**".



Group Photo of students' delegations representing different countries

Convenor of the MUN: Dr. Arundhati Sharma

Organising committee: Ph.D. Research Scholars: Praveen Kumar Yadav, Shivani, Himani Sharma, Jitendra Kumar Yadav

MUN Chair- Dr. Vimal Kumar Kashyap

MUN Secretary General: Mr. Ashish Sheokand

Preparations prior to Program

Dr. Arundhati Sharma, Convenor of the MUN and the organizing committee members (Praveen Kumar Yadav, Himani Sharma, Shivani and Jitendra Kumar Yadav) were involved in planning and execution of the program. Students of M.A. I Year and II Year were asked to

choose one out of 10 countries viz. India, Pakistan, Afghanistan, US, UK, France, Russia, China, Iran, and Tajikistan at the MUN. Various training sessions and mock drills were conducted for a month in order to help students learn about the process and rehearse for the MUN. During the training sessions, each delegation was requested to prepare their country positions as well as the questions along with their responses.

Model United Nations (10th December 2021)

10:30 am-11 am - Inaugural Session:

The inaugural address was delivered by Dr. Jagmeet Bawa, Head, Department of Political Science, Central University of Himachal Pradesh through Google Meet.

Dr. Arundhati Sharma, Convenor, delivered the welcome address.

Dr Jyoti, Dr. Vimal Kumar Kashyap and Mrs. Aradhana Singh made their remarks.

The inaugural session was followed by two Technical Sessions.



Inaugural Session of MUN

First Technical session

(11:00 am – 1:30 pm)

The chair, Dr. Vimal Kumar Kashyap started the formal proceedings and opened the session by calling the First MUN to order, followed by their Roll call. Further, Mr Ashish Sheokand (Research Scholar) presiding as the Secretary General of the MUN made his statement.

Thereafter, each delegation was invited by the Chair to make their statements. Questions and Responses by the delegations were also taken up in the first technical session.



First Technical Session

Country Position:

Delegation of United Kingdom

United Kingdom's position showed that it was open to dialogue on the emerging situation in Afghanistan. However, it maintained its reservations regarding issues such as use of Afghan soil for terrorist activities. It also vowed to contribute significantly to overcome the humanitarian crisis that the country is in.

Delegation of Iran

Criticized the U.S. sudden exit from Afghanistan and blamed it for the crisis that engulfs the region. The country called for region based multilateral diplomacy and appealed international community for aid in order to help Afghanistan overcome the crisis.

Delegation of Tajikistan

Tajikistan being the neighbouring country of Afghanistan that shares nearly 1400 km of boundary with the latter drew attention of the assembly towards problems of refugee crisis and radicalization post the US exit from the country. Tajikistan also underscored the need for formation of an inclusive and representative government in Afghanistan.

Delegation of United States

United States appealed to the world community to provide help to address humanitarian crisis that Afghanistan is facing and said that the people of Afghanistan should not pay twice because of the Taliban. United States also made it clear that it is closely monitoring the situation in Afghanistan as to whether Taliban is demonstrating compliance to its commitment on counterterrorism, respect of human rights and inclusivity.

Delegation of Russia

We are closely following the changing situation in Afghanistan. There is no point in panicking, we hope that Taliban will form an inclusive government based on its national conditions. We will interact with them irrespective of the situations. According to our reports, Taliban have already sought to bring public order and have promised security guarantee for all the civilians and the foreign diplomatic mission staff. We are concerned with the presence of terrorist groups like Islamic states and Al Qaeda. We want to see a swift peaceful settlement in Afghanistan and subsequent stabilization of the country and its conflict recovery.

Delegation of Afghanistan

We're working to establish an inclusive government that represents all the people of Afghanistan. We don't want any internal enemies and any external enemies. We assure all the countrymen that the new government will work hard towards upholding Islamic rules and Shariah law in the country.

Delegation of China

We pay attention to the formation of the government. This has put an end to the anarchy in Afghanistan after over three weeks and the necessary step for Afghanistan to restore domestic order and pursue the post war reconstruction. We hope Afghanistan will establish a broadly based, inclusive political structure, follow moderate and prudent domestic and foreign policies, resolutely combat all types of terrorist forces and live in good terms with other countries, especially its neighbours. We are ready to maintain communication with the new government in Afghanistan and leaders.

Delegation of Pakistan

Pakistan sees the return of the Taliban as the success of a longstanding policy designed to ensure a friendly government in Afghanistan. We welcome the establishment of the Taliban in Afghanistan and hope to have good neighbourly ties with them.

Delegation of India

India, reiterated strong support for a peaceful, secure and stable Afghanistan while emphasizing the respect for sovereignty, unity and territorial integrity and non-interference in its internal affairs. Its position maintained that we express deep concern over the suffering of the people of Afghanistan arising from the security situation in Afghanistan and condemned the terrorist attacks in Kunduz, Kandahar and Kabul. It sought to condemn in the strongest terms all terrorist activities and reaffirmed their firm commitment to combat terrorism in all its forms and manifestations, including its financing. India commented that the dismantling of terrorist infrastructure and countering radicalization is necessary to ensure that Afghanistan would never become a safe haven for global terrorism. India emphasised towards an open and truly inclusive government that represents the will of all the people of Afghanistan.

Delegation of France

“The Afghan people have the right to live in security, with respect for all. Afghan women have the right to live in freedom and dignity. Afghanistan's future is in its own hands, but we will continue to stand with Afghan men and women in a spirit of comradeship – by supporting Afghan civil society and doing our duty to protect those whom we can protect; by

saying very clearly to those who choose war, obscurantism and blind violence that they are choosing isolation; by always standing with those who fight for freedom and women's rights, who send the world the same message that we do. That is the choice of reason, the choice of who we are at our core."

Delegations speaking at the MUN



Representatives' presenting their country positions during the MUN

Moderated Caucus (1:30 pm-2:30pm)

The Chair announced the Break for Moderated Caucus for the delegations to prepare their draft resolution.

Second Technical Session

(2:30 pm-4:00 pm)

Two draft resolutions were submitted:

Draft Resolution 1, (2021)

Moved by **China, Pakistan, Afghanistan, Russia and Iran**

- Stressed on the important role of United Nations in promoting peace and stability in Afghanistan.
- Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and National unity of Afghanistan as well as continued support to people of Afghanistan
- Emphasizing the importance of the establishment of an inclusive and representative government and upholding to equal participation of women, children and minorities and upholding to Human rights.
- Revoking economic sanctions on Afghanistan.
- Enhancing the UN Assistance Mission on Afghanistan(UNAMA)
- Requesting UNAMA and the special representatives of the secretary general for Afghanistan to continue to lead and coordinate international civilian efforts in full cooperation to Afghanistan Government
- Holding Zero tolerance attitude to terrorism so, as to prevent Afghanistan from becoming a hotbed of terrorism again.
- Afghanistan new government should be given legitimacy globally.

Draft Resolution 2, (2021)

Moved by **India, United Kingdom, United States and France**

- To restore Democratic system in Afghanistan.
- Inclusive Government to be established in Afghanistan
- Administration of the country based on rule of Law instead of Shariah law
- To provide women social, economic, and political rights including voting rights.
- To facilitate safe passage to people of Afghanistan who want to leave the country.
- To protect and preserve human rights and not to provide safe heaven to the terrorist organisations.

Both the resolutions were put to vote which ended in a tie with Tajikistan voting in favor of second resolution. Thereafter, the Permanent Members were requested to exercise the veto powers with three of the five members voting in favor of second resolution. The second resolution, thus, was passed.

Feedback and Vote of Thanks

The session ended with student's feedback.

Vote of Thanks by Dr. Arundhati Sharma

Celebration of National Mathematics Day

Date: Dec 22, 2021

NOTICE



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act 2009)
शाहपुर परिसर, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) - 176206
Shahpur Parisar, Shahpur, Distt. Kangra (HP) - 176206
Website: www.cuhimachal.ac.in



File No.: MTH/2-2/Workshop-Seminar/CUHP/21/ 387-390

Dated: 13.12.2021

सूचना

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर में श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग और वैदिक गणित अनुसंधान केंद्र, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को "राष्ट्रीय गणित दिवस" समारोह का सामूहिक रूप से आयोजन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर 2021			
सत्र	समय	गतिविधि का नाम	गतिविधि समन्वयक
दोपहर के भोजन से पहले का सत्र	09:00 - 10:00 पूर्वाह्न	गणितीय रंगोली (समूह आधारित)	डॉ. मीनाक्षी
	10:00 - 10:30 पूर्वाह्न	पाई अंक प्रतियोगिता (व्यक्तिगत आधारित)	डॉ. सचिन श्रीवास्तव
	10:30 - 11:30 पूर्वाह्न	गणितीय प्रश्नोत्तरी (समूह आधारित)	डॉ. सचिन श्रीवास्तव
	11:30 - 12:30 अपराह्न	गणितीय वास्तु: भारतीय ज्ञान प्रणाली (व्यक्तिगत आधारित)	डॉ. सचिन श्रीवास्तव
	12:30 - 01:30 अपराह्न	गणितीय डम्ब शराज (समूह आधारित)	डॉ. मीनाक्षी
दोपहर का भोजनावकाश	01:30 - 02:30 अपराह्न		
दोपहर के भोजन के बाद का सत्र	02:30 - 03:00 अपराह्न	गणितीय मॉडल (समूह/ व्यक्तिगत आधारित)	डॉ. पंकज कुमार (सुपुत्र श्री कृष्ण सिंह)
	03:00 - 03:30 अपराह्न	पोस्टर प्रस्तुति (समूह/ व्यक्तिगत आधारित)	डॉ. पंकज कुमार (सुपुत्र स्व. श्री. मणिराम)
	03:30 - 04:00 अपराह्न	अध्यक्षीय संबोधन : माननीय कुलपति महोदय	
	04:00 - 05:00 अपराह्न	मुख्य अतिथि /वक्ता: श्री देशराज शर्मा जी	
विदाई सत्र	05:00 - 05:30 अपराह्न	पुरस्कार वितरण	

सभी विद्यार्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि किसी भी गतिविधि में के बारे में अधिक जानकारी तथा भाग लेने हेतु सम्बंधित गतिविधि समन्वयक से संपर्क करें।

(Signature)
13.12.2021

प्रो. राकेश कुमार
संयोजक एवम् अधिष्ठाता,
गणित, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना विज्ञान स्कूल

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आगामी कार्यवाही हेतु प्रति अग्रेषित:-

1 सूचना पड।

BROCHURE



SRINIVASA RAMANUJAN DEPARTMENT OF MATHEMATICS & CENTRE FOR VEDIC MATHEMATICAL STUDIES

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

are celebrating
134th Birth Anniversary of "Srinivasa Ramanujan"
as

"NATIONAL MATHEMATICS DAY-2021"



SIR, AN EQUATION HAS NO
MEANING FOR ME UNLESS IT
EXPRESSES A THOUGHT OF
GOD.
- SRINIVASA RAMANUJAN -

ON THIS OCCASION WE ARE ORGANIZING AN EXPERT LECTURE BY MR. DESH RAJ SHARMA
AND THE FOLLOWING STUDENT BASED ACTIVITIES :



- Mathematical Rangoli
- Pi-Digit Contest

- Mathematical Quiz
- Mathematical Talk-(IKS)

- Mathematical Dumb Charades
- Model & Poster Presentation

REPORT

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग और वैदिक गणितीय अनुसन्धान केंद्र ने संयुक्त रूप से महान भारतीय गणितज्ञ-श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर 22 दिसम्बर 2021 को राष्ट्रीय गणित दिवस समारोह का आयोजन किया। राष्ट्रीय गणित दिवस समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य सत प्रकाश बंसल जी ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 1887 में तमिलनाडु के इरोड शहर में जन्मे विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जीवन एक विस्मयकारी यात्रा थी जिसमें रामानुजन ने न केवल कई गणितीय सिद्धांतों को सुलझाया बल्कि उन्हें उस समय के महानतम गणितज्ञों के समक्ष भी रखा। कुलपति महोदय ने रामानुजन के मैजिक नंबर 1729 का भी जिक्र किया और कहा कि गणित के क्षेत्र में श्रीनिवास रामानुजन का योगदान अतुलनीय है जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को अपना सुभाषीष प्रदान किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सभी विभागों में होते रहने चाहिए ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके।

समारोह के मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता श्री देश राज शर्मा, उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री, विद्या भारती ने श्रीनिवास रामानुजन के गणित में योगदान से प्रतिभागियों तथा संकाय सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि देशभर में गणित विषय में उत्तीर्ण होने की प्रतिशतता अन्य विषयों से कम रहती है, जिसका सबसे बड़ा कारण गणित को व्यवहार में नहीं उतार पाना है। उनके अनुसार वर्तमान में जब तक गणित विषय को व्यवहार में नहीं उतारा जाता और भारतीय ज्ञान परम्परा से नहीं जोड़ा जाता तब तक ये समस्या बनी रहेगी।

राष्ट्रीय गणित दिवस के इस समारोह में भारतीय ज्ञान परम्परा पर आधारित विभिन्न छात्र उन्मुख गतिविधियों जैसे कि गणितीय डंब सराज , गणितीय मॉडल , पोस्टर प्रस्तुति, गणितीय रंगोली , पाई अंक प्रतियोगिता , गणितीय प्रश्नोत्तरी और गणितीय वार्ता का आयोजन किया गया, जिनका मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं को प्रोत्साहित करना तथा उनके अंदर छुपी हुई गणितीय प्रतिभा को उजागर करना था। विभाग के सभी छात्र-छात्राओं ने विभिन्न गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभाओं का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

समारोह में आयोजित सभी गतिविधियों में प्रथम , द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि श्री देश राज शर्मा एवं विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक आचार्य राकेश कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। आयोजन सचिव डॉ मीनाक्षी ने अतिथियों तथा प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस समारोह को सफल बनाने में गणित विभाग के सभी प्राध्यापकों, शोध छात्रों तथा विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा। विभिन्न प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये गए:

पाई अंक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार क्रमशः अनिल कुमार, अनिकेता और डिंपल चौहान को क्रमशः 110, 106 और 104 दशमलव स्थान तक पाई अंको के मान को सही से लिखने के कारण मिला।

गणितीय वार्ता में पिपयूष शर्मा ने प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा विषय पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, कनु चौधरी ने गणित का दर्शनशास्त्र विषय पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया जबकि भारतीय गणित का योगदान विषय पर तृतीय पुरस्कार शौर्य कँवर को मिला।

समूह आधारित प्रतियोगिता **गणितीय रंगोली** में समूह डी के प्रतिभागियों आर्यन राणा, कमलेश कुमार सिद्धार्थ शर्मा, दीपांशु, डिंपल चौहान और दीक्षित ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। द्वितीय पुरस्कार समूह ए. से कनिका, श्रुति नरयाल, नेहा देवी, राहुल, शौर्य कँवर और शाइनी ठाकुर के नाम रहा जबकि तृतीय पुरस्कार समूह बी. से कनु चौधरी, इंदु बाला, पूनम और ज्योति रानी ने प्राप्त किया।

गणितीय प्रश्नोत्तरी में **प्रथम पुरस्कार** समूह डी से डिंपल चौहान, दीपांशु, हरदीप कौर और कनिका को मिला। **द्वितीय पुरस्कार** समूह ई से पियूष शर्मा, कनु चौधरी, कमलेश कुमार मनिंदर सिंह ने प्राप्त किया जबकि **तृतीय पुरस्कार** समूह सी से कात्यायनी, शाइनी ठाकुर, श्रुति नरयाल और आर्यन राणा के नाम रहा।

गणितीय डंब सराज में **प्रथम पुरस्कार** समूह ए से सोनू कुमार, बेसर सिंह, शिवानी धीमान और इंदु बाला को मिला जबकि **द्वितीय पुरस्कार** समूह बी से प्रीति, अन्वना, शिवानी और पब्लिश के नाम रहा। **तृतीय पुरस्कार** समूह डी से मनिंदर सिंह, लक्ष्मी नारायण, अखिल और कात्यायनी के नाम रहा।

गणितीय मॉडल में समूह डेल्टा से पियूष शर्मा और सिद्धार्थ शर्मा को **प्रथम पुरस्कार**, समूह बीटा से गार्गी ठाकुर को **द्वितीय पुरस्कार** तथा समूह गामा से शौर्य कँवर को **तृतीय पुरस्कार** मिला।

पोस्टर प्रस्तुति में समूह सी से अंशिका और वैशाली को **प्रथम पुरस्कार** समूह बी से इंदु बाला और नेहा, ठाकुर को **द्वितीय पुरस्कार** और समूह ई से कनु चौधरी को **तृतीय पुरस्कार** मिला।



हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ के अंतर्गत स्थापित)
धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - १७६२१५
Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act 2009)
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh-176215

31 December, 2021

Report

IQAC & Training, Placement and Outreach Cell, Department of Journalism & Mass Communication, CUHP organized an Invited Lecture on "Monetary Policy" on 31 December, 2021.

Dr. Amit Kumar Basantary, Assistant Professor, Department of Economics, Central University of Himachal Pradesh, delivered an Invited lecture on "Monetary Policy" to the Semester - I students of the Department of Journalism & Mass Communication. The lecture was organized to provide students with an opportunity to understand the basic concepts of monetary policy and its role in management of inflationary tendencies in an economy so that they may be able to report it in better and more nuanced manner. The resource person apprised the students of the concepts related to monetary policy such as CRR, SLR, Repo Rate, Reverse Repo Rate, etc. and delineated the process of formulation of monetary policy in detail. The lecture was well received by the students as was evident from their feedback. The students found the lecture to be very enlightening, perceptive and helpful. They also expressed their desire to participate in more such lectures in the future.

Sanjiv Kumar
31/12/2021
Co-ordinator
TPO Cell
Rpt of IMC
So IMC & N.M, CUHP



Training and Placement Cell
Department of History
Central University of Himachal Pradesh

invites you for a
National Workshop
on

Communication and Leadership Skills

Resource Person



Dr. Dinesh Chahal
Department of Education
Central University of Haryana
&
Motivational Speaker

Date: 23rd January 2022

Time: 11:30 AM onwards

Online Platform: Google Meet

Link: <https://meet.google.com/oho-asvh-vjo>

Director
Prof. Narayan Singh Rao
Head, Department of History &
Dean, School of Social Sciences


Convener
Dr. Kanwar Chanderdeep Singh, Associate Professor & Convener,
Training and Placement Cell, Department of History, CUHP

Co-convener
Dr. Rajeev Kumar, Assistant Professor, Department of History, CUHP
विभागाध्यक्ष
इतिहास विभाग
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
राज्य सिंधु परिसर देहरा
जिला कांगड़ा (हि.प्र.) 177101

Workshop on Communication and Leadership Skills

Report


One-day workshop on Communication and Leadership Skills organized by the Training and Placement Cell, Department of History, Central University of Himachal Pradesh was held on **23rd January 2022 via Google Meet platform**. The workshop was organized for the inculcation of communication and leadership skills among the students and research scholars of the department of History. The workshop was taken by Dr Dinesh Chahal from the Department of Education, Central University of Haryana, Mahendragarh, Haryana. Besides being an educator, Dr Chahal is also a renowned motivational speaker with a knack of establishing strong rapport with the students. He spoke at length about what it takes to be good communicator and a leader. A strong leader has to be an effective communicator so that the message to the followers can be transmitted immediately. The workshop began by the welcome address from the Head of the Department, Prof. Narayan Singh Rao who emphasized on the need of developing the good communication skills to be successful in the different walks of life including the professional life. The workshop witnessed the participation of around fifty participants including postgraduate students, PhD researchers and faculty members. Dr Kanwar Chanderdeep Singh, Department of History along with Dr Rajeev Kumar of the same department, convened the program. The program ended with the vote of thanks by Dr Kanwar Chanderdeep Singh.



विभागाध्यक्ष,
इतिहास विभाग
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सप्त सिंधु परिसर देहरा
जिला कांगड़ा (हि.प्र.) 177101

National Workshop

Communication and leadership Skills


(23 January, 2022)




विभागाध्यक्ष,
इतिहास विभाग
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
राष्ट्र सिंधु परिसर देहरा
जिला कांगड़ा (हि.प्र.) 177101

Two days online national seminar on “Emerging Trends in Information and Communications Technologies” (27 – 28 January 2022)

On the occasion of CUHP foundation day celebration, two days online national seminar on “Emerging trends in Information and Communications Technologies” was organized by the Department of Computer Science, Central University of Himachal Pradesh during 27 – 28 January 2022 through online medium Google Meet. The Coordinator, CUHP foundation day celebration inaugurated the national seminar and guided all the participants about the CUHP foundation day celebration and the role of various ICT technologies in the current scenario. The speakers of this national seminar presented their speeches from various parts of India. Prof. Manu Sood- HPU Shimla, Dr. Sandeep Kumar Sood-NIT Kurukshetra, Dr. Rakesh Kumar-Central University Haryana, and Dr. Sahil- IIIT Una presented their session on the latest trends in ICT, Future Aspects in Artificial Intelligence, Machine Learning and Big Data Analytics, IoT Applications & Challenges, and Smart Environment and its Technological Perspective respectively. On this occasion, the Head and Dean Prof. Rakesh Kumar, School of Mathematics Computers and Information Sciences MCIS, Convener Dr. Keshav Singh Rawat, department Incharge, Computer Science and Informatics, faculty members of various departments, members of the organizing committee, and students have attended the seminar.



Manu Sood is presenting

Computing Eras & HCI

Computing	HCI
• KBs • Machine Centric	• Highly Restricted
• MBs • Application Centric	• Individualistic
• GBs • Enterprise Centric	• Strictly Controlled
• TBs • Service Centric	• Openly Controlled
• PBs+ (Cloud, Fog & Edge Computing)	
• EBs+ Data Centric [JIG2009]	
• Person Centric OR	
• Machine Centric, again ?	

[23&2009] Jim Gray, A Transformed Scientific Method, T. Hey, S. Tansley, E. Talla (Eds.), The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery, Microsoft Research, 2009. (Turin) Award winner, 2009

12:21 PM | ONLINE NATIONAL SEMINAR ON Emer...

Manu Sood, titu kumar, Pardeep Singh, Dixie 13, 49 others, You

sandeep sood is presenting

Future Aspects in Artificial Intelligence, IoT and Big Data Analytics

Dr. Sandeep K. Sood
Associate Professor,
Computer Applications
N.I.T. Kurukshetra,
Haryana
India
Ph.D. (I.I.T. Roorkee)

1/27/2022

Google Chrome
You're presenting to everyone. Click here to return to the video call when you're ready to stop presenting.

2:48 PM | oyy-odif-oci

Pardeep Singh, Priya 23, sandeep sood, Shivanshu 28, yashvant 31, Chirag Sharma, Aman MCA05 Kumar Dh..., vaishali MCA29, 37 others, You

[illegible]

NewsLetter Report

Central University of Himachal Pradesh

Foundation Week Lecture

Organized By: Department Physics and Astronomical Science

Organized On: 28-Jan-2022

Department Physics and Astronomical Sciences of CUHP organized a Guest Lecture on "Variability of our nearest star the Sun and its impact on our life" on 28th January 2022 from 3:30 PM to 5:00 PM on online zoom platform. The guest lecture gather eminent speakers: Prof. Dipankar Banerjee, Director, Aryabhata Research Institute of Observational Sciences (ARIES). The lecture was attended by 55 students and 11 Faculty members of the Department of Physics and Astronomical Sciences including Registrar, Dean of Studies and the Coordinator of foundation week.

The guest speaker was heartily welcomed by Prof. Vishal Sood, the Registrar of CUHP and professor of Sociology in the Department of sociology. The guest speaker Prof. Dipankar Banerjee,----- write about him ____--

The vote of thanks was given by a student of Physics and Astronomical Sciences and Prof. Hum Chand, Dean of Dept. of Physical and material sciences and HoD, Department of Physics and Astronomical Sciences, presented a small token of appreciation to our valuable guests.

As per the feedback received from the participants it was very good learning experience, the lecture helped them in their understanding about sun as a star, its environment and how the variability in it will going to affect life on the earth.


He spoke of the variability of the sun in his lecture, pointing out that we tend to think that the sun emits the same radiation all the time, and it is not expected to change substantially, but it does change and it has about 0.1% of the variation of its total energy output, which we call the star's luminosity. We need to understand whether or not the changes will affect us at all, or if the changes will be 0.1% or more, how they will affect our behavior and assets. he other thing is the **variability**. When we talk about the variability of any object, the time scale variation are also very important. Thus there could be variability on a scale of seconds, minutes, hours, days, months, years, millennia and so on, and interestingly, the sun does exhibit variation on all these spectral scales. It is easy to imagine that the physics behind these variabilities will be very different in nature

Firefox Web Browser Jan 28 16:04

pef_foundation_lecture x

https://us02web.zoom.us/j/84419946626?join_track_id=8jmf_code&meeting_results&tk=8cagoundefined&reTK&am=false&po=76epk3yn0grU13gF4mXGcJ50i

You are viewing Dipankar Banerjee's screen



**Multi-wavelength observation
Of the quiet sun**

**Combined data from Big Bear Solar
Observatory, USA and Solar Dynamic
Observatory (NASA)**

These jet like structures are called spicules

T. Samanta, H. Tian, V. Yurchyshyn, H. Peter, W. Cao, A. Sterling, R. Erdélyi, K. Ahn, S. Feng, D. Utz, D. Banerjee, Y. Chen, *Science* (2019).

Participants (58)

Find a participant

HC Ham Chandel (Co-Hoc, Mid) REC

DB Dipankar Banerjee (Host) REC

AK Akshay Kumar

S S

SV Sumender Verma

RS Rahul Singh

S Sanyam

AK Anshul Kumar Sharma

VP Vipul Rai

SW Sanya Wardhan

Invite Mute All More

Chat

Jagdish Kumar To: Everyone 4:01:43 PM

no audio here.

I can't hear anything.

Vipul Rai To: Everyone 4:00:25 PM

What is role of the magnetic field in all this.

Ayaz Chatterjee To: Everyone 4:01:02 PM

How much is the average current near the surface during a solar burst?

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here

Unmute Start Video Security Participants Share Screen Chat Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions Settings More Leave


Firefox Web Browser Jan 28 16:13

pef_foundation_lecture x

https://us02web.zoom.us/j/84419946626?join_track_id=8jmf_code&meeting_results&tk=8cagoundefined&reTK&am=false&po=76epk3yn0grU13gF4mXGcJ50i

You are viewing Dipankar Banerjee's screen

Discovered in 1843 by Samuel Schwabe



Yearly Sunspot Number

Year (AD)

- Alternating peaks in solar activity (maxima), followed by quiet periods (minima).
- Time variation is predominantly cyclic, mean period is 11 years.

Participants (57)

Find a participant

HC Ham Chandel (Co-Hoc, Mid) REC

DB Dipankar Banerjee (Host) REC

AK Akshay Kumar

SV Sumender Verma

RS Rahul Singh

AK Anshul Kumar Sharma

VP Vipul Rai

SW Sanya Wardhan

RS

GI Shrivardh Joshi

Invite Mute All More

Chat

I can't hear anything.

Vipul Rai To: Everyone 4:00:25 PM

What is role of the magnetic field in all this.

Ayaz Chatterjee To: Everyone 4:01:02 PM

How much is the average current near the surface during a solar burst?

RS To: Everyone 4:12:25 PM

Outstanding presentation!

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here

Unmute Start Video Security Participants Share Screen Chat Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions Settings More Leave

128

Firefox Web Browser - Jan 28 16:28

CUHP Lecture - pas_foundation_lecture - You are viewing Opankar Ranjeet's screen

Temperature

Habbal et al. 2011
 Figure 2. Overlay of white light Fe XI 789.2 nm (red) and Fe XIV 530.3 nm (green) ACFB² processed images, from the 2008, 2009 and 2010 solar cycle. The Fe II 30.4 nm SOHO/EIT disk emission is shown for 2009 only. In 2006, only Fe XI with white light was

Participants (57)

Find a participant

- KS Kratika Sharma
- JI Jini Thakur
- PS Paryag Sharma
- AR Anuraag Rathore
- S Selva
- RV Rishu Verma
- PA PK Ahluwalia
- HS Harsh Singh
- RB Ritish Bhargava
- QCOM-ETD

Chat

Ritish Bhargava To Everyone 4:17:10 PM
 What could be the cause of the these concentrated magnetic fields on sun's surface (sun spots)?

RB To Everyone 4:20:26 PM
 sir can you talk about 11 year period of sun?

R To Everyone 4:25:47 PM
 Answer Indian astrology centers around the Sun, how do you relate to it as a scientist?

To Everyone
 Who can see your messages? Recording On
 Type message here...

Firefox Web Browser - Jan 28 15:50

CUHP Lecture - pas_foundation_lecture - You are viewing Opankar Ranjeet's screen

Multiwavelength Sun: Four images of the Sun taken in infrared, optical, ultraviolet, and X-ray. Also pictured are the telescopes that made the images in each waveband. Astrophysicists use many telescopes designed to capture specific wavelengths of light to create a more complete picture of the Sun.

<http://ecuip.lib.uchicago.edu/multiwavelength-astronomy/astrophysics/02.html>

Participants (55)

Find a participant

- JI Jini Thakur
- PS Paryag Sharma
- AR Anuraag Rathore
- S Selva
- 1vWt9dGw7CLH5IT_801SwkzofBmYb2U...
- PA PK Ahluwalia
- SAPIL
- H Harsh
- HS Harsh Singh
- RB Ritish Bhargava
- Q QCOM-ETD
- GR Gargi Rathore
- A Anand
- MB Munish Kashav
- S Suresh jayal
- K KANAKA
- D naks
- DB Divya Bahari
- DR Dr. Rajesh Kumar Singh
- J Jazdeep



Central University of Himachal Pradesh

(Established under Central Universities Act 2009)

TAB, Shahpur Campus, Distt-Kangra-176206, Himachal Pradesh

REPORT ON **FOUNDATION WEEK LECTURE**

TOO MUCH INFORMATION

Organized by

Department of Library and Information Science

Date: January 28, 2022, Friday Time: 11:30 a.m.


On the occasion of Foundation Week of CUHP Celebrations, online lecture was organized on “**Too Much Information**” by the Department of Library and Information Science (DLIS), CUHP on 28-01-2022 at 11:30 a.m.

Dr Shashank. S. Sonwane, Associate Professor from the Department of Library and Information Science, from Dr B.R. Ambedkar Marathwada University was the spokesperson for the lecture.

The Head of the department Dr Dimple Patel gave the welcome address and Dr Shivarama Rao introduced the resource person to the audience. Next Prof. Ambrish Kumar Mahajan (Dean Student Welfare) again welcomed the resource person and enlightened the audience with his generous words. He then emphasized the issues regarding the excessive growth in information seen these past years and how it can become troublesome for a user to find an exact information. The resource person gave a presentation where he described the topic comprehensively and explained the concept of Information, types of information, search engines, indexes and abstracts, online databases and its related aspects.

The highlights of the lecture are listed below:

1. He discussed how information explosion can be troubling?
As the amount of available data grows, the problem of managing the information becomes more difficult, which can lead to information overload.
2. Then he described, how Ranganathan has categorized the documents into:
Conventional, Neo-conventional, Non-conventional, and Meta documents
3. He further also discussed Grogan classification of documents which are: primary, secondary and tertiary.
4. Then he explained basic information searching tools like:
 - **Merck Index:** The Merck Index has been regarded as the most authoritative and reliable source of information on chemicals, drugs and biologicals. Now this trusted resource is available online from the Royal Society of Chemistry.




- **Chem Draw:** It is a molecule editor first developed in 1985 by David A. Evans and Stewart Rubenstein. The company was sold to PerkinElmer in the year 2011. Chem

Draw, along with Chem3D and Chem Finder, is part of the Chem Office suite of programs and is available for Macintosh and Microsoft Windows.



5. He continued his lecture with Databases and its types. he said mainly there are two types of databases **Bibliographic database and full text database.**




And mentioned some online databases:

- The **Ovid** interface provides access to a range of databases, e-journals and e- books. The databases are particularly useful for identifying journal articles and other publications on a particular topic within the subject areas covered by each database. It is used by health professionals.
- **Medline:** MEDLINE is a bibliographic database of life sciences and biomedical information. It includes bibliographic information for articles from academic journals covering medicine, nursing, pharmacy, dentistry, veterinary medicine, and health care.




- **PubMed:** PubMed was developed and is maintained by the National Centre for Biotechnology Information (NCBI), at the U.S. National Library of Medicine (NLM), located at the National Institutes of Health (NIH). PubMed is a free resource supporting the search and retrieval of biomedical and life sciences literature with the aim of improving health—both globally and personally.




6. Next **Dr Sonwane** continued his online interaction with participants on Search Engines few of them which were discussed are mentioned below:
 - **Altavista:** AltaVista was a Web search engine established in 1995. It became one of the most-used early search engines, but lost ground to Google and was purchased by Yahoo! in 2003, which retained the brand, but based all AltaVista searches on its own search engine.
 - **Google:** Google Search, is a search engine provided by Google. Handling over 3.5 billion searches per day, it has a 92% share of the global search engine market. It is also the most-visited website in the world


- **Dogpile:** Dogpile is a metasearch engine for information on the World Wide Web that fetches results from Google, Yahoo!, Yandex, Bing, and other popular search engines, including those from audio and video content providers such as Yahoo!




- **BASE:** It is one of the world's most voluminous search engines especially for academic web resources. BASE provides more than 240 million documents from more than 8,000 content providers. You can access the full texts of about 60% of the indexed documents for free (Open Access). BASE is operated by Bielefeld University Library. Includes indexing the metadata of all kinds of academically relevant resources – journals, institutional repositories, digital collections etc. – which provide an OAI interface and use OAI-PMH for providing their contents.




7. Next, he spoke about **Indexes and Abstracts** services like Chemical Abstract services, International Pharmaceutical Abstracts, STN and Sci Finder.



- **Sci Finder:** It is a resource from the Chemical Abstracts Service (CAS), is a curated database of chemical and bibliographic information that covers several scientific and biomedical fields, with an emphasis on chemistry.




- **CAS:** Founded in 1907 as a volunteer effort to organize published chemistry research, CAS officially became a self-supporting division of the American Chemical Society in 1956.



- **STN:** It is the search tool that information professionals and patent experts, including the world's major patent offices, depend on for precision searching and comprehensive, timely and high-quality coverage of scientific and intellectual property information. STN provides access to key science, technology and patent databases and is the premier single source for the world's disclosed scientific and technical research. STN databases can be accessed through STN Express®, STN® on the Web SM and STN Easy®. STN is operated jointly by Chemical Abstracts Service (CAS) in North America and FIZ Karlsruhe in Europe with representation in Japan by Association for International Chemical Information (JAICI).



- International Pharmaceutical:** Abstracts is an index of worldwide pharmacology, pharmacy, and health-related drug literature published from 1970 to the present. Citations come from over 800 journals, including all U.S. state pharmacy journals. The resources indexed in this database cover a wide range of drug therapy and pharmaceutical topics, including biopharmaceuticals, pharmacokinetics, drug delivery systems, pharmacist liability, and legal, political, and ethical issues. Abstracts for clinical studies are a highlight of the database, and they include the study design, number of patients, dosage, dosage forms, and dosage schedule.



- The **GetthePatent.com** archive contains complete patent images for all USPTO, EPO, and WIPO (PCT) patents, as well as the national publications of Austria, Belgium, Canada, France, Germany, Great Britain, Japan, Spain, and Switzerland. In addition, the archive contains the full text and bibliographic information for every USPTO patent issued since 1976, as well as all published USPTO patent applications.



-

In the end he briefly mentioned Aaron Hillel Swartz, who was an American computer programmer, entrepreneur, writer, political organizer, and Internet hacktivist.



Then there was an interactive question and answer session following the presentation and the session came to an end with the proposal of vote of thanks by one of the students of Department of Library and Information Science (DLIS), CUHP.

Report prepared by: Sapna (Research Scholar, DLIS) and
Sakshi Devi (Research Scholar, DLIS).



Central University of Himachal Pradesh

Udbhav Kendra and Institute Innovation Council

Presents

Hackathon 2022

29 & 30 -Jan-2022



Brainstorm



**Team
Formation**



**Prototype
Creation**



**Demo &
Hackathon**

Themes:

First Prize : Rs 10,000 + Trophy + Certificate

Second Prize : Rs 5,000 + Certificate

Third Prize : Rs 3,000 + Certificate

Participants selected for the final have to come to Dharamsala at their own expenses

Planning for online participation as well for participants from outside Himachal Pradesh

E-commerce Portal



Knowledge Base Portal



Student Assessment Portal



<https://chat.whatsapp.com/F3gDRvZAM7XDN1uIsbAnRA>

<https://forms.gle/ewLym2UcHoPwZXeu7>

Important Dates:

Registration Deadline: 25-Dec-2021

Prototype Submission: 15-Jan -2022

Demo Day: 29-Jan-2022

Hackathon Day (Live Challenge): 30-Jan-2022

Important Info:

A team can consist of max 4 members.

Nominations to be sent to sastri.osks@hpcu.ac.in

Detailed guidelines for preparation of prototype will be provided after registration.



Central University of Himachal Pradesh

(Established under Central Universities Act 2009)

TAB, Shahpur Campus, Distt-Kangra-176206, Himachal Pradesh

REPORT


ON

FOUNDATION WEEK LECTURE

JANUARY 29, 2022



Education and Learning: A Journey from Gurukul to Google



Organised by

Department of Library and Information Science

Date: January 29, 2022, Saturday Time: 11:30 AM

The department of Library and Information Science (DLIS), CUHP had organized Online Lecture on "**Education and Learning: A Journey from Gurukul to Google**" on the occasion of Foundation Week of CUHP on 29/01/2022 at 11:30 AM.

Prof. KP Singh from the Department of Library and Information Science, Delhi University, was the Speaker of the Lecture.

The online session started with the welcome address given by Dr Dimple Patel (Head, DLIS, CUHP). She briefed all the participants about the online lecture and Prof. Vishal Sood (Registrar, CUHP) enlightened the audience with the need for online education, especially in the present pandemic scenario. And Dr Shivarama Rao K (Associate Professor, DLIS, CUHP) shared the brief profile of the Speaker to the participants.

Prof. KP Singh started the session by remembering all the faculty, staff, and students who had contributed to the establishment of CUHP and DLIS. He had also paid tribute to the Late Prof. Inder Vir Malhan, who had taken the department to new heights.

Prof. KP Singh gave an eye-opening Lecture on "Education and Learning: A Journey from Gurukul to Google". He distinguished the concept of education and learning.

He discussed the **trinity of Knowledge**, also known as **Jnana**. And said it comprises of three main components which are:

- Intelligent (Dhi);
- Values (Dharma);
- Dexterity (Daksha).

And also mentioned the **core components of Value Education** which are

- Creativity,
- Collaborative and Experiential Learning,
- Diversity & Inclusion,
- Entrepreneurship and Excellence,
- Ethical Conduct,
- Global Citizenship,
- Innovation, and
- Social Responsibility.


Which he later discussed briefly in his session.

He also explained **the Gurukul Training Methodology and Present Education System** and discussed various education commissions of India implemented during pre- and post-independence and emphasized especially on National Education Policy-2020.

Later, he talked about the **use of Google in education** and discussed various Google Apps useful in the education system such as Google Classroom, Google Drive, Google Meet, Google Scholar, etc.

He concluded his lecture with detailed discussion on Challenges in Higher Education and Academic Research. And also discussed various dimensions of education, ethics, employability sustainability etc. in his lecture.

Many students, research scholars, and faculties of different departments participated in this session. And the programme came to an end with the proposal of vote of thanks by Ms. Akanksha Parmar (Research Scholar, DLIS, CUHP).





Report prepared by : Priya (Research scholar,DLIS) and
Sakshi Devi (Research scholar,DLIS)



Economics Society

CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH

DHARAMSHALA

Under the aegis of IQAC

**Invites you all
To**



**Chief Guest
and Keynote Speaker
Prof. A.D.N. Bajpai
Hon'ble Vice Chancellor
Atal Bihari Vajpayee
University, Chattisgarh**

**WEBINAR
ON THE OCCASION OF**



**Presided by
Prof. S. P. Bansal
Hon'ble Vice Chancellor
Central University of H.P.,
Dharamshala**

CUHP FOUNDATION WEEK CELEBRATIONS

**Date: 30th January, 2022 Time: 11:30 AM
onwards**

TOPIC: आत्मनिर्भर भारत: चुनौतियां और नीतिगत संभावनाएं



Prof. A.K. Mahajan
Co-ordinator, Foundation
week Lecture Series,
CUHP



Prof. Narayan Singh Rao
Dean, School of Social Sciences



Dr. Suman Sharma
Prog. Coordinator &
Head, Department of
Economics, CUHP

Organising Committee

Dr. Indervir Singh (Convener)
Dr. Kamal Singh (Co-convener)
Dr. Amit Kumar Basantaray (Member)
Dr. Vinod Naik (Member)

Report of the Webinar

Department of Economics, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala in continuation to CUHP Foundation week celebrations on 30th January 2022 organised a webinar आत्मनिर्भर भारत: चुनौतियां और नीतिगत संभावनाएं | The chief guest for the occasion was Professor Arun Diwaker Nath Bajpai, VC, Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur, Chhattisgarh. The webinar was presided by VC of CUHP, Prof S P Bansal. Dr Indervir Singh, Assistant Professor, Department of Economics introduced the guest and extended welcome to the esteem guests on the behalf of the Department. Prof S P Bansal in his inaugural address laid emphasis on the five pillars or strengths i.e. Economy, Infrastructure, System, Democracy and Demand for achieving the goal of self-reliance. He highlighted the COVID crises has not only forced India but the world to think about and become self-reliant. Prof Bajpai in his presidential address explained that Indian economy embarked upon the philosophy of self-reliance way back in 1960's. He underlined that the current COVID crisis had given us the opportunity for self-introspection and to think about the fellow country which are at the bottom of pyramid. These people are unskilled, illiterate and the worst hit victim of the COVID and its after math i.e., lockdown. These all events in combination had jeopardise the livelihood of millions of Indian. He called for removal of inequalities which are ubiquitous in Indian economy and have exacerbated in recent times. Prof Bajpai gave the myntra of sustainability of self-reliance. For achieving the objective of sustainability in self reliance he suggested measures like increasing domestic savings, revival of agriculture, emphasis on organic farming, skill development, and fostering the sense entrepreneurship. Dr Suman Sharma, Head, Department of Economics, lauded the work done by Prof S P Bansal and Prof A D N Bajpai and thanked everyone. The vote of thank was presented by Dr Kamal Singh. On this occasion, Prof Narayan Singh Rao, Dean, School of Social Sciences, Prof Pardeep Kumar , DSW, Dr Amit Kumar Basantaray and Dr Vinod Kumar from department of Economics were also present along with many scholars and students of economics department.


विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र एवं लोकनीति विभाग
Head, Department of Economics & Public Policy
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
काताफर, पश्चिम

Students must ask questions and keep the spirit of Curiosity Alive

Department of Economics Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala organised a special lecture for the faculty, students and the scholars of the department. Prof Aparna Negi, Professor, Department of Economics, Himachal Pradesh University, Shimla delivered the lecture. Prof Negi urged the students to ask more and more questions about the subject being taught so that basic understanding of the relevant subject can developed in more comprehensive manner. She emphasized that students should inculcate the spirit of curiosity among themselves then only they can fully grasp the knowledge. On the Occasion Dr Kamal Singh Assistant professor presented the welcome note and HoD of the department Dr Suman Sharma introduced the guest and presented Shawl and Himachali cap to the dignitary. Dr Amit Basantaray presented the vote of thanks. At the Occasion Dr Indervir Singh and Dr Vinod Naik from the department were also present.



Prof Aparna Negi interacting with students of MA Economics
31/01/2022



Prof Aparna Negi interacting with students of MA Economics
31/01/2022



Prof Aparna Negi facilitated by Head of Department
31/01/2022


[Signature]
विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र एवं लेक्चर विभाग
Head, Department of Economics & Public Policy
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अस्थायी शैक्षणिक ब्लॉक
Temporary Academic Block
वैद्यनाथ परिसर-1, जिला/धरमशाला
Vaidyanath Palsar-1, District/Dharamshala-176215


National Webinar on the occasion of CUHP's foundation week celebrations (Online)

Title: Cryptography and Cyber Security

Date: Jan 30, 2022

NOTICE

**हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय**
Central University of Himachal Pradesh
(Established/Found on 1st October 1965)
शाहपुर परिसर, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) - 176206
Shahpur Pariser, Shahpur, Distt Kangra (HP) - 176206
Website: www.cuhimachal.ac.in


श्री गुरुदेव
अमृत मेरी जीवन


File No.: CUHP/2/Workshop/Seminar/CUHP/21/ Dated: 26.01.2022

सूचना

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल द्वारा विश्वविद्यालय स्थापना सप्ताह (20-31 जनवरी, 2022) के उपलक्ष्य में निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से वेबिनार (Webinar) का आयोजन किया जा रहा है:-

Date: 30 th January, 2022	Date: 30 th January, 2022
Time: 03:00 PM to 04:00 PM	Time: 04:00 PM to 05:00 PM
Topic of lecture: Role of Machine Learning in Cyber Security	Topic of lecture: Blockchain for IoT Applications: Research Challenges and Solution
Speaker: Dr. Saibal Kumar Pal, Scientist G & Divisional Head, DRDO, Scientific Analysis Group, Delhi	Speaker: Prof. Neeraj Kumar, Professor, Department of Computer Science and Engineering, Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala, Punjab

अतः श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग के सभी विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वेबिनार के दौरान आयोजित अतिथि व्याख्यान में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।


प्रो. राकेश कुमार,
विभागाध्यक्ष,
श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. सूचना पट्ट।
2. सभी संकाय सदस्य, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर।
3. अधिष्ठाता, गणित, कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर।



Central University of Himachal Pradesh

On the Occasion of CUHP Foundation Week Celebration

Online One Day National Webinar

On

Cryptography and Cyber Security

30 Jan 2022 at 2.30 PM



Dr. Saibal Kumar Pal, Eminent Speaker
Senior Scientist, DRDO



Prof. S. P. Bansal, Chief Guest
Hon'ble Vice Chancellor, CUHP



Prof. Neeraj Kumar, Eminent Researcher and
Speaker, Thapar University



Prof. Rakesh Kumar,
Head and Dean



Prof. A. K. Mahajan,
Co-ordinator, Founday Week Celebration



Prof. Pradeep Kumar,
Dean Student Welfare, CUHP

Google Meet Link for the Webinar: <https://meet.google.com/qvi-lqbw-dje>

Convener :

Dr. Pankaj Kumar S/o Lt. Maniram , In-charge and Assistant Professor, SRDM

Organizing Secretary:

Mr. Ajay Kumar, Assistant Professor, CSI

Dr. Pankaj Kumar S/o Shri Krishan Singh , Assistant Professor, SRDM

Organizing Committee members:

Dr. Sachin Kumar Srivastava , Assistant Professor, SRDM

Dr. Meenakshi, Assistant Professor, SRDM

Organized by

Srinivasa Ramanujan Department of Mathematics

Central University of Himachal Pradesh

Shahpur Palsar, Shahpur-176206, HP, India

A one day online National Webinar on “**Cryptography and Cyber Security**” successfully completed on 30th January, 2022 at the ShahpurPaisar of the Central University of Himachal Pradesh on the occasion of **Foundation week celebration of CUHP**. This webinar was organized by the SrinivasaRamanujan Department of Mathematics, School of Mathematics, Computers and Information Sciences.

The Basic objective of the program to give students and researchers an exposure to give different aspect of research in Cryptography and Cyber Security. Our lives is depends on the internet technology in the present scenario. Due to excess of the technology, the rate of cyber-crime is increasing. Cyber Security is the main aspect to overcome the cyber-crime. More research are needed in the field of Cyber Security.

Dr. Pankaj Kumar S/o Late Maniram was the Convener of the event. Dr. Pankaj Kumar S/o Sh. Krishan Singh and Mr. Ajay Kumar were the organizing secretary of the webinar. Dr. Sachin kumar Srivastava and Dr. Meenakshi were the member of the organizing member of the webinar. M.Sc. Second Year Student Ms. Katyayni was the anchor of the webinar.

The Webinar was inaugurated on 30 January 2022 at 2.30 through online mode by our Chief Guest Prof. Vishal Sood, Registrar, Central University of Himachal Pradesh. The Webinar was started by the lighting of lamp and Saraswati Vandna.

National Webinar on the occasion of CUHP's foundation week celebrations
Title: Research in Vedic Mathematics

Date: Jan 31, 2022

NOTICE



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(Established under Central Universities Act 2009)
शाहपुर परिसर, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) - 176206
Shahpur Parisar, Shahpur, Distt. Kangra (HP) - 176206
Website: www.cuhimachal.ac.in



File No.: CVMS/2-2/Workshop-Seminar/CUHP/21/109-121


Dated: 28.01.2022

सूचना

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैदिक गणित अनुसंधान केंद्र, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से वेबिनार (Webinar) का आयोजन किया जा रहा है-

Date: 31 st January, 2022	Date: 31 st January, 2022
Time: 10:00 AM to 11:00 AM	Time: 11:00 AM to 12:00 PM
Topic of lecture: Research Areas in Vedic Mathematics	Topic of lecture: Research Tools for beginner in Vedic Mathematics
Speaker: Sh. Rakesh Bhatia, National Coordinator of Vedic Mathematics, Shiksha Sanskriti Uthan Nyas, New Delhi	Speaker: Prof. V.K. Gupta, Professor & Head, Department of Mathematics, Govt. PG Madhav College, Ujjain (MP).

अतः वैदिक गणित अनुसंधान केंद्र के सभी विद्यार्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वेबिनार के दौरान आयोजित अतिथि व्याख्यान में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।


प्रो. राकेश कुमार,
मानद निदेशक,
वैदिक गणित अनुसंधान केंद्र

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आगामी कार्यवाही हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. सूचना पट्ट।
2. सभी संकाय सदस्य, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर।
3. अधिष्ठाता, गणित, कंप्यूटर एवम् सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर।



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय



सीएचपी स्थापना सप्ताह समारोह के अवसर पर
ऑनलाइन एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार

वैदिक गणित में अनुसंधान क्षेत्र

31 Jan 2022 at 10:00 AM



मुख्य अतिथि, प्रो. (डॉ.) एन. पी. बंसल
माननीय कुलपति, सीएचपी, हिमाचल प्रदेश



प्रो. टी. के. गुप्ता, मुख्य वक्ता
वी बी माधव साइंस कॉलेज



डी राकेश भारद्वाज, मुख्य वक्ता
राष्ट्रीय समन्वयक, शिक्षा संस्कृति उद्योग न्यास



प्रो. राकेश कुमार
अधिष्ठाता, भावद विदेशक



प्रो. ए.के. महाजन
समन्वयक, स्थापना सप्ताह समारोह



प्रो. प्रदीप कुमार
अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सीएचपी

Google Meet Link for the Webinar: : <https://meet.google.com/pst-mccj-mym>

संयोजक- डॉ. पंकज कुमार पुत्र स्वर्गीय मनीराम, सहायक प्रोफेसर, एस.आर.डी.एम
आयोजन सचिव- डॉ. पंकज कुमार पुत्र श्री कृष्ण सिंह, सहायक प्रोफेसर, एस.आर.डी.एम
श्री अजय कुमार, सहायक प्रोफेसर, सी.एस.आई
आयोजन समिति के सदस्य- डॉ. सविन कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर, एस.आर.डी.एम

सहयोजक

वैदिक गणित अनुसंधान केंद्र

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश

साहपुर, १७६-२०५, हिमाचल प्रदेश, भारत

A one day online National Webinar on “**Research in Vedic Mathematics**” successfully completed on 31st January, 2022 at the ShahpurParisar of the Central University of Himachal Pradesh on the occasion of **Foundation week celebration of CUHP**. This webinar was organized by the Centre for Vedic Mathematics of the School of Mathematics, Computers and Information Sciences.

The Basic objective of the program to give students and researchers an exposure to give different aspect of research in Vedic Mathematics. Vedic Mathematics is an important area of Mathematics which is growing day by day. Students should know about the emerging areas of research in Vedic Mathematics. Dr. Pankaj Kumar S/o Late Maniram was the Convener of the event. Dr. Pankaj Kumar S/o Sh. Krishan Singh and Mr. Ajay Kumar were the organizing secretary of the webinar. Dr. Sachin Kumar Srivastava and Dr. Meenakshi were the member of the organizing member of the webinar. M.Sc. Second Year Student Ms. Katyayni was the anchor of the webinar.

The Webinar was inaugurated on 30 January 2022 at 2.30 through online mode by our Chief Guest Prof. Ambrish Kumar Mahajan, Central University of Himachal Pradesh. The Webinar was started by the lighting of lamp and Saraswati Vandana.

Dr. Pankaj Kumar, Convener, Assistant Professor of Srinivasa Ramanujan Department of Mathematics welcomes the participants and spoke the need of the Webinar for the students. Mr. Ajay Kumar, Department of Computer Science welcomed the Chief Guest Prof. Mahajan in his address. Prof. Rakesh Kumar, Head and Dean, thanks the chief guest on his address.

Prof. Mahajan in his address, first of all, congratulates all the faculty members of the department to give their contribution by organizing the webinar in the ongoing series of webinars on the occasion of celebration of foundation week of CUHP. Prof. Mahajan said that such kind of webinars will explore young minds. He added that our accentors were great Researchers and Mathematicians. They gave us the precious gift of Vedic Mathematics through Vedas and Shastras. We cannot deny the role of Vedic Mathematics in the Modern era.

There were two resource persons Sh. Rakesh Bhatia, National Convener of Vedic Mathematics, Shiksha Sanskriti Uthan Nyas, Dr. V.K. Gupta, from Govt. Madhav Science PG College.

In the first technical session, Sh. Rakesh Bhatia, National Convener of Vedic Mathematics, Shiksha Sanskriti Uthan Nyas was the main speaker. In his talk of title “Research areas in Vedic Mathematics” he explained about the different areas of research in Vedic Mathematics which are still untouched and how a good research could be done in those areas.

Dr. V.K. Gupta, from Govt. Madhav Science PG College was the main speaker in the second technical session. His title of talk was “Research tools for beginner in Vedic Mathematics”. In his talk, he stressed his words on the fact that how students and researchers should have to think differently and explore new research tools and ideas in the field of Vedic Mathematics.

The convener of the webinar, Dr. Pankaj Kumar said that such kind of events will surely set new trends of research in the field of Vedic Mathematics. According to the organizing secretaries of the webinar, Dr. Pankaj Kumar and Mr. Ajay Kumar, more than 60 participants were present in the webinar. The audiences were PG Students, PhD scholars and faculty members of the different department of CUHP. In the last, webinar was concluded with the vote of thanks by Dr. Pankaj Kumar, Organizing secretary of the webinar.



Online International Conference on Recent Trends in Nuclear Physics

February 16-18, 2022

Organised by

Department of Physics and Astronomical Sciences (DPAS)

School of Physical & Material Sciences (SoPMS)

**Central University of Himachal Pradesh (CUHP), Dharamsala,
District Kangra, H.P. Bharat**

Convenor

Prof. O.S.K.S. Sastri



DPAS, CUHP

Chief Patron

Prof. S. P. Bansal



**Hon. Vice-Chancellor
Central Univ of H.P.**

Patron

Prof. Hum Chand



**Dean and Head
SoPMS, DPAS
CUHP**

Organising Secretary

Dr. S. K. Soni



**Associate Professor
Govt College, D'Sala**

Organising Secretary

Dr. Sushil Kumar



**Deputy Dean
Chitkara University**

Organising Secretary

Dr. D. S. Verma



**Assistant Professor
DPAS, CUHP**

Important Deadlines:

Paper Submission:

15th December, 2021

**Peer reviewed papers to be published in a special issue of
Journal of Nuclear physics, Material Science, Radiation and Applications
as Conference Proceedings of Recent Trends in Nuclear Physics**



Online International Conference on Recent Trends in Nuclear Physics

16th - 18th February, 2022

Day 1: Program Schedule

Inaugural Session (16th February, 2022)

Time: 10:00 AM	Divine Invocation with Veda Mantras	
10:05 – 10:10 AM	Welcome Address	Prof. O.S.K.S Sastri Convenor
10:10-10:15 AM	Welcome by Dean	Prof Hum Chand
10:15 – 10:20 AM	Introduction to the speaker	Dr. Dalip Singh Verma Organising Secretary
10:20 – 11:20 AM	Keynote Address Some New Developments in Nuclear Isomers	 Prof A. K. Jain Senior Professor and Emeritus Fellow, IIT Roorkee, Honorary Professor, Amity Institute of Nuclear Science and Technology, Bharat
11:20-11:25 AM	Interaction with participants	
11:25 AM	Vote of Thanks	Dr. Sushil Kumar Organising Secretary

Session 1

Session Co-ordinator: Dr. S. K. Soni

Time	Title of the Talk	Speaker
11:45–11:50 PM	Introduction to the speaker	Aditi Sharma Research Scholar, CUHP
11:50–12:10 PM	Nuclear Structure Studies in the upper vicinity of N=Z=50 Shell Closure	 Dr. Samarjit Sihotra Associate Professor Physics Department, Panjab University, Chandigarh Email: ssihotra@gmail.com Mobile No. 8427061780
12:10–12:25 PM	Interaction with participants	
12:25–12:30 PM	Chairperson	Dr. Samarjit Sihotra
12:30-12:45 PM	Oral Presentation-1: Utility of R-matrix and Lagrange-mesh methods to nuclear transfer reactions	Shubhchintak, Physique Nucléaire Théorique et Physique Mathématique, C. P. 229, Université Libre de Bruxelles (ULB), B 1050 Brussels, Belgium
12:45–1:00 PM	Oral Presentation-2: Theoretical Investigation of α -decay Chains of Fm-isotopes	T. M. Joshua, Institute of Engineering Mathematics, Faculty of Applied and Human Sciences, Universiti Malaysia Perlis, Arau, 02600, Perlis, Malaysia
1:00 – 1:15 PM	Oral Presentation-3: Deformation effect	Pankaj Kumar, Department of

	on proton bubble structure in $N = 28$ isotones	Physics, Himachal Pradesh University, Shimla-171005, India
1:15 – 1:30 PM	Oral Presentation-4: Systematic Compilation/Evaluation of Reduced $B(E3)$ Transition Probabilities and Configurations of Octupole ($\Delta I=3$) Isomers in Mass A200 Region	P S Rawat , Department of Physics & Astrophysics, University of Delhi, Delhi-110007

Session 2

Session Co-ordinator: Dr. Sushil Kumar

S.No	Title of the Talk	Speaker
2:30-2:35 PM	Introduction to the Speaker	Dr.Sushil Kumar Organising Secretary
2:35 – 2:55 PM	Nuclear Physics programme at the Proton Therapy Center CCB in Krakow 	Prof. Dr. Hab. Adam Maj IFJ PAN Krakow ul. Radzikowskiego 152 31-342 Krakow, Poland adam.maj@ifj.edu.pl
2:55 – 3:00 PM	Interaction with Participants	
3:00 – 3:05 PM	Introduction to the Speaker	Lalit Kumar Research Scholar, CUHP
3:05 – 3:25 PM	Radiation: Effects and Safety 	Dr. Vivek Kumar Chairperson, Centre for Medical Physics Panjab University, Sector-25 Chandigarh-160014, India Mobile: 08146738713 vivek@pu.ac.in
3:25 – 3:30 PM	Interaction with participants	
	Chairperson	Dr Vivek Chandel
3:30 – 3:45 PM	Oral Presentation-5: Estimation of Soil Porosity By Gamma-Ray Attenuation Method	Abin Shaju , Deptt of Physics, St. Philomena's College Mysore, Karnataka-570015
3:45 – 4:00 PM	Oral Presentation-6: Titanate Nanoparticles show Enhanced Gamma-Ray Shielding Property	E. Rajasekhar , Department of Physics, Rayalaseema University, Kurnool, A.P., India
4:00 – 4:15 PM	Oral Presentation-7: $^3\text{He}-\alpha$ Elastic Scattering Phase Shifts in Various Channels Using Phase Function Method with Morse Potential	Anil Khachi , Department of Physics and Astronomical Sciences, CUHP, Dharamshala, 176215, H.P., Bharat
4:15 – 4:30 PM	Oral Presentation-8: Charge Radius And Neutron Skin Thickness Of Platinum And Osmium Isotopes Near The Nuclear Drip Lines	Anjana A V Department of Physics, University of Calicut, Kerala-673635, India
4:30 - 4:35 PM	Introduction to the Speaker	Swapna Gora , Research Scholar


4:35 – 4:55 PM	Particle Accelerators and their Applications		Dr. B.P. Ajith Kumar Scientist H, Inter University Accelerator Centre, New Delhi E-mail: bpajith@gmail.com
4:55 - 5:00 PM	Interaction with the participants		

Day 2: Program Schedule

(17th February, 2022)

Session-3

Session Co-ordinator: Dr Sushil Kumar

Time: 10:00 AM	Divine Invocation with Veda Mantras	
10:05–10:10 AM	Introducing the speaker	Lalit Kumar, Research Scholar
10:10–11:10 AM	Inaugural Address Theory Inspired Experimental Innovations in Nuclear/Particle Physics – three examples	 Prof. C. Rangacharyulu Professor of Physics University of Saskatchewan, Canada
11:10 –11:15 AM	Interaction with participants	
11:15 –11:30 AM	Oral Presentation-9: The $\psi(3770)$ Decay Into Light Mesons In The $C.3P_0$ Model	A. A. Hameed , Physics Department, Faculty of Science, Assiut University, Assiut, Egypt

Session 4




Session Co-ordinator: Dr. S. K. Soni


Time	Title of the Talk	Speaker
11:45–11:50 AM	Introduction to the speaker	Swapna Gora Research Scholar, CUHP
11:50–12:10 PM	Spontaneous Fission of superheavy nuclei governed via successive alpha-decay chains	 Prof. Manoj Kumar Sharma School of Physics and Material Sciences, Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala. msharma@thapar.edu Mobile No.: 9592780056
12:10–12:25 PM	Interaction with participants	
12:25–12:30 PM	Chairperson	Prof. Manoj Kumar Sharma
12:30-12:45 PM	Oral Presentation-10: Root mean square proton and neutron radii along with binding energies for even-even Lead (Pb) isotopes with point coupling and meson exchange RMF models	Virender Thakur , Department of Physics, Himachal Pradesh University, Summer-Hill, Shimla-171005, Bharat
12:45–1:00 PM	Oral Presentation-11: Revisiting Macro- microscopic Mass Formula using Atomic Mass Evaluation-2020 Data	Swapna Gora , Department of Physics and Astronomical Science, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, Kangra (H.P.)-176215
1:00 – 1:15 PM	Oral Presentation-12: Heavy cluster	Tinu Ann Jose , School of Pure

	radioactivity and decay mode of Superheavy element $^{306}_{120}$	and Applied Physics, Kannur University, Payyanur 670327, Kerala, India
1:15 – 1:30 PM	Oral Presentation-13: Investigation for Suitable Target-Projectile combination for Fusion from the Isotopes of Ti and Nd using Intrinsic Fusion and Fission Barriers Analysis	Monica Minhas , Department of Physics and Astronomical Science, CUHP, Dharamshala, Kangra (H.P.)-176215

Session -5

Session Co-ordinator: Dr. Dalip Singh Verma

S.No	Title of the Talk	Speaker
2:30-2:35 PM	Introduction to the speaker	Ayushi Awasthi Research Scholar, CUHP
2:35 – 2:55 PM	Nuclear Applications in Medical and Radiation Shielding 	Dr. K. Vijay Sai & Dr. Paramesh Associate Professor Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Prasanthi Nilyam, A.P. email: kvijaysai@sssihl.edu.in Mobile No: 9440201580
2:55 – 3:00 PM	Interaction with participants	
3:00 – 3:05 PM	Introduction to the speaker	Lalit Kumar Research Scholar, CUHP
3:05 – 3:25 PM	Nuclear structure and reaction studies using gamma array at IUAC 	Dr. S. Muralithar Scientist H, Inter University Accelerator Centre, New Delhi E-mail: murali@iuac.res.in Phone: 9868101487
3:25 – 3:30 PM	Interaction with participants	
	Chairperson	Dr. K. Vijay Sai
3:30 – 3:45 PM	Oral Presentation-14: Assignment of the spin and parity to the excited states of the $^{85,86}\text{Rb}$ nuclei	Anuj , Department of Physics & Astrophysics, University of Delhi, Delhi-110007.
3:45 – 4:00 PM	Oral Presentation-15: A Hartree-Fock-Bogoliubov Study on the Pairing Correlations of the Isotopes of Cobalt	Nicemon Thomas , Department of Physics, University of Calicut, Kerala-673635, India
4:00 – 4:05 PM	Introduction to the speaker	Anil Khachi Research Scholar, CUHP
4:05 – 4:25 PM	Recoil mass spectrometers: Design and Applications in Nuclear Reactions and spectroscopy 	Dr. N. Madhavan Scientist H, Inter University Accelerator Centre, New Delhi E-mail: madhavan@iuac.res.in
4:25 – 4:30 PM	Interaction with participants	
4:30 – 4:45 PM	Oral Presentation-16: Evaluation of Natural Radioactivity Levels and Exhalation	Vishnu C V , Department of Physics, University of



	rate of ^{222}Rn and ^{220}Rn in the soil samples from the Kuthiran Hills, Kerala, India.	Calicut, Kerala-673635, India
4:45 – 4:50 PM	Introduction to the speaker	Arushi Sharma , Research Scholar
4:50 – 5:10 PM	Fusion cross-section of superheavy nuclei with $Z = 120$ 	Dr. Raj Kumar Assistant Professor Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala. rajkumar@thapar.edu Mobile No.: 9646847454
5:10 – 5:15 PM	Interaction with participants	

Day 3: Program Schedule

(18th February, 2022)

Session-6


Session co-ordinator: Prof. O. S. K. S. Sastri

Time: 10:00 AM	Divine Invocation with Veda Mantras	
10:05-10:10 AM	Introduction to the speaker	Arushi Sharma , Research Scholar
10:10-10:30 AM	Systematics for Break up Fusion in Low-Energy Heavy ion Reactions 	Prof B. P Singh , Head Department of Physics, AMU, Aligarh bpsinghamu@gmail.com
10:30 – 10:35 AM	Interaction with participants	
10:35 - 10:40AM	Introduction to the speaker	Swapna Gora , Research Scholar
10:40 – 11:00 AM	Indian Nuclear Physicists Contribution to incomplete Fusion Reactions: A Study 	Dr. Sushil Kumar , Deputy Dean Journals & Publications Editor, <i>J. Nucl. Phy. Mat. Sci. Rad. A</i> E-mail: editor.jnp@chitkara Website: www.jnp.chitkara.edu
11:00 – 11:05 AM	Interaction with participants	
	Chairperson	Prof. B. P. Singh
11:05 – 11:20 AM	Oral Presentation-17: Low Energy S-Wave Proton-Deuteron Scattering Phase-Shifts using Morse Potential	Shikha Awasthi , Department of Physics and Astronomical Sciences, CUHP, Dharamshala, H.P-176215, Bharat (India)
11:20-11:35 AM	Oral Presentation-18: Theoretical investigation of probable decay modes	Akshay Manipal University, Jaipur

	in potential nuclei $^{296,297}_{118}$, $^{297}_{119}$ and $^{298}_{120}$ for future experiments	
--	---	--

Session 7

Session Co-ordinator: Dr Dalip Singh Verma

Time	Title of the Talk	Speaker
11:55–12:00 PM	Introduction to the speaker	Aditi Sharma Research Scholar, CUHP
12:00–12:20 PM	Hybrid Tilted Axis Cranking (TAC) results to understand the dipole and degenerate bands studied using INGA spectrometer	 Dr. Suresh Kumar , Associate Professor Department of Physics & Astrophysics University of Delhi. skumar@physics.du.ac.in , Mobile: 9599762352
12:20–12:25 PM	Interaction with participants	
12:25–12:30 PM	Chairperson	Dr Suresh Kumar
12:30–12:45 PM	Oral Presentation-19: Phase Shift Analysis for Neutron-Alpha Elastic Scattering Using Phase Function Method with Local Gaussian Potential	Lalit Kumar , Department of Physics and Astronomical Sciences, CUHP, Dharamshala, Himachal Pradesh-176215, Bharat(India)
12:45–1:00 PM	Oral Presentation-20: Study of negative parity Bands in ^{136}Ce	A. K. Gupta , Department of Physics, Institute of Science, Banaras Hindu University, Varanasi 221005, India
1:00 – 1:15 PM	Oral Presentation-21: Systematic of Signature Splitting in Ce Nuclei	A.K. Rana , Department of Physics, Institute of Science, Banaras Hindu University, Varanasi 221005, India.
1:15 – 1:30 PM	Oral Presentation-22: Radii of Thorium Nuclides Lying in Between the Drip Lines	Ummukulsu E , Department of Physics, University of Calicut, Kerala 673635, India


Session 8

Session Co-ordinator: Dr S. K. Soni

S.No	Title of the Talk	Speaker
2:30–2:35 PM	Introduction to the speaker	Shikha Awasthi Research Scholar, CUHP

2:35 – 2:55 PM	Microscopic analysis of quasiparticle structure of odd mass Pm nuclei near N=92 subshell closure using Projected Shell Model	 Dr. Suram Singh Associate Professor Department of Physics and Astronomical Sciences Central University of Jammu, suram.phy@cujammu.ac.in Mobile No. 9419270371
2:55 – 3:00 PM	Interaction with participants	
3:00 – 3:05 PM	Introduction to the speaker	Ayushi Awasthi Research Scholar, CUHP
3:05 – 3:25 PM	Clustering effects in the light composite nuclear systems and their decay analysis	 Dr. BirBikram Singh Professor & Head Department of Physics & Dean Students' Welfare Akal University Talwandi Sabo-151302 Bathinda (Punjab), India Email: drbirbikramsingh@gmail.com
3:25 – 3:30 PM	Interaction with participants	
3:30 – 3:35 PM	Introduction to the speaker	Prof. O. S. K. S. Sastri
3:35 – 3:55 PM	Indegenous Design and Development of Nuclear Instruments	 Dr. Jithin CEO, C-Sparks Research Limited, New Delhi
3:55 – 4:00 PM	Interaction with participants	


Valedictory Session

4:00 – 4:05 PM	Valedictory Session Starts	Veda Mantras
4:05 – 4:10 PM	Introduction to Chief Guest	Prof. O. S. K. S. Sastri
4:10 – 4:30 PM	Valedictory Address	 Prof. Avinash Pandey, Director, IUAC, New Delhi
4:30 PM	Feedback, Vote of Thanks, National Anthem	Dr. S. K. Soni Organising Secretary

ICRTNP-2022 (Report)

An Online International Conference on the Recent Trends in Nuclear Physics (ICRTNP-2022) is organised by the Department of Physics and Astronomical Science, Central University of Himachal Pradesh, during 16th to 18 February, 2022. It is organised with the support and guidelines of Prof. S.P. Bansal (Hon. Vice-Chancellor, CUHP) and Head Department of Physics and Astronomical Science, Prof. Hum Chand. It is convened by Prof. OSKS Sastri and organised by Dr. Dalip Singh Verma (CUHP), Dr. SK Soni (GDC Dharamshala), and Dr. Sushil Kumar (Chitkara University). In this event more than 130 nuclear Physicists (students, faculty and scientists) from India and foreign nations like: Belgium, Malaysia, Poland, Canada, Egypt participated. The event started with the keynote address by Prof. A.K. Jain, Some New Developments in Nuclear Isomers, and concluded with the Valedictory Address by Prof. Avinash Pandey, Director, IUAC, New Delhi. It is organised in the form of invited talks and oral presentations. The peer reviewed papers presented in this conference will be to be published in a special issue of Journal of Nuclear physics, Material Science, Radiation and Applications, as Conference Proceedings of Recent Trends in Nuclear Physics.

Some of the glimpses of the event are:



Zoom Meeting

Recording...

zakopane2022.ifj.edu.pl

Chair: Piotr Bednarczyk
Co-chair: Maria Kniecik

• **topical workshops:**
Alexandra Gade (MSU) – Structure of Exotic Nuclei,
Adam Maj (IFJ PAN) – Nuclear Collectivity,
Jorge Piekarewicz (Florida State University) – Nuclear Astrophysics
Wolfram Korten (CEA Saclay) – NUSTAR and APPA physics

• **latest achievements in the nuclear research.**

Invited speakers (preliminary list):

Navin Achari (GANIL, France)	Ben Margulit (Berkeley Lab, US)
Almudena Arcones (TU Darmstadt, Germany)	Gerda Neyens (CERN, Switzerland)
Deok Soon Ahn (KBSI, Korea)	Alexandre Oberstedt (TU Darmstadt, Germany)
Giovanna Benzoni (Milano University, Italy)	Alessandro Pastore (University of York, UK)
Franco Camera (Milano University, Italy)	Costel Petraru (IPN Orsay, France)
Emmanuel Clement (GANIL, France)	Marek Płoszajczak (GANIL, France)
Jiri Dillmann (TRIUMF, Canada)	Mark Riley (Florida State University, US)
Jerry Duick (IPHC, France)	Xavier Roca-Maza (INFN Milano, Italy)
Martin Freer (University of Birmingham, UK)	Hideoyuki Sakai (RIKEN Nishina Center, Japan)
Hans Fynbo (Aarhus University, Denmark)	Henri Savajols (GANIL, France)
Umesh Garg (University of Notre Dame, US)	Timur Sherdinmaz (JINR, Russia)
Jacek Golak (Jagiellonian University, Poland)	Pietro Spagnoli (SFU Vancouver, Canada)
Gaute Hagen (ORNL, US)	Atsushi Tani (Osaka University, Japan)
Dan Hoff (Univ. Lowell, US)	Jose Javier Valiente Dobon (LNL, Italy)
Ben Kay (ANL, US)	Marine Vanderbrugg (CEA Saclay, France)
Nicholas Kienly (NCBI, Sweden, Poland)	Jonathan Wilson (IPN Orsay, France)
Philippe Leconte (University of Chicago, US)	Kathrin Wimmer (IEM-CSIC, Spain)
Silvia Leoni (Milano University, Italy)	Juan Carlos Zamora (University of Sao Paulo, Brazil)
Augusto Macchiavelli (Berkeley Lab, US)	
Juliette Manner (University of Manitoba, Canada)	

EXTREMES OF THE NUCLEAR LANDSCAPE

August 28 – September 04, 2022

ZAKOPANE 2022 CONFERENCE ON NUCLEAR PHYSICS

55th in the series of Zakopane Schools of Physics

Participants (48)

Q. Find a participant

Sushil Kumar (Host, me)

Adam Maj (Co-host)

Chitkara University (Co-host)

O. S. K. S. Sastri (Co-host)

Vivek Kumar (Co-host)

Invite Mute All

Chat

Rhine Kumar A... to Me (Direct Message)

Please inform Prof. Maj to hide the presentation view of ppt

Who can see your messages? Recording On

To: Rhine Kumar A K (Direct Message)

Type message here...

Online International Conference on Recent Trends in Nuclear Physics
February 16-18, 2022

Organised by
Department of Physics and Astronomical Sciences (DPAS)
School of Physical & Material Sciences (SPMS)
Central University of Himachal Pradesh (CUHP), Dharamsala,
District Kangra, H.P. Bharat

Couvenor Prof. O.S.K.S. Sastri	Chief Patron Prof. S. P. Bhatnagar	Patron Prof. Himu Chand
		
DPAS, CUHP	Hon. Vice-Chancellor Central Univ. of H.P.	Hon. and Hon. SPMS, DPAS CUHP
Organizing Secretary Dr. S. K. Soni	Organizing Secretary Dr. Sushil Kumar	Organizing Secretary Dr. D. S. Verma
		
Associate Professor Govt College, D'Sala	Deputy Dean Chitkara University	Assistant Professor DPAS, CUHP

Important Deadlines:
Paper Submission: **15th December, 2021**

Peer reviewed papers to be published in a special issue of
Journal of Nuclear physics, Material Science, Radiation and Applications
as Conference Proceedings of Recent Trends in Nuclear Physics

The detail of the schedule of the Online International Conference on Recent Trends in Nuclear Physics and be seen at

<https://drive.google.com/file/d/1suc85Ut988GfY1oqJAD1t7RH8MxRPwL/view?usp=sharing>



**DEPARTMENT OF PLANT SCIENCES
SCHOOL OF LIFE SCIENCES
CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
SHAHPUR CAMPUS, DISTT. KANGRA (H.P.)**



Seminar on “Native Wild Ornamentals of Himalayas”

**Organized by
Himalayan Life Science Society &
Vaidya Sushen Club**



**Speaker
Dr. MR Dhiman,
Principal Scientist, IARI-ICAR
Katrain, Kullu, Himachal
Pradesh**



**Venue: Seminar Hall
Date: 07/03/2022
Time: 01:00- 02:00 PM**



**Special Guest
Prof. Pardeep Kumar,
President HLSS, &
Dean Student Welfare
Dean, School of Life Sciences**

**Coordinator: Dr. Munish Sharma, Assistant Professor, Department of Plant Sciences
Organising Secretary: Neha Guleri, Mainsha & Shipa Chaudhary**

**विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग
Head, Department of Plant Sciences
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अस्थायी शैक्षणिक खण्ड/Temporary Academic Block,
शाहपुर, कांगड़ा (हि.प्र.) Shahpur, Kangra (H.P.)-178206**



**DEPARTMENT OF PLANT SCIENCES
SCHOOL OF LIFE SCIENCES
CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
SHAHPUR CAMPUS, DISTT. KANGRA (H.P.)**



Seminar on “*Disease Management in Rice and Wheat*”

**Organized by
Himalayan Life Science Society &
Vaidya Sushen Club**



**Speaker
Dr. Sachin Upmanyu
Assistant Scientist (Plant
Pathology), RWRC- Malan,
Distt.- Kangra (HP)**



**Special Guest
Dr. Mahesh Kulharia
Associate Professor & Director ,
Centre for Computational
Biology & Bioinformatics**

**Venue: Seminar Hall
Date: 08/03/2022
Time: 01:00- 02:00 PM**

**Coordinator: Dr. Ashun Chaudhary, Assistant Professor, Department of Plant Sciences
Organising Secretary: Leena Thakur, Binny Vats & Pushpa Guleria**

विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग
Head, Department of Plant Sciences
हिमाचल प्रदेश केंद्र विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अस्थायी शैक्षणिक खण्ड/Temporary Academic Block,
शाहपुर, कांगड़ा (हि.प्र.) Shahpur, Kangra (H.P.)-178208

चावल व गेहूं में लगने वाले रोगों से बचाव बारे किया जागरूक

शाहपुर, 9 मार्च (ब्यूरो): केंद्रीय विश्वविद्यालय के पादप विज्ञान विभाग के वैद्य सुषेण क्लब की ओर से शाहपुर परिसर में चावल और गेहूं में रोग प्रबंधन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का आयोजन अधिष्ठाता जैविक विज्ञान स्कूल और विभागाध्यक्ष पादप विज्ञान विभाग प्रो. प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। इस संगोष्ठी में बतौर आमंत्रित वक्ता चावल एवं गेहूं शोध केंद्र मलां जिला कांगड़ा से सहायक वैज्ञानिक प्लांट पैथोलॉजी डॉ. सचिन उपमन्यु ने संबोधित किया। पादप विज्ञान विभाग के संकाय सदस्य, शोधार्थी और स्नातकोत्तर छात्र मौजूद रहे। संगोष्ठी का उद्देश्य चावल और गेहूं में विभिन्न रोगों के प्रबंधन के बारे में जागरूक करना और उनसे होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देना रहा।

चावल और गेहूं के रोगों से बचाव के उपाए सुझाये

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पादप विज्ञान विभाग के वैद्य सुषेण क्लब की ओर से शाहपुर परिसर में चावल और गेहूं में रोग प्रबंधन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का आयोजन अधिष्ठाता, जैविक विज्ञान स्कूल और विभागाध्यक्ष विज्ञान विभाग प्रो. प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। इस संगोष्ठी में बतौर अतिथि कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी एवं बायोइन्फॉर्मेटिक्स केंद्र के निदेशक डॉ. महेश कुल्हारिया ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। संगोष्ठी में पादप विज्ञान विभाग के संकाय सदस्य, शोधार्थी और स्नातकोत्तर छात्र मौजूद रहे। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य चावल और गेहूं में विभिन्न रोगों के प्रबंधन के बारे में जागरूक करना और उनसे होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में कार्यशाला का उद्देश्य रहा। डॉ. सचिन उपमन्यु ने कहा कि कीट, रोग और खरपतवार एक साथ कुल फसल पैदावार का लगभग 30 प्रतिशत का नुकसान करते हैं। उन्होंने रोग प्रबंधन के दो बुनियादी उपायों-निवारक और उपचारात्मक उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रोग प्रबंधन में आम तौर पर छह मापदंडों द्वारा पहचान की जाती है अर्थात् बहिष्करण, बचाव, उन्मूलन, संरक्षण, प्रतिरोध और चिकित्सा। उन्होंने विभिन्न रोग प्रबंधन रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला जैसे बलास्ट प्रतिरोधी जीन्स की शुरूआत, जीन पिरामिडिंग, मार्कर-असिस्टेड चयन और कल्चरल प्रैक्टिसज आदि। डॉ. उपमन्यु ने राष्ट्रीय महत्व की फसल, फसल की अवस्था, पैथोजन आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के रोगों की व्याख्या की। जैसे ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, शीथ ब्लाइट, ब्राउन स्पॉट, राइस टुंगो और उन्होंने चावल की फाल्सब स्मटट का विस्तार से वर्णन किया जो कि उभरती हुई बीमारी है।

5/12

खेती सीयू के शाहपुर परिसर में संगोष्ठी आयोजित

फसल को 30 फीसदी तक नुकसान पहुंचाते हैं कीट अन्य रोग और खरपतवार

संवाद न्यूज एजेंसी

चावल-गेहूं रोग प्रबंधन पर की चर्चा

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पादप विज्ञान विभाग के वैद्य सुषेण क्लब की ओर से शाहपुर परिसर में चावल और गेहूं में रोग प्रबंधन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगोष्ठी का आयोजन अधिष्ठाता, जैविक विज्ञान स्कूल और विभागाध्यक्ष, पादप विज्ञान विभाग प्रो. प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में किया गया।

यहाँ, विशेष अतिथि कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी एवं बायो इन्फॉर्मेटिक्स केंद्र के निदेशक डॉ. महेश कुल्हारिया ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। डॉ. सचिन उपमन्यु ने बताया कि कीट, रोग और खरपतवार एक साथ कुल फसल

पैदावार का लगभग 30 फीसदी का नुकसान करते हैं। उन्होंने रोग प्रबंधन के दो बुनियादी निवारक और उपचारात्मक उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किसानों की ओर से खराब रोग प्रबंधन के कारणों में प्रतिरोधी किस्मों के ज्ञान की कमी, उर्वरकों का अस्तुलित प्रयोग और कवक की कुछ नई नस्लों के उद्भव के कारण फसलों का अतिसंवेदनशील बनाना शामिल है। संगोष्ठी में डॉ. महेश कुल्हारिया, डॉ. अंशु चौधरी, शोधार्थी पुष्पा गुलरिया, लीना ठाकुर और पादप विज्ञान विभाग के संकाय सदस्य, शोधार्थी और स्नातकोत्तर छात्र मौजूद रहे।

(Handwritten signature)

विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग
Head, Department of Plant Science
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अस्थायी शैक्षणिक खण्ड/Temporary Academic Block
शाहपुर, कांगड़ा (हि.प्र.) Shahpur, Kangra (H.P.)-178208



**DEPARTMENT OF PLANT SCIENCES
SCHOOL OF LIFE SCIENCES
CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
SHAHPUR CAMPUS, DISTT. KANGRA (H.P.)**



Seminar on “Wild Edible Tubers of North Western Himalayan Region”

**Organized by
Himalayan Life Science Society &
Vaidya Sushen Club**



**Speaker
Dr. Tara Devi Sen
Assistant Professor (Botany)
Sardar Vallabhbhai Patel
Cluster University, Mandi**



**Venue: Seminar Hall
Date: 09/03/2022
Time: 01:00- 02:00 PM**



**Special Guest
Dr. Sunil Kumar
Associate Professor &
Head Department of Animal
Sciences**

**Coordinator: Dr. Divya V Nair, Assistant Professor, Department of Plant Sciences
Organising Secretary : Kriti Raina & Purnima Sharma**

**विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग
Head, Department of Plant Sciences
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अस्थायी शैक्षणिक खण्ड/Temporary Academic Block
शाहपुर, कांगड़ा (हि.प्र.) Shahpur, Kangra (H.P.)-178208**

पादप विज्ञान विभाग के वैद्य सुषेण क्लब ने किया अतिथि व्याख्यान का आयोजन

सीयू में जंगली खाद्य-पौधों पर किया जामरुक

हिमाचल दस्तक ■ धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पादप विज्ञान विभाग के वैद्य सुषेण क्लब को ओर से शाहपुर परिसर में जंगली खाद्य-पौधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान का आयोजन अधिष्ठाता, जैविक विज्ञान स्कूल और विभागाध्यक्ष, पादप विज्ञान विभाग प्रो. प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में किया गया।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पशु विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉ. सुनील कुमार रहे। इस मौके पर सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए डॉ. सुनील ने कहा कि व्याख्यान छात्रों

को पोषण मूल्यों और बाजार की क्षमता वाले विभिन्न जंगली खाद्य पौधों की खेती और प्रबंधन के महत्व को समझने में सहायक होगा। कार्यक्रम के अतिथि अध्यक्ष डॉ. तारा देवी सेन, सहायक प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मंडी रहीं। उन्होंने उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के जंगली खाद्य कद विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने आर्थिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खाद्य कंदों की खेती की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पूर्ति के लिए इन मूल्यवान संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण की वर्तमान जरूरतों पर भी जोर दिया। पोषण और बाजार की मांग की। धन्यवाद ज्ञापन के साथ व्याख्यान समाप्त हुआ। डॉ.

■ छात्रों और संकाय सदस्यों ने किया शंकाओं का समाधान
■ पौधों की खेती और प्रबंधन का महत्व समझने में मिलेगी मदद



सुनील कुमार ने इस तरह के सूचनात्मक व्याख्यान आयोजित करने के लिए विभाग को बधाई दी और संसाधन व्यक्ति को भी धन्यवाद दिया। वहीं बुधवार को आयोजित अतिथि व्याख्यान डॉ.

नर्सरी और फील्ड की तकनीक बताई

कार्यक्रम की अतिथि अध्यक्ष डॉ. तारा देवी सेन ने इन जंगली खाद्य कंदों की खेती और प्रबंधन के लिए नर्सरी और फील्ड तकनीक के बारे में भी बताया। उन्होंने डायोस्कोरिया और एसेरस प्रजातियों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया जो अमतौर पर हिमाचल प्रदेश की ऊपरी पर विस्तार की जाती हैं। अतिथि व्याख्यान के बाद एक संवाद सत्र हुआ जिसमें छात्रों और संकाय सदस्यों ने अपनी शंकाओं का समाधान किया।

संतोष कुमारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान विभाग, बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय, नेगो, हमीरपुर द्वारा सब्जी फसलों के संकर बीज उत्पादन में प्रगति विषय पर दिया गया।

जंगली खाद्य-पौधों-सब्जियों के संकर बीज उत्पादन संबंधी किया जागरूक

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पादप विज्ञान विभाग के वैद्य सुषेण क्लब की ओर से शाहपुर परिसर में जंगली खाद्य-पौधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान का आयोजन अधिष्ठाता, जैविक विज्ञान स्कूल और विभागाध्यक्ष, पादप विज्ञान विभाग प्रो. प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पशु विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉ. सुनील कुमार रहे। इस मौके पर सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए डॉ. सुनील ने कहा कि व्याख्यान छात्रों को पोषण मूल्यों और बाजार की क्षमता वाले विभिन्न जंगली खाद्य पौधों की खेती और प्रबंधन के महत्व को समझने में सहायक होगा। कार्यक्रम के अतिथि अध्यक्ष डॉ. तारा देवी सेन, सहायक प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मंडी रहीं। उन्होंने उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के जंगली खाद्य कंद विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने आर्थिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खाद्य कंदों की खेती की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पूर्ति के लिए इन मूल्यवान संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण की वर्तमान जरूरतों पर भी जोर दिया। पोषण और बाजार की मांग की। उन्होंने इन जंगली खाद्य कंदों की खेती और प्रबंधन के लिए नर्सरी और फील्ड तकनीक के बारे में भी बताया। उन्होंने डायोस्कोरिया और एसेरस प्रजातियों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया जो अमतौर पर हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई पर वितरित की जाती हैं। अतिथि व्याख्यान के बाद एक संवाद सत्र हुआ, जिसमें छात्रों और संकाय सदस्यों ने अपनी शंकाओं का समाधान किया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ व्याख्यान समाप्त हुआ।

विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग
Head, Department of Plant Science
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अस्थायी शैक्षणिक खण्ड/Temporary Academic Block,
शाहपुर, कांगड़ा (फि. प्र.) Shahpur, Kangra (H.P.)-178208

Report on Capacity Development and Skills Enhancement Activities

Name of the Activity: Self-Defense Orientation Programme

Date: 09-03-2022

Number of Participants: 42

Name of the Agencies/Consultants Involved: Center for Yoga Studies Mr. Bhumesh Kumar (+91-7018906837)

Details of the Activity:

‘Self-Defense Orientation Programme’ was organised on 09 March 2022 by the Department of Social Work for the MSW students. Shri Bhumesh Kumar, Yoga & Martial Art Expert was the resource person in the event. Students were provided training on basics of self-defense and stamina enhancement. The students were providing training about the use of these skills in diverse settings. the Faculty members of Department of Social Work participated in the event.



Photograph while Practicing Self-Defense Training

Head

Department of Social Work



**DEPARTMENT OF PLANT SCIENCES
SCHOOL OF LIFE SCIENCES
CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
SHAHPUR CAMPUS, DISTT. KANGRA (H.P.)**



Seminar on “*Advances in Hybrid Seed Production of Vegetable Crops*”

**Organized by
Himalayan Life Science Society &
Vaidya Sushen Club**



**Speaker
Dr. Santosh Kumari
Senior Scientist,
Department of Vegetable
Science, College of Horticulture
and Forestry,
Neri, Hamirpur**



**Special Guest
Prof. Pardeep Kumar,
President HLSS, &
Dean Student Welfare
Dean, School of Life Sciences**

**Venue: Seminar Hall
Date: 10/03/2022
Time: 01:00- 02:00 PM**

**Coordinator: Prof. Pardeep Kumar, President HLSS, & Dean Student Welfare, Dean, School of Life Sciences
Dr. Mahesh Kulharia, Secretary HLSS**

**विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग
Head, Department of Plant Sciences
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अस्थायी शैक्षणिक खण्ड/Temporary Academic Block,
शाहपुर, कांगड़ा (हि.प्र.) Shahpur, Kangra (H.P.)-178208**

Report on Capacity Development and Skills Enhancement Activities

Name of the Activity: Youth Leadership and Capacity Building Programme

Date: 15.03.2022

Number of Participants: 26

Name of the Agencies/Consultants Involved: Dept. of Youth Services (DYSSO) Sunny Kumar (+91 8219662968)

Details of the Activity:

‘Youth Leadership and Capacity Building Programme’ was organised by Department of Social Work in collaboration with Department of Youth, Services and Sports Himachal Pradesh at Dharamshala. Through youth engagement approaches students of MSW semester II & IV participated in the event.

Sessions were conducted to enable the students to understand the concepts associated with leadership. Group activities were organised for the students. The members of group were divided to understand the concepts of social group work. Through this programme students learnt about conflict management, time management & decision making. Faculty members of Department of Social Work participated in the event.

Head
Department of Social Work

Report on Capacity Development and Skills Enhancement Activities

Name of the Activity: Capacity building Programme - Water Conservation

Date: 29/03/2022

Number of Participants: 31

Name of the Agencies/Consultants Involved: J.N. Bhagat, Director, Dr. Sanjay Pandey(+918219479436) - Central Ground Water Board

Details of the Activity:



‘Awareness of Water Conservation Structures & Cleanliness Drive’ organised by department of Social Work, Central University of Himachal Pradesh (CUHP) located at Dehra Sapt Sindhu Campus II, district Kangra, Himachal Pradesh in collaboration with Central Ground Water Board (CGWB), Dharamshala, Ministry of Jal Shakti, Government of India on Tuesday 29th March 2022.



The Chief Guest was Prof. Narayan Singh Rao, Dean, School of Social Sciences and Resource persons were Mr Jayant Bhagat, Director, Central Groundwater Board and Dr Sanjay Pandey, Scientist, Central Groundwater Board, Dharamshala.



Group Photograph of all the Participants

As part of the programme a lecture by the Resource Person and Field Visit at Check dam near Nakerkhad, Jwalamukhi road, Himachal Pradesh was conducted. Prof. Rao told that such sessions play an important role in enhancing the learning of the students. Mr Jayant Bhagat, Director, Central Groundwater Board shared that in HP groundwater level is good and sustaining this level of groundwater is very important. CGWB is playing a pivotal role, as stated by Mr Bhagat. Dr Sanjay Pandey, Scientist, Central Groundwater Board stated that students especially social work students should be sensitized about technical aspects related to groundwater conservation; so that they can be change agents for a sustainable tomorrow. This activity was followed by the cleanliness drive at the field location at check dam near Nakerkhad, Jwalamukhi road, Himachal Pradesh. Faculty members, research scholars with MSW Semester II and IV students participated in the day long programme.





Head

Department of Social Work

Guest Lecture

18 April, 2022

NOTICE

	<p>हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय Central University of Himachal Pradesh (Established under Central Universities Act 2009) शाहपुर परिसर, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) - 176206 Shahpur Parisar, Shahpur, Distt. Kangra (HP) - 176206 Website: www.cuhimachal.ac.in</p>	
File No. MTH/2-2/Workshop-Seminar/ CUHP/21/05-15		Dated: 11.04.2022
सूचना		
<p>प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रकोष्ठ (Training & Placement Cell), श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार एक आमंत्रित व्याख्यान (Invited Lecture) का आयोजन किया जा रहा है:-</p>		
<p>व्याख्यान का विषय: Opportunities for Students after Post Graduation वक्ता का नाम: डॉ. नीरज गुप्ता, सहायक प्रोफेसर, रसायन एवं रसायनशास्त्र विभाग, भौतिक एवं पदार्थ विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर। दिनांक: 18.04.2022 समय: 11:30 पूर्वाह्न से 12:30 अपराह्न</p>		
<p>अतः श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग के सभी स्नातकोत्तर विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आमंत्रित व्याख्यान में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।</p>		
<p> प्रो. राकेश कुमार, विभागाध्यक्ष, श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग</p>		
<p>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रति अग्रेषित:-</p>		
<ol style="list-style-type: none">1. सूचना पट्ट।2. डॉ. नीरज गुप्ता, सहायक प्रोफेसर, रसायन एवं रसायनशास्त्र विभाग, भौतिक एवं पदार्थ विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर।3. सभी संकाय सदस्य, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर।4. अध्यक्ष, प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रकोष्ठ, श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग, गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर।5. अधिष्ठाता, गणित, कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान स्कूल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शाहपुर परिसर, शाहपुर।6. कुलसचिव, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।7. कुलपति महोदय के निजी सचिव, कृपया माननीय कुलपति महोदय, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के सूचनार्थ।		
<p> विभागाध्यक्ष, श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग</p>		

REPORT OF THE GUEST LECTURE

A Guest Lecture on the topic “Opportunities for Students after Post Graduation” successfully completed on 18th April, 2022 at the Shahpur Parisar of the Central University of Himachal Pradesh. The Lecture was organized by the Training and Placement Cell of the Srinivasa Ramanujan Department of Mathematics, School of Mathematics, Computers and Information Sciences.

Dr. Neeraj Gupta, Assistant Professor, Department of Chemistry and Chemical Sciences, Central University of Himachal Pradesh was the Invited Speaker of the event. All the Faculty Membes, Ph.D. Scholars and PG students of the School were present in the Guest Lecture.

Report on Capacity Development and Skills Enhancement Activities

Name of the Activity: Event Planning Session

Date: 13.04.2022

Number of Participants: 11

Name of the Agencies/Consultants Involved: Dr Digvijoy Phukan, Assistant Professor

Details of the Activity:

An 'Event Planning Session' was conducted for the students of MSW by Dr Digvijoy Phukan, Assistant Professor, Department of Social Work.

Event management is a core function of social work. Practice. Professionals are required to organised different kinds of events in the diversity practice settings. It is a professional activity which are requires meticulous planning, good execution and careful evaluation.

The resource person explained to the students all the three stages of an event and then discussed in detail the various steps associated with each stage. He stressed upon the fact that proper planning is essential for conducting a successful event.

He conducted exercises to teach the students importance of team work and collective work. The concepts of event execution and evaluation were also discussed. He shared with them various formats for event evaluation. The students were asked to prepare an event planner for a session to be conducted on 'awareness about substance abuse in a local village'. After the activity each group made a presentation.

The session ended with a vote of thanks.

Head
Department of Social Work



संस्कृतविभागः

हिमाचलप्रदेशकेन्द्रीयविश्वविद्यालयः

धर्मशाला, कांगडा, हि.प्र -176215




कार्यालयादेशः

दिनाङ्कः- 15.05.2022

हिमाचलप्रदेशकेन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागद्वारा बालवरिष्ठमाध्यमिकपाठशाला तथा च नर्सरी माध्यमिक पाठशाला, धर्मशालायाः छात्राणां कृते विशिष्टकक्षाः कार्यशालारूपेण 17-24 मई 2022 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यन्ते। कार्यदायित्वविवरणम् अधः प्रस्तुतम् अस्ति।

क्र.सं.	कार्यक्रमः	दिनाङ्कः	समन्वयकः	संयोजकः	कक्षा-शिक्षकाः
1.	विशिष्टकक्षा	17-24 मई 2022	डॉ. बृहस्पति मिश्रः	डॉ. नरेन्द्रकुमारपाण्डेयः	श्री सुधीरः, कु. उर्मिला, कु. कविता, श्री विशालः


विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभागः,
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
धौलाधार परिसर-1, धर्मशाला-176215

(कार्यालयीयः अनुवादः- हिमाचल प्रदेश केन्द्रीयविश्वविद्यालय के संस्कृत पालि एवं प्राकृत विभाग द्वारा, 17 मई से 24 मई तक बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, धर्मशाला तथा नर्सरी माध्यमिक पाठशाला, धर्मशाला में छात्रों हेतु विशिष्ट कक्षाएं कार्यशाला के रूप में आयोजित की जायेगी। कक्षा तथा कार्यदायित्व का विवरण अधः प्रस्तुत है।)

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला

(संस्कृत पालि एवं प्राकृत विभागः)

संस्कृत सम्भाषण कार्यशाला

स्थानम् - बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, धर्मशाला

दिनांकः- 17-24 मई, 2022

डॉ. बृहस्पति मिश्रः

समन्वयकः

डॉ. नरेन्द्र कुमार पाण्डेयः


संयोजकः

विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
द्वैतधाम परिसर-1, धर्मशाला-176215

नरेन्द्र पाण्डेय

संस्कृत संवर्धन समिति द्वारा संचालित संस्कृत की विशेष कक्षाओं प्रतिवेदन

संस्कृत संवर्धन समिति हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के संस्कृत विभाग द्वारा 17 मई से 24 मई तक बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, धर्मशाला तथा नर्सरी माध्यमिक पाठशाला, धर्मशाला में संस्कृत की विशेष कक्षाओं का संचालन किया गया। कक्षाओं का सामूहिक समापन बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, धर्मशाला में हुआ। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक संस्कृतानुरागी श्री कर्नल राजेश जी रहे तथा विशिष्ट अतिथि विद्यालय की प्रवक्ता लक्ष्मी ज्योतिषा एवं सारस्वत अतिथि श्री अभिषेक शास्त्री जी रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ. बृहस्पति मिश्रा जी ने की इस अवसर पर संस्कृत वस्तु प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया प्रदर्शनी का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ सुमन शर्मा तथा वित्त अधिकारी श्री नरेंद्र ठाकुर जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में प्रस्ताविक भाषण संस्कृत संवर्धन समिति के प्रभारी तथा संस्कृत पाली एवं प्राकृत विभाग के सहायक आचार्य डॉ. नरेंद्र कुमार पांडेय ने किया। विशेष कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या 92 रही। विशेष कक्षाओं का संचालन संस्कृत-विभाग के पंकज, सुधीर, विशाल, उर्मिला, कविता आदि स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों ने किया।


विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
धौलाधार परिसर-1, धर्मशाला-176215



Central University conducts special classes of Sanskrit

**SANJAY AGGARWAL
DHARAMSALA, MAY 24**

On behalf of the Sanskrit Department of Himachal Pradesh Central University, Dharamsala, the closing program of special classes of Sanskrit conducted in Dharamsala, Children's Senior Secondary School Dharamsala and Nursery Secondary School Dharamsala was organized on Tuesday. Col Rajesh was the chief guest in the closing ceremony, and the special guest was the school spokesperson Lakshmi Jyotisha and Saraswat guest Abhishek Shastri. The program was presided over by Dr. Brihaspati Mishra, Chairman, Department of Sanskrit, Central University of Himachal Pradesh. A Sanskrit Object Exhibition was also organized on this occasion. The exhibition was inaugurated by Controller of



Examinations of the University, Dr. Suman Sharma and Finance Officer Narendra Kumar by lighting the lamp. Convenor of the program, in-charge of Sanskrit Promotion Committee and assistant of Sanskrit Pali and Prakrit Department, Acharya Narendra Kumar Pandey said that the classes were conducted by the students of postgraduate classes of Sanskrit department. On this occasion, according to Dr. Brihaspati Mishra, the head

of the department, efforts are on for wide publicity and propagation of Sanskrit language under the guidance of Hon'ble Vice Chancellor of the university, Prof. Sat Prakash Bansal. In this sequence, special classes of Sanskrit were being conducted in Senior Secondary School and Senior Secondary School of Dharamsala since last May 17. At the same time, a Sanskrit object exhibition was organized on the concluding occasion.

संस्कृत वस्तु प्रदर्शनी का आयोजन

धर्मशाला, 24 मई (नवीन): हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के संस्कृत विभाग की ओर से धर्मशाला स्थित बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला और नर्सरी माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला में संचालित संस्कृत की विशेष कक्षाओं का मंगलवार को समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसमें बतौर मुख्यातिथि सेवानिवृत्त सैनिक कर्नल राजेश रहे जबकि विशिष्ट अतिथि विद्यालय की प्रवक्ता लक्ष्मी ज्योतिषा एवं सारस्वत अतिथि अभिषेक शास्त्री रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डा. बृहस्पति मिश्र ने की। इस अवसर पर संस्कृत वस्तु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।



धर्मशाला : संस्कृत विभाग की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करते डा. सुमन शर्मा।

इसमें स्नातकोत्तर चतुर्थ सत्र के विद्यार्थी विशाल, कविता, उर्मिला, सुधीर कुमार, निधि, डिम्पल, नेहा व पंकज आदि ने सहभागिता निभाई। प्रदर्शनी की संयोजक

डा. अर्चना कुमारी ने अतिथियों को प्रदर्शनी के विषय में जानकारी दी। इस अवसर पर डा. विवेक व डा. कुलदीप आदि मौजूद रहे।

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
धर्मशाला परिसर-1, धर्मशाला-173215

नरेन्द्र कुमार

सीयू के संस्कृत विभाग ने छात्रों ने बांटा ज्ञान

दिव्य हिमाचल ब्यूरो - धर्मशाला

प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने नई पहल करते हुए अपने आसपास के स्कूली छात्रों को भी संस्कृत व संस्कृति से जोड़ने के लिए मुहिम शुरू की है। जिसके तहत विद्यार्थियों के लिए उनके शैक्षणिक संस्थान में जाकर टिप्स दिए जाए रहे हैं। सीयू के संस्कृत विभाग ने धर्मशाला स्थिति ब्वायज स्कूल और नर्सरी स्कूल में संस्कृत की विशेष कक्षाओं का आयोजन किया। समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि

(सेवानिवृत्त सैनिक) कर्नल राजेश रहे तथा विशिष्ट अतिथि विद्यालय की प्रवक्ता लक्ष्मी ज्योतिशा एवं सारस्वत अतिथि अभिषेक शास्त्री रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डा. बृहस्पति मिश्र ने की। इस अवसर पर संस्कृत वस्तु प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डा. सुमन शर्मा तथा वित्त अधिकारी नरेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया।

12-1-2015



विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
धौलाधार परिसर-1, धौलाधार-172115

संस्कृत वस्तु प्रदर्शनी को सराहा

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के संस्कृत विभाग की ओर से विगत 17 मई से धर्मशाला स्थिति बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला और नर्सरी माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला में संचालित संस्कृत की विशेष कक्षाओं का मंगलवार को समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि (सेवानिवृत्त सैनिक) कर्नल राजेश रहे तथा विशिष्ट अतिथि विद्यालय की प्रवक्ता लक्ष्मी ज्योतिशा एवं सारस्वत अतिथि अभिषेक शास्त्री रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉ. बृहस्पति मिश्र ने की। इस अवसर पर संस्कृत वस्तु प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुमन शर्मा तथा वित्त अधिकारी नरेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम के संयोजक संस्कृत संवर्धन समिति के प्रभारी एवं संस्कृत पाली एवं प्राकृत विभाग के सहायक आचार्य नरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि कक्षाओं का संचालन संस्कृत-विभाग के स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों ने किया।

नरेंद्र पांडेय

विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग


हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
धौलाधार परिसर-1, धर्मशाला-170215

केन्द्रीय विवि के संस्कृत विभाग की ओर से संस्कृत की विशेष कक्षाओं का संचालन

धर्मशाला, (आपका फैसला)। हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के संस्कृत विभाग की ओर से विगत 17 मई से धर्मशाला स्थिति बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला और नर्सरी माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला में संचालित संस्कृत की विशेष कक्षाओं का मंगलवार को समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि, सेवानिवृत्त सैनिकद्ध कर्नल राजेश रहे तथा विशिष्ट अतिथि विद्यालय की प्रवक्ता लक्ष्मी ज्योतिशा एवं सारस्वत अतिथि अभिषेक शास्त्री रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉण् बृहस्पति मिश्र ने की। इस अवसर पर संस्कृत वस्तु प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ सुमन शर्मा तथा वित्त अधिकारी नरेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम के संयोजक संस्कृत संवर्धन समिति के प्रभारी

एवं संस्कृत पाली एवं प्राकृत विभाग के सहायक आचार्य नरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि कक्षाओं का संचालन संस्कृत विभाग के स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों ने किया। इस अवसर पर विभाग के अध्यक्ष डाण् बृहस्पति मिश्र जी के अनुसार विवि के माननीय कुलपति प्रोण् सत प्रकाश बंसल जी के मार्गदर्शन में संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास जारी हैं। इस क्रम में विगत 17 मई से धर्मशाला के बालक वर्ग वरिष्ठ विद्यालय तथा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत की विशेष कक्षाएं संचालित हो रही थीं। वहीं समापन अवसर पर संस्कृत वस्तु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें स्नातकोत्तर चतुर्थ सत्र के विद्यार्थी विशालए कविताए उर्मिलाए सुधीर कुमारए निधीए डिंपलए नेहा और पंकज आदि ने प्रदर्शनी के आयोजन में अपनी सहभागिता निभाई। प्रदर्शनी की संयोजिका डाण् अर्चना कुमारी ने इस अवसर पर अतिथियों को प्रदर्शनी के विषय में जानकारी दी।




विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
धौलाधार परिसर-1, धर्मशाला-176215

**Three Days Online
Capacity Building Programme
On**

**Role of Youth, Police & Communities in Disasters and
Forest Fire Management**

Date: May 18-20, 2022 | Time: 11:00 am to 01:30 pm



Jointly Organized by:

**National Institute of Disaster Management
(Ministry of Home Affairs, Govt. of India)**

-AND-

**Department of Social Work, Unnat Bharat Abhiyan
Central University of Himachal Pradesh
Dharamshala**

Report on Capacity Development and Skills Enhancement Activities

Name of the Activity: Capacity building program

Date: 18.05.2022

Number of Participants: 215

Name of the Agencies/Consultants Involved: National Institute of Disaster Management, India

Details of the Activity: (*Detailed Report Attached*)

In this programme the speakers discussed in details the various aspects of disaster management awareness on a community level in Himachal Pradesh, as well as an introduction to disaster management and recommendations for a safer, more resilient, and dynamic society in the Himalayan area.

In total there were around 215 participants who joined online through WebEx meet (virtual platform) and represented different states and regions of the country. Sessions were moderated by Ms Sankita, Research Scholar (Social Work) and Prof. Narayan Rao, Dean (School of Social Sciences) offered summed up the session and presented formal vote of thanks to the chair in the end of session

Disaster Management and defined and recommendations given for a safer, more resilient, and dynamic society in the Himalayan area on how to prevent and raise awareness among local people on dealing with these disasters. Forest areas are affected by fire annually 95% caused by Human beings & economic loss due to forest fires up to 9000 hectares (as per UNDP, FAO). Also, the Lantana plant is very harmful to people and forests. The event stressed upon the role of local government agencies should participate with village communities in building capacities of the villages in disaster risk reduction. Faculty members of Department of Social Work participated in the event.

Head
Department of Social Work

एक दिवसीय योग कार्यक्रम

31 मई, 2022

BROCHURE



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय

गणित विभाग योग-उत्सव समापन समारोह
पर आप सभी का स्वागत करता है

योग-उत्सव समापन समारोह
दिनांक 31 मई, 2022
समय: 03:00-4:30 अपराह्नः
स्थान: सभागार, शाहपुर परिसर



योग गुरु, रणवीर सिंह जी



कार्यक्रम अध्यक्ष, प्रो. प्रदीप कुमार,
अध्यक्षता नकारात्मक



प्रो. भाग चंद चौहान, निदेशक, शाहपुर
परिसर, नोडल अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय
योग दिवस



प्रो. राकेश कुमार, विभागप्रमुख,
गणित विभाग

अध्यक्ष
श्रीमिता राजवृन्त गणित विभाग

संयोजक गणित अनुसंधान केंद्र (Centre for Vedic Mathematical Studies)
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश
शाहपुर परिसर, 161004, हिमाचल प्रदेश, भारत

यह गणित विभाग के लिए हर्ष का विषय है कि हमें योग-उत्सव का समापन समारोह आयोजन का यह शानदार अवसर प्राप्त हुआ है। अतः विभाग की तरफ से शाहपुर परिसर के सभी शिक्षकों, शोधकर्ताओं व सभी छात्रों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे 31 मई 2022 को शाम 3.00 बजे कान्फ्रेंस हॉल में गरिमामय उपस्थिति प्रदान करें।

कार्यक्रम विवरण	
31 मई, 2022, मंगलवार	
समय	विवरण
03.00 PM - 03:07 PM	दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना
03.07 PM - 03.15 PM	प्रो. राकेश कुमार, स्वागत भाषण और गणमान्य व्यक्तियों का परिचय
03.15 PM - 04.00 PM	योग सत्र: योग गुरु रणवीर सिंह जी
04.00 PM - 04.10 PM	योग के लिए छात्रों की गतिविधियाँ
04.10 PM - 04.15 PM	प्रश्न और उत्तर सत्र
04.15 PM - 04.25 PM	प्रो. प्रदीप कुमार, विदाई सत्र
04.25 PM - 04.30 PM	प्रो. भाग चंद चौहान - धन्यवाद प्रस्ताव

कार्यक्रम आयोजक प्रो. राकेश कुमार

कार्यक्रम समन्वयक: डॉ. पंकज कुमार पुत्र स्वर्गीय मगिराम

सह समन्वयक: डॉ. दत्त के. श्रीवास्तव
डॉ. मीनाश्री
डॉ. पंकज कुमार पुत्र श्री कृष्ण सिंह

निर्देश :

1. अपनी योगा मैट या चैटशीट साथ लाएं।
2. अपनी यानी भी बोलें लाएं।
3. सुबह 03.00 बजे उपस्थित रहें।
4. कृपया टोपडर का भोजन कम मात्रा में करेंगे आए।

REPORT OF THE PROGRAMME

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के शाहपुर परिसर में योग उत्सव का जश्न मनाने के लिए एक दिवसीय योग कार्यक्रम 31 मई, 2022 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन गणित, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान स्कूल के श्रीनिवास रामानुजन गणित विभाग द्वारा किया गया था। प्रो प्रदीप कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में प्रो राकेश कुमार, विभागाध्यक्ष, डॉ सचिन कुमार श्रीवास्तव, डॉ पंकज कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री मनीराम, डॉ पंकज कुमार सुपुत्र श्री कृष्ण सिंह, डॉ मीनाक्षी सहित विभाग के सभी शोधार्थी और स्नातकोत्तर विद्यार्थी शामिल थे। यह कार्यक्रम योग उत्सव का समापन कार्यक्रम था।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से की गई। श्री रणजीत सिंह कार्यक्रम के योग गुरु थे और सभी छात्रों और संकाय सदस्यों को योग के बारे में प्रशिक्षण दिया। मुख्य रूप से प्रोफेसर भागचंद चौहान परिसर निदेशक, डॉ प्रदीप चौकसे और विभाग के सभी सदस्य उपस्थित थे।

योग उत्सव की कुछ झलक निम्न हैं:



MEDIA COVERAGE

कमियां दूर करने के लिए विभागों का समाक्षा

संवाद सहयोगी, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धौलाधार परिसर-एक में बुधवार को अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी डोगरी विभाग की समीक्षा की गई। अधिष्ठाता अकादमिक प्रो. प्रदीप कुमार ने कहा कि विवि में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और विश्वविद्यालय एक शोध विश्वविद्यालय के रूप में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल के मार्गदर्शन में कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय के सभी विभागों की समीक्षा शुरू की गई है। कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

अंग्रेजी विभाग की ओर से प्रो. नंदूरी राज गोपाल ने विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान संकाय सदस्यों की संख्या, सेवाकाल, पेपर प्रकाशन, किताबों की रचना के अलावा छात्रों, शोधार्थियों व आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों की संख्या पर चर्चा की गई। इसके साथ ही विभाग में कितने कोर्स चल रहे हैं और संकाय सदस्यों को मिल रही सुविधाओं या दिक्कतों पर जानकारी ली।

इस अवसर पर डा. बृहस्पति मिश्रा, अंग्रेजी विभाग से प्रो. रोशन लाल शर्मा,



योग करे निरोग : केंद्रीय विश्वविद्यालय के शाहपुर परिसर में आयोजित उत्सव के दौरान योग करते प्राध्यापक व विद्यार्थी • जागरण

सीयू के शाहपुर परिसर में योग का महत्व बताया

संवाद सहयोगी, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के शाहपुर परिसर में आयोजित योग उत्सव में पतंजलि योगपीठ की योगिनी देवकी शर्मा ने योग का महत्व बताया। उन्होंने योग को दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। भौतिक एवं खगोल विज्ञान विभाग के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम

की अध्यक्षता प्रो. ओएसकेएस शास्त्री ने की। योग उत्सव के समापन समारोह में योग गुरु रंजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अधिष्ठाता अकादमिक प्रो. प्रदीप कुमार, प्रो. भाग चंद चौहान, प्रो. राकेश कुमार, योग शिक्षिका अवंतिका, प्रो. राजेश कुमार मौजूद रहे।

डा. खेमराज, डा. हेमराज बंसल, श्वेता नंदा, हिंदी विभाग से डा. चंद्रकांत, डा. ओमप्रकाश प्रजापति, डा. प्रिया शर्मा, डा. प्रीति, संस्कृत विभाग से डा. विवेक,

डा. कुलदीप, डा. भजहरि दास, डा. रणजीत, डा. अर्चना कुमारी, डा. नरेंद्र कुमार पांडेय, डा. नरेश व डा. हरजिंदर मौजूद रहे।

Report on Capacity Development and Skills Enhancement Activities

Name of the Activity: Ten days Research methodology course in social sciences

Date: 7-16.07.2022

Number of Participants: 43

Name of the Agencies/Consultants Involved ICSSR, Department of Social Work

Details of the Activity: ICSSR Sponsored Ten days Research Methodology Course in Social Sciences

Ten days Research Methodology Course in Social Sciences was held from 7-16 July 2022 in Dharamshala. Dr Shashi Punam was the Course Director and Dr Shveta Sharma was the Co-Director. The course was attended by research scholars from across the country. The participants were acquainted with the theory and practice of research in social sciences. The subject experts also conducted sessions on qualitative and quantitative data collection and its analysis. Several cultural events, yoga camp, and field visits were also organised as part of this course.



Glimpses from the ICSSR Sponsored Ten days Research Methodology Course in Social Sciences

Head

Department of Social Work

Report on Capacity Development and Skills Enhancement Activities

Name of the Activity: Substance abuse and prevention: विषय पर एक दिवसीय र्यशाला

Date: 31.08.2022

Number of Participants: 48

Name of the Agencies/Consultants Involved: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा गुंजन संगठन "समुदाय के विकास लिए"

Details of the Activity: Department of Social work

A session was conducted by the Department of Social Work in association GUNJAN Organisation for Community Development. The organisation is actively providing community services in the domain of public health i.e., drug and alcohol prevention, treatment and rehabilitation of people addicted to drugs; HIV/AIDS prevention, empowering women; and education of women and children.

The organisation is designated as State Level Coordinating Agency by Ministry of Social Justice & mipowerment, Gol under the "National Action Plan for Drug Demand Reduction". The Organisation is also implementing Community Radio Station at Dharamshala "Radio Gunjan FM 91.2" under "Policy Guidelines of setting up Community Radio Station in India" by the Ministry of Information & Broadcasting (MIB), Government of India since 2017.

The session focused on the problems of drug abuse and illicit drug trafficking. The speakers stressed upon the devastating consequences of drug abuse on all sections of society, especially among young population. The students were informed about the adverse effects on health; and how it leads to an upsurge in violence, and corruption; the draining of human, natural and financial resources that can be otherwise used for social and economic development. Faculty members of Department of Social Work participated in the event.

Head

Department of Social Work

10 समरोह

03-04 सितम्बर 2022

दो दिवसीय कार्यशाला (मोखिक संस्कृति और भाषा प्रलेखन)

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

पंजाबी एवं डोगरी विभाग,

विकिमीडिया संगठन के संयुक्त तत्वावधान में

आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ सेल के अंतर्गत

द्वि दिवसीय कार्यशाला

दिनांक : 3 व 4 सितंबर, 2022

मुख्य अतिथि



प्रो. अम्बरीश महाजन
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
हि. प्र. के. वि.

मुख्य संरक्षक



प्रो. सत प्रकाश बंसल
कुलपति, हि. प्र. के. वि.

विशिष्ट अतिथि



डॉ. नन्दुरी राज गोपाल
अधिष्ठाता, भाषा संकाय
हि. प्र. के. वि.

अध्यक्ष

समन्वयक



डॉ. वृहस्पति मिश्र
अध्यक्ष,
पंजाबी एवं डोगरी विभाग
हि. प्र. के. वि.

“मौखिक संस्कृति और भाषा प्रलेखन”

उद्घाटन कार्यक्रम

दिनांक : 03 सितंबर, 2022

समय : प्रातः 10:00 बजे

स्थान : सम्मेलन कक्ष

धौलाधार परिसर - 1

संयोजक



डॉ. नरेश कुमार
सहायक आचार्य
पंजाबी एवं डोगरी विभाग
हि. प्र. के. वि.

संयोजक



डॉ. हरजिंदर सिंह
सहायक आचार्य
पंजाबी एवं डोगरी विभाग
हि. प्र. के. वि.



CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH

DEPT. OF PUNJABI AND DOGRI

IN COLLABORATION WITH

WIKIMEDIA FOUNDATION

TWO DAYS WORKSHOP

DATE : 3RD & 4TH SEP. 2022

CHIEF PATRON



PROF. SAT PRAKASH BANSAL
VICE CHANCELLOR, C.U.H.P.

CHIEF GUEST



PROF. A.K. MAHAJAN
DEAN
STUDENT WELFARE

GUEST OF HONOUR



DR. NANDURI RAJGOPAL
DEAN
SCHOOL OF LANGUAGES

CHAIRPERSON
& COORDINATOR



DR. BRIHASPATI MISHRA
HEAD
DEPT. OF PUNJABI AND DOGRI

ORAL CULTURE AND LANGUAGE
DOCUMENTATION WORKSHOPS

INAUGURATION

DATE : 3RD SEP. 2022

TIME : 09.30 AM

PLACE : SEMINAR HALL
DHAULADHAR PARISAR-I

CONVENER



DR. NARESH KUMAR
ASSISTANT PROFESSOR
DEP. OF PUNJABI AND DOGRI

CO CONVENER



DR. HARJINDER SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEP. OF PUNJABI AND DOGRI



रिपोर्ट समारोह – 10

दो दिवसीय कार्यशाला : मौखिक संस्कृति और भाषा प्रलेखन
(3-4 सितंबर 2022)

दो दिवसीय कार्यशाला : मौखिक संस्कृति और भाषा प्रलेखन विकीमीडिया के सहयोग से की गई। 3 और 4 सितंबर को इस को संपन्न किया गया। इसमें विकीमीडिया की टीम से 20 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 2 दिनों में भाषा संकथा के 36 विद्यार्थियों को बताया कि मौखिक संस्कृति और भाषा का प्रलेखन कैसे हो सकता है। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर ए.के. महाजन अधिष्ठाता, छात्र कल्याण रहे। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि डॉ. न.राजगोपाल, अधिष्ठाता भाषा संकाय रहे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. बृहस्पति मिश्र विभागाध्यक्ष पंजाबी एवं डोगरी विभाग ने की। इस कार्यशाला में 60 विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया।

अध्यक्ष, पंजाबी एवं डोगरी विभाग
Head, Department of Punjabi & Dogri
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
धौलाधार परिसर-1, धर्मशाला-176215
Dhauladhar Campus-1 Dharamshala-176215

पहली नजर

डिजिटल अखबार



पहली नजर

सबसे पहले, सबसे तेज

www.pehalinazar.com pehalinazarhp@gmail.com

आज की ताजा खबर देखते रहिए
डिजिटल न्यूज़ पेपर पहली नजर के साथ

केंद्रीय विवि में दो दिवसीय मौखिक संस्कृति और भाषा प्रलेखन कार्यशाला का शुभारंभ

पंजाबी एवं डोगरी विभाग तथा विकीमीडिया के सहयोग आयोजित हो रही है कार्यशाला

देश के अलग-अलग राज्यों से आए सकार्वर रखेंगे अपने विचार

पहली नजर ब्यूरो, धर्मशाला



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के पंजाबी एवं डोगरी विभाग और विकीमीडिया के सहयोग से दो दिवसीय मौखिक संस्कृति और भाषा प्रलेखन कार्यशाला का आरंभ किया गया इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ए. के. महाजन डीन डीएसडब्ल्यू और उनके साथ विशिष्ट अतिथि डॉ. नण्डूरी राजगोपाल डीन भाषा संकाय रहे।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. बृहस्पति मिश्र अध्यक्ष पंजाबी एवं डोगरी विभाग ने की। इस कार्यशाला में 2 दिन भारत के अलग-अलग राज्यों से आए सकार्वर अपने विचार पेश करेंगे। इसमें हिंदी संस्कृत पंजाबी इंग्लिश टूरिज्म और एजुकेशन विभाग के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं इसमें विकीमीडिया के प्रोजेक्ट निवेश जी की

टीम में डॉ. अमृत सूफी, जुगराज, गौरव और साधी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति, डॉक्टर नरेंद्र पांडे भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में 2 दिन विद्यार्थी और शोधार्थियों को सीखाया जाएगा कि कैसे मौखिक संस्कृति और भाषा का को डॉक्यूमेंटेशन की जाती है उनको फील्ड वर्क भी करवाया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉ. महाजन ने बताया समकालीन समय में शोधार्थी सिर्फ पीएचडी कर के ही अपना भविष्य नहीं बना सकता उसे समकालीन ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। और उन्होंने मुबारक दी के पंजाबी विभाग ऐसे और

भी कार्य करेगा और उन्होंने भी नरेश कुमार और सह संयोजक डॉ. करवाए हैं कार्यक्रम के संयोजक डॉ. हरजिंदर सिंह हैं।

aproyale bathsense ESSESS
BATHROOMS BATH FITTINGS
asianpaints asianpaints

AQUINI PLUMBER BATHWARE
LIFETIME WARRANTY ON FAUCETS
SWASTIK BUILDERS, MATOUR
MOB. 9805014000, 9805000084

मौखिक संस्कृति और भाषा प्रलेखन कार्यशाला शुरू



धर्मशाला : केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर विशिष्ट अतिथि सहित अन्य।

(ब्यूरो)

धर्मशाला, 3 सितम्बर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के पंजाबी एवं डोगरी विभाग और विकीमीडिया के सहयोग से 2 दिवसीय मौखिक संस्कृति और भाषा प्रलेखन कार्यशाला का आरंभ किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. ए. के. महाजन डीन डी. एस. डब्ल्यू.

और विशिष्ट अतिथि डा. नण्डूरी राजगोपाल डीन भाषा संकाय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डा. बृहस्पति मिश्र अध्यक्ष पंजाबी एवं डोगरी विभाग ने की। कार्यशाला में हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, इंगलिश, टूरिज्म और एजुकेशन विभाग के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं।